

प्रकाशक
गौतम बुक डिपो
दिल्ली

[सर्वाधिकार लेखक के अधीन]

मूल्य १)

मुद्रक
न्यू इंडिया प्रेस
नई दिल्ली

निवेदन

इस पुस्तक के विषय से मुझे केवल एक बात कहनी है। वह यह कि इसमें जो निबंध सङ्कलित हैं उनकी रचना किसी एक प्रेरणा-भाव से दबकर एक ही समय में नहीं हुई। कुछ निबंध आजसे चार-पाँच वर्ष पहिले के भी लिखे हुए हैं। इसलिए आप इन सभी में हिन्दी-साहित्य की नवीनतम घटनाओं और प्रवृत्तियों का उल्लेख अथवा विश्लेषण मत खोजिए। साहित्य की गतिमयी धारा में इस बीच अनेक परिवर्तन हुए हैं, स्वयं मेरे दृष्टिकोण से संकोच-विस्तार हुआ है जो कि व्यक्तित्व-विकासके साथ अनिवार्य ही था।

‘विचार और अनुभूति’ के कुछ गूरे निबंध—जैसे मुलेरीजी की कहानियाँ, वाणी के न्याय-मन्दिर में, महादेवीकी दो नवीन अभिव्यक्तियाँ, त्यागपत्र और नारी—तथा हिन्दी उपन्यास के कुछ अंश आँल इण्डिया रेडियो दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित हो रहे हैं।

कॉमर्सियल कॉलेज हॉस्टल, दिल्ली।

नगेन्द्र

शरद पूर्णिमा १९६१

दूसरा संस्करण

‘विचार और अनुभूति’ का यह दूसरा संस्करण है। कुछ विशेष-
मुविधाओं के कारण यह दिल्ली से ही छप रहा है। पहले संस्करण के मुद्रण-
प्रयत्न आदि पर जगदीश भाई की सुरुचि की जो छाप सर्वत्र वर्तमान थी,
वह तो इसमें नहीं मिलेगी—फिर भी शर्माजी ने इसको अत्यंत मनोयोग-
पूर्वक प्रकाशित किया है, और इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

दिल्ली

—नगेन्द्र

क्रमणिका

१	कवीन्द्र के प्रति	१
२	साहित्य की प्रेरणा	३
३	साहित्य और समीक्षा	११
४	साहित्य में कल्पना का उपयोग	१६
५	हिन्दी उपन्यास	२५
६	प्रसाद के नाटक	३६
७	गुल्लरीजी की कहानियाँ	४६
८	छायावाद की परिभाषा	५३
९	प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य	६१
१०	यौवन के द्वार पर	७२
११	आचार्य शुक्ल और डॉ० रिचर्ड्स	८५
१२	आलोचना की आलोचना	९४
१३	आधुनिक काव्य के आलोचक	९८
१४	चाणी के न्याय-मन्दिर में	११०
१५	दीप-शिखा	१२१
१६	महादेवी की आलोचक-दृष्टि	१३०
१७	त्यागपत्र और नारी	१३७
१८	अज्ञेय और शेखर	१४५

कवीन्द्र के प्रति

—एक प्रशस्ति—

कविगुरो ! तुम्हारा ध्यान आते ही मेरे सम्मुख एक विराट् पुरुष-मूर्ति का चित्र उपस्थित हो जाता है जो भारत के कन्धों पर खड़ी हुई समस्त विश्व का आलिंगन करने के लिए ब्राह्मण पसा रही है ।

तुम्हारे व्यक्तित्व को भारत ने बड़ी ममता से अपने अनेक उपकरणों से गढा था । उसने तुम्हें अपनी आनन्दमयी आत्मा, अपना गहन रहस्य-दर्शी मस्तिष्क और सबसे अधिक अपना भावोष्ण हृदय दिया था । तुम्हारा व्यक्तित्व भारत की विराट् संस्कृति का प्रतीक था—उसमें वेदों का भय-श्रद्धा समवेत विस्मय, उपनिषद् की अतल जिज्ञासा, वैष्णव-धर्म की तीव्र भक्ति-भावना और आधुनिक युग का अदृश्य विद्रोह था । भारत ने अपना सत्य-शिव-सुन्दर तुम में साकार कर दिया था ।

सत्य-द्रष्टा ! तुम्हारी पारदर्शिका आँखें जग के भौतिक आवरण को भेदती हुई उसके अन्तर-तत्त्वों पर जाकर टिकती थीं । तुम ने विश्व की सत्ता को अखण्ड रूप में प्राप्त कर जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया । तुम्हारी आसवाणी आज की भौतिकता के विरुद्ध एक ललकार थी । तुमने पदार्थ का तिरस्कार न करके उसी की दिव्यता का प्रतिपादन किया—भोग की स्वर्गिक महिमा का गान करने वाले तुम पहिले ऋषि थे ।

शिव-संकल्प ! तुमने पूर्व और पश्चिम को अपने अमर-स्वरो में बाँध दिया, और देश-देश में खण्डित मानवता को पुनः समन्वित करके विश्व-मानव का निर्माण किया, जिसकी आत्मा में पूर्व की तपस्या और शरीर में पश्चिम की कला थी । कञ्चन के महलों में रहकर तुमने धूलि-शायी की पीडा का अमर गान किया—पद-दलित और त्रस्त मानवता तुम्हारी वाणी को सुनकर आश्वस्त हो गई ।

सौन्दर्य-स्वप्ना ! तुम्हारी सृष्टि में रूप का पारावार हिलोरें ले रहा है । विश्व-कामिनी ने मानों वाञ्छित आराधक पाकर अपने अङ्ग-अङ्ग का सौन्दर्य-रहस्य तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया और तुम्हारी आत्मा उसका पानकर

कवीन्द्र के प्रति

रूप-विह्वल हो उठी। अर्चना समाप्त कर ज्योही तुमने अपनी छवि-मण्डि दृष्टि का उन्मेष किया, वसुधा का कण-कण स्वर्ग के मौन्दर्य में जगमगा उठा।

युग-पुरुष ! संसार ने तुम में युग-धर्म का साक्षात् दर्शन किया। भारत का प्राचीन और नवीन तुम्हारे व्यक्तित्व में एकरूप होकर उसके लिए अपना सन्देश बरन गया। घर में ही माँ की वन्दनी-मूर्ति देव तुम्हारा अन्तर्वाह्य काँप उठा, और तुम्हारी प्रताडित-आत्मा का चीन्कार दुर्धर-जीकचाँ को हिलाने लगा—“इस मृत्यु का उच्छेद करना ही होगा, इस भय-पाश का कृतान करना होगा—यह एकत्र हुई जड़ की राशि मृत-निस्कार पदार्थ दूर करना होगा”—और अन्त में गौरव-दीप्त मस्तक ऊँचा कर तुम ने यह घोषणा कर ही दी—“हे दिव्यधामवासी देवताओं, तुम्हारी तरह हम भी अमृत के पुत्र हैं—हम भी अमृत के पुत्र हैं।”

भारतीय जागरण के अग्रदूत ! तुम प्राची के आँगन में बाल-रवि के समान उदित हुए, तुम्हारी प्रखर किरणों ने भारत के जड़ी भूत अंधकार को विदीर्ण कर दिया—ज्यों-ज्यों तुम अपना स्वर ऊँचा करते गये हमारे रुद्ध-बन्धन शिथिल होते गये। हमारे जागरण का इतिहास तुम्हारे ही विकास का तो इतिहास है। भारतीय जीवन के एक विशाल युग पर तुम्हारा व्यक्तित्व प्रसरित है। हमारे युग ने अपनी जाग्रति के शैशव में तुम्हारे ही जागरण-गान गाये, यौवन में तुम्हारी ही रस-स्नात रचनाओं का आनन्द लिया और प्रौढ-वस्था में, हे मर्मी, तुम ने ही उसे आत्मा का रहस्य-चिंतन सिखाया। देश के एक विस्तृत भूभाग के हँसने और रोने में, करुणा और क्रोध में, प्रेम और घृणा में तुम्हारे गीतों की प्रतिध्वनि अब भी गूँजती है।

आज जब तुम्हारे ही अपने शब्दों में—रक्तवर्ण मेघों में शताब्दियों के सूर्य अस्त हो गये हैं, जब हिंसा के उत्सव में अस्त्रों की कंकार के साथ-ही-साथ मृत्यु की भयङ्कर उन्माद-गागिणी बज रही है, जब भद्र-वेशिनी बर्बरता पङ्क-शय्या से जगकर उठी है, जब कवियों का स्वर श्मशान-श्वानों की छीना-झपटी के गीत अलाप रहा है, हे विश्व-शान्ति के गायक, तुम्हारे स्वर सदा के लिए मौन है। आज तुम्हारी विश्व-प्रिया अर्द्धनग्न होकर, दोनों बाहे शून्य में पसारे हुए रक्तार्द्र स्वरों में कह रही है : “जेते नाही देवे”—तुम्हें न जाने दूँगी ! तुम्हें नहीं जाने दूँगी !

साहित्य की प्रेरणा

कविता-पाठ समाप्त कर ज्यों ही कवि ने अपना स्थान ग्रहण किया, रस-विमुग्ध सुन्दरी बोल उठी, “इन कविताओं की प्रेरणा तुमको कहाँ से मिलती है, कवि ?”

कवि ने सुन्दरी के आर्द्र-प्रापत नयनों की ओर एक बार दृष्टि उठाई, फिर चुप हो गया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद सुन्दरी ने प्रश्न को फिर से दुहराया।

इस बार कवि सुन्दरी के नेत्रों में दृष्टि गड़ाये उनकी ओर तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी आँखें पूर्णतः वाष्प-धूमिल न हो गईं; लेकिन मुँह से बोला कुछ भी नहीं।

सुन्दरी का कौतूहल और उत्कण्ठा अब और भी बढ़ गयी। उसने तीसरी बार फिर उत्तर के लिए आग्रह किया। इस मधुर आग्रह को कवि अब और न टाल सका। बोला, “सुन्दरी, उत्तर तो तुम्हें मेरी इन आँखों ने दे ही दिया। लेकिन शायद तुम उसे समझी नहीं। तो सुनो : अभी तुम ने देखा कि तुम्हारी आँखों को देखते देखते मेरे मन के गहन स्तरों में सोयी हुई वासना-रूप पीड़ा एक साथ द्रवित होकर आँखों में आ गयी—मेरी कविता के स्फुरण की ठीक यही कहानी है। सौन्दर्य के उद्दीपन से जब जीवन के सञ्चित अभाव अभिव्यक्ति के लिए फूट पड़ते हैं तभी तो कविता का जन्म होता है। कविता के उदक के लिए सौन्दर्य का उद्दीपन अर्थात् आनन्द और अभाव को पीड़ा दोनों का संयोग अनिवार्य है—अभाव की पीड़ा में जब मुझे माधुर्य की अनुभूति होने लगती है तभी मेरे मानस से कविता की अद्भूति होती है—केवल आनन्द या केवल पीड़ा कविता की सृष्टि नहीं कर सकती। मैं बस इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक जानने की इच्छा हो तो (सामने बैठे श्वेतजटाशमश्रु आचार्य की ओर संकेत करते हुए कहा) गुरुदेव की शरण लो।”

सुन्दरी की जिज्ञासा अभी पूर्णतः शान्त नहीं हो पाई थी, निदान उसने आचार्य की ओर जिज्ञासु-दृष्टि से देखा।

साहित्य की प्रेरणा

आचार्य ने ईपत् हास्य के साथ कहना शुरू किया : “कवि ने स्वयं अपनी प्रेरणा की जितनी सुन्दर व्याख्या की है उतनी मेरी शक्ति से बाहर है, परन्तु मैं समझता हूँ कि शायद कवि की कविता के बाढ़ तुम्हें आचार्य के गद्य की भी आवश्यकता है। अच्छा सुनो, हमारे शास्त्र में काव्य की प्रेरणा का सीधा व्याख्यान नहीं मिलता। यह तो नहीं माना जा सकता कि भारतीय साहित्यकार उससे सर्वथा अपरिचित था। उदाहरण के लिए कविता के प्रथम स्फुरण से सम्बद्ध जन-श्रुति ही इसका अकाट्य प्रमाण है—

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् ।

इसमें काममोहित अवस्था में क्रौञ्च के वध से उत्पन्न करुणा की प्रेरणा स्वीकृत की गई है—साधारण वध से उत्पन्न करुणा की नहीं—अर्थात् इस करुणा में काम का अन्तर्सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा साहित्यकार यह जानता था कि करुणा और काम अर्थात् अभाव और आनन्द के संयोग से काव्य का जन्म होता है। परन्तु फिर भी वैधानिक रूप से भारतीय-साहित्य-शास्त्र में केवल काव्य-प्रयोजन और काव्य-हेतु की ही चर्चा है। इन दोनों के विवेचन में से ही हमें प्रेरणा-विषयक संकेत ढूँढने होंगे।

काव्य के मुख्य प्रयोजन दो हैं : श्रोता या पाठक के लिए प्रीति और कवि के लिए कीर्ति।

‘प्रीतिं करोति कीर्तिं’ च साधु काव्य निषेवणम् ।’

प्रीति का अर्थ है आनन्द, जीवन में रस, और श्रोता के लिए यही मुख्य है—

कवि के लिए यश और अर्थ, और इसके साथ ही शिवेतर का क्षय भी काव्य-प्रेरणा का कार्य करता है। इनमें शिवेतर का क्षय तो आज के बेचारे कवि के लिए सम्भव नहीं है। यह सुनकर कि गङ्गा लहरी की रचना से संस्कृत के पण्डितराज जगन्नाथ और हिन्दी के पद्माकर का कोढ़ ठीक हो गया था, हमारे एक मित्र ने काफी मनोयोग से अपनी प्रेमिका को पाने के लिए काव्य-रचना की, परन्तु आखिर उन्हें अदालत की कार्यवाही काव्य-रचना की अपेक्षा अधिक सार्थक जान पड़ी। अर्थ और यश से प्रेरित होकर आज भी लोग लिखते ही हैं, परन्तु ये दोनों तो बड़े उथले साधन हैं। किसी कवि को लिखने की साधारण प्रेरणा तो ये दे भी सकते हैं, परन्तु रस-सृष्टि करने की प्रेरणा इनमें कहाँ? यह ठीक है कि विहारी जैसे कवियों को एक दोहे के लिए एक मुद्रा का वचन मिला हो, परन्तु मुद्रा की प्रेरणा केवल दोहे की

रचना-मात्र के लिए ही उसको उत्साहित कर सकी होगी। यही यश के लिए भी कहा जा सकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि यश की प्रेरणा अर्थ की प्रेरणा की अपेक्षा सूक्ष्म और आन्तरिक है, परन्तु फिर भी यश की लालसा और रस-सृजन की प्रवृत्ति दोनों का तादात्म्य कर देना सर्वथा असंभव होगा। काव्य-प्रयोजन के उपरान्त काव्य-हेतुक में प्रेरणा की व्याख्या खोजने से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। काव्य के जो तीन हेतु सर्वमान्य हैं—शक्ति, निपुणता और अभ्यास—इनके व्याख्यान में भी संस्कृत के आचार्यों ने प्रेरणा का विवेचन लगभग नहीं के बराबर ही किया है। शक्ति के भिन्न भिन्न नाम हैं। भामह और भट्टतौत आदि इसे प्रतिभा कहते हैं—अभिनव गुप्त प्रज्ञा। इन तीनों में भी प्रतिभा मुख्य है। प्रतिभा को नवनवोन्मेषशालिनी और अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा कहा गया है। और स्पष्ट शब्दों में प्रतिभा मनका वह जन्मान्तर्गत संस्कारविशेष है जिसके द्वारा कवि अपने वर्ण्य विषय में अलौकिक सौन्दर्य का दर्शन कर सशक्त शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। निपुणता या व्युत्पत्ति प्राप्त करने के लिए कवि का अनुभव और ज्ञान विस्तृत होना चाहिए—उसके लिए शास्त्र, कला, नीति, काम, इतिहास, राजनीति आदि की अपेक्षा होती है। अभ्यास से तात्पर्य है रचना-अभ्यास का—अलङ्कार, छन्द, साहित्य-शास्त्र के अनुशीलन और प्रयोग का। शास्त्रीय विवेचन से परिणाम वास्तव में यह निकलता है कि हमारे आचार्यों के अनुसार कवि एक व्युत्पन्न प्रतिभावान् व्यक्ति है और उसका कर्म है जीवन के क्षेत्र में से रागात्मक तत्वों को सञ्चित कर उनको इस प्रकार संघटित करना कि संघटित होते ही उनमें आप से आप रसका सञ्चार हो जाय जिस प्रकार भूतवादियों के मतानुसार जीव-सृष्टि में होता है। यह कवि-कर्म के वाच्य रूप की व्याख्या है, क्रिया में सलग्न कवि के मानस का विश्लेषण नहीं है।

संस्कृत-शास्त्र के तत्ववेत्ता ने जितना परिश्रम रस-ग्राही पाठक की मनःस्थिति का विश्लेषण करने में किया है उसका एक सूक्ष्मांश भी रस-सृजेता के मनो-विश्लेषण पर खर्च नहीं किया। उसने यह तो बड़ी मर्यादा से हँस निकाला कि दुष्यन्त और शकुन्तला की रति का अभिनय या मानसिक चित्र देखकर सहृदय के मन में स्थित वासना-रूप रति उद्बुद्ध होकर रस में परिणत हो जाती है, परन्तु इसके आगे एक दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य का विश्लेषण उसने विशेष रूप से नहीं किया—कि दुष्यन्त और शकुन्तला की रति का हृदय सशक्त और तीव्र चित्रण, जो सहृदय की वासना को उत्तुष्ट कर रस रूप

साहित्य की प्रेरणा

मे परिणत कर सके कवि के लिए किस प्रकार सम्भव होता है। यहाँ उसका काव्य-प्रेरणा का मौलिक विवेचन करने की आवश्यकता पडती, और वह निश्चित ही कवि के व्यक्तित्व मे उसे ढूँढ निकालता। उसके लिए इस परिणाम पर पहुँच जाना कठिन नहीं था कि ऐसा करने के लिए कवि को भी उसी मानसिक स्थिति में से गुज़रना आवश्यक है—और वास्तव मे भट्टतांत ने तो कहा भी था कि 'नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः'—परन्तु विधान-रूप में उसे स्वीकृत नहीं किया गया। बस, यहीं वह चूक गया और स्थूलतः प्रतिभा-निपुणता आदि मे इस प्रश्न का अकाव्य समाधान पाकर अपने विवेचन को अधूरा छोड़ गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था—वह यह कि भारतीय परम्परा अखण्ड रूप से काव्य के केवल निवैयक्तिक रूप को ही मानती रही—यदि ऐसा न होता तो भट्टनायक या अभिनव जैसे अनलदर्शी तत्त्वज्ञों के लिए यह समस्या विशेष जटिल नहीं थी।

पश्चिम मे काव्य-शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में साहित्य की प्रेरक प्रवृत्ति-विषयक चर्चा मिलती है। पहले साहित्य-शास्त्र के पण्डितों के सिद्धान्तों को लीजिए। वहाँ के आदि-आचार्य अरस्तू ने अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य की मूल प्रेरणा कहा है। उनका कथन है कि जो प्रवृत्ति बालक को अपने माता-पिता आदि की भाषा, व्यवहार आदि का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है, वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य-रचना की भी प्रेरणा देती है। यह बहुत ही आरम्भिक विचार था और आज इसको प्रायः कोई नहीं स्वीकार करता। साहित्य या कला अनुकरण-मात्र नहीं है, आनन्दपूर्ण सृजन है।

दूसरा सिद्धान्त मानव के जन्म जात सौन्दर्य-प्रेम को उसकी आत्म-प्रदर्शन और अनुकरण-प्रवृत्ति को साहित्य की मूल-प्रेरणा मानता है। मानव-आत्मा ज्ञान के चिर-सौन्दर्य से उद्भासित है, उसी को वह विभिन्न रूप में व्यक्त करती रहती है, जिनमें सबसे प्रत्यक्ष और सहजरूप है साहित्य एवं कला। सौन्दर्यानुभूति के क्षणों मे हमारी आत्मा मे आनन्द का जो स्रोत आविर्भूत होता है उसी का उच्छलन कविता है। काव्य-प्रेरणा का यह रहस्यात्मक सिद्धान्त पूर्व और पश्चिम में अत्यन्त लोक-प्रिय और मान्य रहा है। विदेश में हीगेल का नाम इसके साथ सम्बद्ध है।

तीसरा प्रमुख सिद्धान्त है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, जिसके अनुसार काव्य शुद्ध सहजानुभूति है। संसार मे आकर मानव अपने से बाहर

साहित्य की प्रेरणा

जगत की सहजानुभूति प्राप्त करने के लिए अर्थात् जगत के संसर्ग से मन में उत्पन्न होने वाली अरूप भङ्कृतियों को रूप देने के लिए जितने प्रयत्न करता है काव्य या कला उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही मानव-आत्मा को अनात्म की भव्यतम सहजानुभूति होती है। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि मानव-मन में जगत के नाना पदार्थों के प्रतिक्रिया-रूप अनेक छाया-चित्र घूमते रहते हैं, अनुभूति के कुछ विशेष क्षणों में उनको अभिव्यक्त करना उसके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो जाता है। अभिव्यक्ति की यही अनिवार्यता काव्य या कला की जननी है; साहित्य को सृजनकी आवश्यकता मानने वाला सिद्धान्त इसी मूल सिद्धान्त की एक शाखा-मात्र है।

काव्य-शास्त्रियों के ये सिद्धान्त बहुत-कुछ सङ्गत और सूक्ष्मान्वेषी होते हुए भी आत्यन्तिक नहीं हैं। वे एकदम मूलतक नहीं पहुँच पाते। यों कहिए कि वे सभी मूल से एक संस्थान आगे से चलते हैं। धुर-मूल तक पहुँचने के लिए हमें मनोवैज्ञानिकों की शरण लेनी होगी।

सबसे प्रथम सिद्धान्त फ्रायड का है। वह कला या साहित्य को अभुक्त काम की प्रेरणा मानता है। उसके अनुसार काव्य और स्वप्न का एक ही मूल है: हमारा अन्तर्मन, हमारी अतृप्त काम-वासना, जो स्वप्न के छाया-चित्रों का सृजन करती है, वही काव्य के भी भाव-चित्रों को जननी है। सिद्धान्त इस प्रकार है कि हमारी वासना को यदि प्रत्यक्ष जीवन में तृप्ति नहीं मिलती तो वह अन्तर्मन में जाकर पड़ जाती है और फिर ऐसी अवस्था में जब कि हमारा चेतन मन जागरूक नहीं होता, वह अपने को परितृप्त करने का प्रयत्न करती है। यह अवस्था या तो स्वप्न की अचेतनावस्था है या काव्य-सृजन की अर्ध-चेतनावस्था—तन्मयता की अवस्था है।

काम के दमन से स्वभाव में जो ग्रंथियाँ पड़ जाती हैं उनमें सबसे मुख्य है मातृ-रति की ग्रंथि, जो न केवल स्वप्न और काव्य के अनेक स्थायी प्रतीकों की वरन् जीवन की अनेक प्रवृत्तियों की भी जननी है। ऑटोरैक का कथन है कि संसार के साहित्य में जो मूल-कथाएँ हैं उनका आधार-मन्वन्ध इसी ग्रंथि के विभिन्न रूपों से है। पूर्व और पश्चिमके पुराणों में तो स्थान-स्थान पर इयकी स्पष्ट स्वीकृति है ही—जैसे, ब्रह्मा और उसकी कन्या की कहानी में। प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्दो द विञ्ची का मनोविश्लेषण करने में फ्रायड ने उसके शैशव की ऐसी ही एक फ्रैन्टैसी को अत्यधिक महत्व दिया है। विञ्ची ने अपने बचपन की एक

साहित्य की प्रेरणा

विचित्र काल्पनिक धारणा का उल्लेख किया है उसके मन में कुछ ऐसी धारणा बँध गयी थी कि एक बार जब वह पालने में लेटा हुआ था एक गृह आकर उसके पास बैठ गया और अपनी पूँछ को बार-बार उसके मुँह में डालने निकालने लगा। इस कल्पना के आधार पर—अपने प्रतीक-सिद्धान्त के द्वारा फ्राँयड ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी वामना समकामिकता में अभिव्यक्त हुई थी और उसका प्रेम प्रेरक नहीं था प्रेरित था। इस प्रवृत्ति का मूल कारण यह था कि पिता के अभाव में उसकी मात्र-रति अत्यन्त जागृत हो गई थी जो उसे किसी भी स्त्री की ओर आकर्षित न होने देती थी। 'मोनालीसा' के चित्र में वह इसी मात्र-रति की अभिव्यक्ति देखता है।

फ्राँयड का सिद्धान्त उसके जीवन-दर्शन से सम्बन्ध रखता है—वह तो काम को जीवन की ही मूल प्रेरणा मानता है। काम का अस्वस्थ दमन जीवन की विनाशात्मक क्रियाओं में और उसका स्वस्थ संस्कार जीवन की रचनात्मक संस्थाओं में अभिव्यक्त हो रहा है। मानव के सौंदर्य-प्रेम का उसकी काम-वृत्ति में, और हमारी सौंदर्य-भावना का हमारी प्रीति से, सहज सम्बन्ध है।

स्वस्थ रूप में तो काम का उपभोग न कर जब उसको चिन्तन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो साहित्य की सृष्टि होती है; और अस्वस्थ रूप में, जैसा मैंने अभी कहा, काम अभुक्त रह कर साहित्य के मूलवर्ती भाव-चित्रों की सृष्टि करता है। साहित्य-शास्त्र का दूसरा सौंदर्य प्रेम को काव्य की मूल-प्रेरणा स्वीकार करने वाला सिद्धान्त बहुत कुछ इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत आजाता है।

फ्राँयड का समसामयिक और शिष्य ऑडलर, जो मानव की चिरन्तन हीनता की भावना को ही जीवनकी मूल-प्रेरणा मानता है, साहित्य के मूल-कीटाण क्षति-पूर्ति की कामना में खोजता है। उसके अनुसार समस्त साहित्य हमारे जीवनगत अभावों की पूर्ति है : जो हमें जीवन में अप्राप्त है उसीको हम कल्पना में खोजते हैं। जीवन की क्षणिकता जीवन के अशिव और उसकी कुरूपताओं से हार मान कर ही तो मात्र-कवि ने सत्य, शिव और सुन्दर की कल्पना की थी। वास्तव में हमारा आदर्श हमारी हीनता का ही तो प्रतिक्रिया रूप है। जीवन में त्रिविध-दुःख की अनिवार्यता ही ब्रह्मानन्द कल्पना की जननी हैं। सामयिक जीवन में गो-ब्राह्मण का हनन करने वाले मुसलमानों के विरुद्ध विवश होकर ही तुलसी ने गो-ब्राह्मण-प्रतिपाल दुष्ट-दलन राम की कल्पना

की थी। प्रत्यक्ष जीवन में सौंदर्य-उपभोग से वंचित रह कर ही तो छायावादी कवि ने अतीन्द्रिय सौंदर्य के चित्र आँके। पलायन का चिर-परिचित सिद्धांत इसी का एक प्रस्फुटन है।

उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों को आंशिक सत्य मानते हुए एक तीसरे मनो-विज्ञानी युग ने जीवनेच्छा को ही जीवन की मूल प्रेरणा माना है। उसके अनुसार मानव के सम्पूर्ण प्रयत्न अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही होते हैं। पुत्र, वित्त और लोक की एङ्गाएँ जीवनेच्छा की ही शाखाएँ हैं। साहित्य भी इसी उद्देश्य-पूति के निमित्त किया हुआ एक प्रयत्न है। जीवन अथवा अपने अस्तित्व—जीवन की गति—को अक्षुण्ण रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने को अभिव्यक्त करते रहें। वैसे तो हमारी सभी क्रियाएँ हमारी प्राण-चेतना की अभिव्यक्तियाँ हैं, परन्तु साहित्य उसकी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, अन्य क्रियाओं की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और शान्तरिक। इस प्रकार साहित्य-शास्त्र का अभिव्यंजनावादी सिद्धांत युग के सिद्धांत में ही अंतर्भूत हो जाता है।

इतना कह कर आचार्य मौन हो गये।

“पौरस्त्य और पाश्चात्य काव्य-सिद्धांतों का विवेचन सुन कर मैं धन्य हो गई महाराज।” सुन्दरी ने अपनी सहज कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा।

“परन्तु तुम्हारी आँखों के प्रश्नवाचक संकेत तो अब भी कह रहे हैं कि जिज्ञासा अभी अशेष नहीं हुई और तुम अभी मेरा अपना मन्तव्य सुनना चाहती हो।”

“गुरुदेव ने मेरा आशय ठीक ही समझा है”, सुन्दरी ने उत्तर दिया।

“अच्छा, मेरा अपना मन्तव्य सुनो। यह तो मैं तुम से पहिले ही कह दूँ कि मेरा मन्तव्य कोई सर्वथा स्वतन्त्र मन्तव्य नहीं है—उपर्युक्त सिद्धांतों से पृथक् उसका अस्तित्व नहीं है और न हो ही सकता है। मैं जीवन को अहं का जगत से या आत्म का अनात्म से संघर्ष मानता हूँ। इस संघर्ष की सफलता जीवन का सुख है और विफलता दुःख। साहित्य इसी संघर्ष के मानस-रूप की अभिव्यक्ति है। मानस-रूप की अभिव्यक्ति होने के कारण उसमें दुःख का अभाव होता है, क्योंकि संघर्ष की घोरतम विफलता भी मानस-रूप धारण करते करते अपना दंशन खो देती है। मैंने भी कविता लिखी है— मैं जब स्वयं अन्तर्मुख होकर अपने से पूछता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका उत्तर यही पाता हूँ कि अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है; और मेरा यह व्यक्तित्व मेरे राग-द्वेषों का,

जिन में से अधिकांश काम-चेतना के प्रोढ़भाग हैं, संश्लिष्ट समूह हैं। मेरे इन राग-द्वेषों में भी उन्हीं को अभिव्य करने की उत्कट आवश्यकता होती है जिनका सम्बन्ध अभाव से है। क्योंकि अभाव में पुकारने की प्रेरणा होती है, पूर्ति में शान्त रहने की। इसका तात्पर्य यह है कि मैं कविता या कला के पीछे आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा मानता हूँ, और चूँकि आत्म के निर्माण से काम-वृत्ति का और उसकी अतृप्तियों का योग है, इसलिए इस प्रेरणा में उनका विशेष महत्त्व मानना भी अनिवार्य समझता हूँ।”

“तो इसका अर्थ यह हुआ, गुरुदेव, कि प्रत्येक व्यक्ति साहित्य की रचना करता है ?”

“हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए, कि अपने जीवन के विशिष्ट क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति अवश्य साहित्य की सृष्टि करता है, चाहे वह कोई स्थिर आकार धारण कर हमारे सामने न आये; और नहीं इसलिए, कि रूढ़ अर्थ में जिसे साहित्य कहते हैं वह साधारण व्यक्तित्व की साधारण अभिव्यक्ति नहीं है, विशेष व्यक्तित्व की विशिष्ट अभिव्यक्ति ही है। विशिष्ट व्यक्तित्व का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके राग-द्वेष असाधारण रूप से तीव्र हों—इतने तीव्र हो कि उसके आत्म और अनात्म के बीच होने वाला संघर्ष असाधारणतः प्रखर हो। ऐसा ही व्यक्ति प्रतिभावान् कहलाता है—जिस व्यक्ति के अहं और वातावरण में या प्रवृत्ति और कर्तव्य में—अथवा फ्राँड की शब्दावली में अन्तर्चेतन और निरीक्षक-चेतन के बीच—जितना ही उत्कट संघर्ष होगा उसकी प्रतिभा भी उतनी ही प्रखर होगी और उतनी ही प्रखर उसकी सृजन की प्रेरणा भी।

इस प्रकार संक्षेप में मेरे निष्कर्ष ये हैं :—

(१) काव्य के पीछे आत्माभिव्यक्ति की ही प्रेरणा है।

(२) यह प्रेरणा व्यक्ति के अंतरंग—अर्थात् उसके भीतर होने वाले आत्म और अनात्म के संघर्ष से ही उद्भूत होती है। कहीं बाहर से जानबूझ कर प्राप्त नहीं की जा सकती।

(३) हमारे आत्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है उनमें काम-वृत्ति का प्राधान्य है, अतएव हमारे व्यक्तित्व में होने वाला आत्म और अनात्म का संघर्ष मुख्यतः काममय है, और चूँकि ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है, उसकी प्रेरणा में काम-वृत्ति की प्रमुखता असंदिग्ध ही है।

साहित्य और समीक्षा

साहित्य का जीवन से दुहरा सम्बन्ध है : एक क्रिया रूप में, दूसरा प्रतिक्रिया रूप में। क्रिया रूप में वह जीवन की अभिव्यक्ति है, सृष्टि है; प्रतिक्रिया रूप में उसका निर्माता और पोषक है। जिस प्रकार एक सुपुत्र अपने पिता से जन्म और पोषण पाकर उसकी सेवा और रक्षा करता है, इसी प्रकार साहित्य भी जीवन से प्राण और रक्त-मांस ग्रहण कर फिर उसको रस प्रदान करता है। जीवन की मूल भावना है आत्म-रक्षण, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने जीवनेच्छा कहा है। आत्म-रक्षण के उपायों में सबसे प्रमुख उपाय आत्माभिव्यक्ति ही है। अतः क्रिया रूप में साहित्य आत्म-रक्षण अथवा जीवन का एक सार्थक प्रयत्न है। यही अभिव्यक्ति जब ज्ञान-राशि का सञ्चित कोष बन जाती है तब प्रतिक्रिया रूप में मानव-जीवन का पोषण और निर्माण करती है।

—उपयोगिता का प्रश्न—

जैसा मैंने अभी कहा, मनुष्य की समस्त क्रियाएँ आत्म-रक्षण के निमित्त होती हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, सही या गलत, उनका यही उद्देश्य होता है—और वास्तव में उनकी सार्थकता भी इसी से है। अतएव हमारे प्रयत्नों का मूल्य आँकने की कसौटी यही है कि वे आत्म-रक्षण में कहाँ तक सार्थक होते हैं। यहाँ आत्म का अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। आत्म-रक्षण का तात्पर्य उस स्वार्थबुद्धि से नहीं है जो अपने में ही संकुचित रहती है। सचमुच आत्म-रक्षण की परिधि में समाज, देश, विश्व सभी कुछ आ जाता है। अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने वातावरण और परिस्थिति से सामञ्जस्य स्थापित करना अनिवार्य है। व्यापक रूप में जो कुछ धर्म की परिधि में आता है वही सब आत्म-रक्षण की परिधि में भी आ जाता है क्योंकि धर्म उन सभी प्रयत्नों की समष्टि है, जो जीवन को धारण किए रहने के निमित्त होते हैं—ध्रियते यः सः धर्मः। अतएव हमें प्रत्येक क्रिया या वस्तु का मूल्य परखने के लिए एक बात देखनी चाहिए : वह कहाँ तक धर्मानुकूल है, अर्थात् कहाँ तक जीवन के जीने में उपयोगी है ?

जहाँ तक इस कसौटी का प्रश्न है, हमारी धारणा है कि इस विषय में आस्तिक-नास्तिक, विश्वासी - वैज्ञानिक, प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी किसी को भी मतभेद न होगा। परन्तु उपयोगिता की परीक्षा सब एक ढङ्ग से

साहित्य और समीक्षा

न कर सकेंगे। उपयोगिता का एक तो स्थूल और प्रत्यक्ष रूप है जिसको पकड़ लेना सहज-सुलभ है। प्रत्येक युग का स्थूल-द्रष्टा सुधारक मन्त्र ही इसीको लेकर लम्बे-चौड़े व्याख्यान देता रहा है—द्विवेदी-युग में साहित्य का यही रूप ग्रहण किया गया था। उम्र समय लोगों के पास कुछ मॉड-मोटे नैतिक सिद्धान्त थे जिनके अनुसार साहित्य को परख कर वे उस पर मत और असन् का लेबिल लगा देते थे। यह मूल्यांकन किस प्रकार थोड़ा फ़लाभ और अधिक हानि करता है इसका ज्वलन्त प्रमाण है उस समय का साहित्य, जिसका महत्त्व आज प्रायः ऐतिहासिक ही रह गया है। इसके विपरीत उपयोगिता का एक सूक्ष्म और सूक्ष्म रूप भी है जिसको देखने के लिए मॉटी नज़र काम नहीं देती। बाहर से देखने पर जो बात अत्यन्त जीवनप्रद मालूम पड़ती है वह अपने आत्यन्तिक रूप में जीवन का गतिरोध करती है, ऐसा हम प्रायः देखते हैं। उदाहरण के लिए अपने पिछले सुधार-युग—साहित्य में जो द्विवेदी-युग है समाज में वही सुधार-युग—का जीवन लिया जा सकता है। नीति की चर्चा करते-करते किस प्रकार उम्र जीवन में दम्भ, पाखण्ड और असहानु-भूति का प्रवेश हो गया यह कोई रहस्य नहीं है। अतएव उपयोगिता को हमें गहराई में जाकर देखना चाहिए और परखना चाहिए उम्रका स्थायी मूल्य, न कि तात्कालिक मात्र।

वस्तु का स्थायी महत्त्व बहुत कुछ उसकी आनन्ददायिनी शक्ति पर निर्भर रहता है। जो आनन्ददायक है वह उपयोगी है ही, इसी बात को भूल कर आलोचक प्रायः सुन्दर से सुन्दर साहित्य के प्रति अन्याय कर बैठता है। हिन्दी के रीतिकालीन साहित्य की उपेक्षा इसका एक प्रमाण है। 'कला कला के लिए है' और 'कला जीवन के लिए है', इन दोनों सिद्धांतों में जो द्वंद्व-युद्ध चलना वह बहुत कुछ इसी भूल के कारण। 'कला कला के लिए है' सिद्धांत का प्रतिपादक भी वास्तव में शुद्ध आनन्द को ही कला का उद्देश्य मानता है, उधर कला को जीवन की परिचारिका मानने वाला सम्प्रदाय भी उसके द्वारा पहले आनन्द ही खोजता है। इसके प्रमाण में स्वयं आँस्कर वाइल्ड और रस्किन के अनेक उद्धरण पेश किये जा सकते हैं। आनन्द की उपेक्षा कर कला जीवित नहीं रह सकती। स्थूल से स्थूल रूप में भी उसकी सार्थकता 'कान्तासम्मिमतयोपदेशयुजे' में ही है। अतएव काव्य की कसौटी है उसकी शुद्ध आनन्ददायिनी शक्ति जिसे अपने शास्त्रकारों ने रस कहा है। रस का अर्थ व्यापक रूप में आनन्द से चलकर जीवन-पोषक तत्त्व तक है : चरक में

रस शब्द का यही तात्पर्य है। जीवन अथवा आनन्द मनुष्य क्या, प्राणि-मात्र का चिरन्तन लक्ष्य है। समय के अनुसार उसका वाह्य सदैव बदलता रहा है—जीने की विधि बदलती है, परन्तु जीना (आनन्द-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना) तो निश्चय ही एक शाश्वत सत्य है—इसको घोर से घोर अशाश्वतवादी भी अस्वीकृत नहीं कर सकता।

यह मान लेने पर कि कला-कृतियों का सापेक्षिक महत्त्व उनकी आनन्द-दायिनी शक्ति पर आश्रित है दो प्रश्न उठते हैं : आनन्द का परिमाण कौन निश्चय करे ? और कैसे करे ? 'कौन' का उत्तर है : अधिकारी भोक्ता या अनुभव-कर्त्ता, जिसकी मैं निश्चित विशेषताएँ मानता हूँ संवेदनशीलता और संस्कृत-शिक्षित रुचि। काव्य का जीवन की अन्य अभिव्यक्तियों की भाँति एक विशेष माध्यम है और एक विशेष शैली। अर्थात् वह जीवनाभिव्यक्ति की एक विशेष कला है जिसका अपना पृथक् रूप है, अपने पृथक् लक्षण-नियम हैं, और इनसे घनिष्ठ परिचय रखने वाला व्यक्ति ही उसका निर्णय करने का अधिकारी है। जीवन की विभिन्न विद्याओं और कलाओं की भाँति ही वह अधिकारियों की, विशेषज्ञों की वस्तु है, जनसाधारण की नहीं। दूसरा प्रश्न है : कैसे करे ? तो विशेषज्ञ के लिए कला-कृतियों का सापेक्षिक महत्त्व आँकना, सूक्ष्म शब्दों में आनन्द का परिमाण आँकना कठिन नहीं है। उसके लिए सबसे निर्भ्रान्त मार्ग है पहले यह देखना कि कृति का कर्ता कहाँ तक उसमें अपने व्यक्तित्व को अनुदित अर्थात् लय कर सका है और फिर यह भी देखना कि यह व्यक्तित्व अपेक्षाकृत कितना प्राणवान् है। अधिक प्राणवान् व्यक्तित्व का पूर्ण अनुवाद या लय कम प्राणवान् व्यक्तित्व के पूर्ण लय की अपेक्षा गुरुतर कार्य है, स्वभावतः उसके द्वारा प्राप्त आनन्द अधिक सशक्त और परिपक्व होगा और कृति का महत्त्व भी गुरुतर होगा। कलाकार मूल्य कलाकार के आत्माभिव्यंजन पर निर्भर है : उसका आत्म जितना प्राणवान् और जितना निष्कपट, तीव्र एवं सम्पूर्ण होगा, कला उतनी ही रसवती और जीवनप्रद होगी। हाँ, रस की अनुभूति और अभिव्यक्ति के विषय में थोड़ा विवाद उठ सकता है। अनुभूति के लिए तो कोई निश्चित सिद्धांत बना देना कठिन है, परन्तु रसाभिव्यक्ति की शक्ति निश्चय ही कलाकार के आत्मभिव्यंजन पर निर्भर है। वह आत्मभिव्यंजन जितना निष्कपट, तीव्र एवं सम्पूर्ण होगा कला उतनी ही रसवती होगी—कह एक प्राणवान् जीवन का जितना सफल अनुवाद होगी, उतनी ही जीवन-प्रद भी होगी।

साहित्य और समीक्षा

अतः साहित्य की आत्मा है रस, और इसी रस की परीक्षा करना आलोचना का उद्देश्य है।

—परीक्षण विधि—

अब हमें रस-परीक्षण की विधि का अध्ययन करते हुए उसके कुछ सिद्धान्तों को स्थिर करना है—ये ही वास्तव में समीक्षा के मूल सिद्धान्त होंगे। रस की व्याख्या में ऊपर यर चुका है : इसका अर्थ है आनन्द। कोई रचना रसवती तभी हो सकती है जब रचयिता उसमें अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः अनूदित कर दे। अपने व्यक्तित्व का अनुवाद ही रचयिता के लिये सबसे बड़ा आनन्द है, इसी के अनुसार उसकी रचना में भी आनन्द देने की शक्ति होगी—और आनन्द केवल मनोरंजन नहीं है, उसका अभिप्राय है अन्तर्वृत्तियों का सामञ्जस्य।

धर्म की व्यवस्था करते हुए आचार्य ने उसके चार लक्षण बताये हैं : आत्मनः प्रिय, सदाचार, स्मृति और वेद (के अनुकूल)। ये चार बातें हमें आलोचना के मूल सिद्धान्त स्थिर करने में सहायक होंगी। सबसे पहली बात जो रस-परीक्षण के लिए आवश्यक है वह है आत्मनः प्रिय—कोई कृति आलोचक को स्वयं कैसी लगती है, उसका अध्ययन करने पर उसकी अपनी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होती है यह देखना। आलोचना कितनी ही वैज्ञानिक और राग-द्वेषहीन होने का दावा क्यों न करे, आलोचक की व्यक्तिगत धारणा और प्रतिक्रिया उसमें प्रमुख कार्य करेगी ही। तभी वह वास्तव में साहित्य का अङ्ग बन सकती है। परन्तु 'आत्मनः प्रिय' का संकुचित अर्थ मत्स्य आलोचना के लिए उसी प्रकार घातक होगा जिस प्रकार धर्म के लिए। आचार्य जहाँ धर्म का लक्षण 'अपनी आत्मा को प्रिय होना' करता है वहाँ आत्मा से उसका तात्पर्य शुद्ध अतिकृत अंतःकरण से है। इसी प्रकार आलोचक का आत्म भी शिथिल और संस्कृत होगा यह प हले से ही मान लिया गया है। साधारण पाठक की अपेक्षा उसकी रसानुभूति तीव्र और अभिरुचि परिष्कृत होगी जो उसे बिना कठिनाई के सुन्दर और असुन्दर की पहिचान करा सकेगी। साथ ही वह केवल 'क्या सुन्दर है?' यही देख कर सन्तुष्ट न हो जाएगा, वरन् यह भी जानने का प्रयत्न करेगा कि ऐसा क्यों है। 'क्यों' का विवेचन उसे मीमांसा मनोविज्ञान और सौंदर्य-शास्त्र की ओर ले जाएगा। वह कलाकार का मनोविश्लेषण करता हुआ अपनी मनकी स्थिति

का भी अध्ययन करेगा और दोनों के बीच तारतम्य ढूँढकर किसी कला-कृति-विशेष के प्रिय अथवा अप्रिय लगने का कारण उपस्थित करेगा। उधर सौंदर्य-शास्त्र अथवा काव्य-शास्त्र, जो मनोविज्ञान का ही एक अंग है, कृति के रूप का विवेचन करने में सहायता देगा, और वह अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति की प्रसादिनी अथवा अप्रसादिनी शक्ति का विश्लेषण भी कर सकेगा।

परन्तु अभी उसका कार्य अपूर्ण ही है। आत्मनः प्रिय के साथ धर्म की भाँति साहित्य के लिए भी, सदाचार, स्मृति और वेद के अनुकूल होना अनिवार्य है। सदाचार का अर्थ है : सतां आचारः—अर्थात् सज्जनों का आचार; और सज्जनों के आचार से तात्पर्य है सामाजिक हितों के अनुकूल व्यवहार। अतएव सत्साहित्य में केवल व्यष्टि के ही प्रसन्न करने का गुण नहीं, समष्टि के भी प्रसादन का गुण होता है। आगे है स्मृति—अर्थात् विधान—राष्ट्र-नियम, और उसके आगे है वेद—शाश्वत ज्ञान—चिरन्तन सत्य। इनमें दूसरा और तीसरा लक्षण बहुत सीमा तक काल-सापेक्ष है। समाज और राष्ट्र—आज हम इन दोनों का समाहार समाज शब्द में ही कर सकते हैं—का विधान समय के अनुसार बदलता रहता है, अतएव हमें इनके अनुसार साहित्य का मूल्याङ्कन करते समय सावधानी से काम करना चाहिये। हमें समाज के वाह्य आवरण को चीर उसके मूल मानवीय अन्तर्तत्त्वों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा करने का एक सीधा उपाय है। किन्ती प्राचीन कलाकृति को लेकर पहले तो आलोचक यह स्पष्ट करे कि जिस समय आलोच्य वस्तु की रचना हुई थी उस समय समाज की क्या अवस्था थी—किन सामाजिक प्रेरणाओं ने उसके निर्माण में योग दिया था, और फिर उन कारणों की छानबीन करे जिनके द्वारा एक देश-काल की कृति दूसरे सर्वथा भिन्न देश-काल के व्यक्तियों को प्रिय लगती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहीं वह मानवीय अन्तर्तत्त्वों को पकड़ लेगा और साहित्य को केवल सामयिकता की कसौटी पर कसने की भूल न करेगा !

यहाँ एक महत्व-पूर्ण प्रश्न उठाया जा सकता है—साहित्य वैयक्तिक चेतना है या सामूहिक : सामाजिक ? व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि दोनों में अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है। व्यक्ति से ही समाज बनता है : दूसरी ओर व्यक्ति समाज की एक इकाई भी है। फिर भी पूर्ण पर विचार करते हुए यदि दोनों का सापेक्षिक महत्त्व आँके तो व्यक्ति की सत्ता समाज की सत्ता से

साहित्य और समीक्षा

धेक बलवती ठहरती है। वैसे तो व्यक्ति समाज का एक अंग है, और समाज पर निर्भर रहता है पर समय आने पर वह उसके ऊपर उठ सकता उमका उपेक्षित ही नहीं ओवरहॉल भी कर सकता है। संसार का इतिहास ललक कर उठाकर इस सत्य का समर्थन कर रहा है। समाज का अधि-ांश जन-साधारण—मैं वर्ग को ओर संकेत नहीं कर रहा—से ही बना हुआ और महान् साहित्य की सृष्टि साधारण प्रतिभा की शक्ति से बाहर है—हान् साहित्य असाधारण प्रतिभा और उद्दीप्त क्षणों की अपेक्षा करता है—क्सपियर की 'फ़ाइनफ़्रन्ज़ी' वाली उक्ति कोरी कविता नहीं है—वह एक वानुभूत सत्य है। व्यक्ति की चेतना पर समाज, देश का प्रभाव पड़ता है और खूब पड़ता है, परन्तु यह कहना कि रवीन्द्रनाथ के सम्पूर्ण साहित्य का प्रेय केवल उनके सामन्तीय वातावरण और पूँजीवाद को ही है अथवा कबीर की कविता के लिए केवल उनका हीन जाति में जन्म होना ही उत्तरदायी है, छिछली वर्ग-मनोवृत्ति का परिचय देना है।

—आलोचना के प्रचलित सम्प्रदाय—

आज आलोचना के कई सम्प्रदायों के नाम सुनाई देते हैं। इनमें तीन मुख्य हैं :

[१] प्रभाववादी [२] शास्त्रीय और [३] वैज्ञानिक।

इनमें सबसे अधिक वदनाम हैं प्रभाववादी सम्प्रदाय। आज एक आलोचक दूसरे को हीन प्रमाणात् करने के लिए उसे फ़ौरन इम्प्रेशनिस्ट कह देता है। परन्तु वास्तव में आलोचना की पहली सीढ़ी है प्रभाव ग्रहण करना। उसकी बहुत कुछ शक्ति इन प्राथमिक प्रभाव-प्रतिबिम्बों पर निर्भर रहती है। फिर भी उसका कार्य यही समाप्त नहीं हो जाता। 'कैसा है ?' के साथ ही यदि वह 'क्यों है ?' की व्याख्या नहीं करती तो आलोचक की अपनी प्रतिक्रियाओं का महत्त्व रहने पर भी, उसकी आलोचना हलकी और स्केची होगी, उसमें आश्वस्त करने की शक्ति नहीं होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि पाठक अपनी अभिरुचि के अनुसार तुरन्त ही उनका ग्रहण या त्याग कर देगा। 'क्यों है ?' की व्याख्या जैसा मैं पीछे कह आया हूँ स्वभावतः मनोविज्ञान, सौंदर्य-शास्त्र, और साहित्य-शास्त्र की अपेक्षा करेगी और आलोचक को शास्त्रीय शैली का भी आडर करना ही पड़ेगा ! वास्तव में व्याख्या करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, आलोचना की शास्त्रीय पद्धति का अवलम्बन

अनिवार्य है—आलोचना में गांभीर्य और स्थायित्व इसी से आता है। इसके आगे वैज्ञानिक पद्धति आती है जो वस्तु और परिस्थिति के तारतम्य, वस्तु के अन्तर्तत्त्वों के वर्गीकरण, और उसके स्थान-नियोजन पर विशेष बल देती है। पहली दो पद्धतियों में—अर्थात् कैसा है ? और क्यों है ?—के द्विवेचन में आलोच्य वस्तुओं का बहुत कुछ मनोगत रूप व्यक्त किया जाता है, वैज्ञानिक-पद्धति वस्तु के वस्तुगत रूप को स्पष्ट करने का दावा करती है। साहित्य या कला का एकान्त वस्तुगत रूप क्या होता है और वैज्ञानिक पद्धति उसको कहाँ तक ग्रहण और स्पष्ट कर सकती है, यह मैं अभी नहीं समझ सका; परन्तु इस पद्धति का अपना महत्त्व असंदिग्ध है। इसको सबसे बड़ी उपादेयता यह है कि आलोचक की अपनी धारणाओं में रागद्वेष को मात्रा अत्यन्त संयत हो जाती है, एवं उसकी अभिरुचि अधिक-से-अधिक बुद्धि-सङ्गत हो जाती है। दूसरे, 'क्यों' की व्याख्या करने के लिए भी वस्तु और परिस्थिति के तारतम्य का ज्ञान अनिवार्य है; तीसरे, उसका स्थायी महत्त्व आँकने के लिए उसकी परम्परा स्थिर करते हुए इतिहास में स्थान-नियोजन करना भी सर्वथा अभीष्ट है। इस प्रकार आलोचना की इन विभिन्न प्रणालियों में अंतर्साम्य है, विरोध नहीं। हाँ, अपने में वे अवश्य अपूर्ण हैं। सुलभा हुआ आलोचक मतवालों के फेर में न पड़ता हुआ उनका सार्थक उपयोग करता है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि आलोचक के कर्तव्य-कर्म दो हैं : पहला है लेखक और पाठक के बीच द्विभाषण। इसकी परिधि में व्याख्या, निर्णय और स्थान-नियोजन सभी कुछ आ जाता है।

दूसरा है आलोच्य वस्तु के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना जिसके बल पर ही आलोचना साहित्य-पद को प्राप्त हो सकती है।

संक्षेप में मेरी साहित्य और समीक्षा-विषयक मान्यताएँ ये हैं :—

(१) साहित्य आत्माभिव्यक्ति है। आत्माभिव्यक्ति ही आनन्द है, रस है—पहले स्वयं लेखक के लिए, फिर प्रेषणीयता के नियमानुसार पाठक के लिए। और रस जीवन का सबसे बड़ा पोषक तत्त्व है।

(२) आत्माभिव्यक्ति-आत्मरक्षण का, जो जीवन की प्रेरक शक्ति है, प्रमुख साधन है।

(३) जीवन की अन्य अभिव्यक्तियों की भाँति साहित्य भी एक

साहित्य और समीक्षा

विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति है—उसका एक विशेष स्वरूप और विशेष शैली अथवा कला है—जिसको ग्रहण करने के लिए एक विशेष संस्कार और एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। अतएव उसके अधिकारी पारखी उस कला के विशेषज्ञ ही हो सकते हैं जन-साधारण नहीं, वे तो अधिक-से-अधिक उसका रस ले सकते हैं।

(४) साहित्य का मूल्य साहित्यकार के आत्म की महत्ता और अभिव्यक्ति की सम्पूर्णता एवं सचाई के अनुपात से ही आँकना चाहिए। अन्य मान एकांगी है, अतः प्रायः धोखा दे जाते हैं।

(५) साहित्य वैयक्तिक चेतना है, सामूहिक नहीं। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो व्यक्ति पर समूह के ऋण का तिरस्कार नहीं करता। परन्तु मैं यह निश्चित रूप से मानता हूँ कि समूह (समाज) अधिक-से-अधिक व्यक्ति का निर्माता हो सकता है स्रष्टा नहीं। समाज का प्रभाव व्यक्ति पर उसकी अपनी शक्ति के विलोम अनुपात से पड़ता है। इसलिए इतिहास का केवल आर्थिक या भौतिक व्याख्यान करना मानव-शक्तियों का उपहास करना है। आज हमारे प्रगतिवादी आलोचक यही करके प्राचीन और नवीन साहित्य के साथ अन्याय कर रहे हैं।

(६) समीक्षा में भी मैं समीक्षक की आत्माभिव्यक्ति—जिसमें उसकी भावुकता अर्थात् रसज्ञता, बुद्धि, मानसिक संतुलन आदि सभी कुछ आ जाता है—को प्रमुख मानता हूँ। मानव जगत् में विशेषकर साहित्य-जगत् में वस्तु का एकान्त वस्तुगत रूप भी ग्रहण किया जा सकता है, यह मैं नहीं मानता।

(७) स्वभावतः साहित्य के अन्य अङ्गों की भाँति समालोचना में भी साधारणीकरण को मैं अनिवार्य मानता हूँ।

—अर्थात् आलोचक एक विशेष रस-ग्राही पाठक है और आलोचना उस गृहीत रस को सर्व-सुलभ करने का प्रयत्न। इस प्रयत्न में आलोच्य कृति के सहारे आलोचक जितनी सचाई और सफाई के साथ अपने को व्यक्त कर सकेगा उतना ही उसकी आलोचना का मूल्य होगा।

साहित्य में कल्पना का उपयोग

कल्पना शब्द क्लृप् धातु से बना है जिसका अर्थ है (करने की) सामर्थ्य रखना : सृजन करना—‘यथापूर्वमकल्पयत्’ ।

विदेश के साहित्य-शास्त्र में कल्पना का बड़ा गौरव है । काव्य के चार प्रमुख तत्वों में सभी ने उसका स्थान सर्व-प्रमुख माना है । संस्कृत के रस-शास्त्र में कल्पना का पृथक् रूप से विवेचन नहीं मिलता, यद्यपि उसकी सत्ता सर्वत्र स्वीकृत की गई है ।

भारतीय दर्शन के अनुसार अंतःकरण के चार अङ्ग हैं—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । यद्यपि इन चारों की परिधियाँ मिली-जुली हैं, फिर भी उनके धर्मों का स्पष्ट पार्थक्य भी निर्दिष्ट है । मनको न्याय में संकल्प-विकल्पात्मक कहा है—‘संकल्पविकल्पात्मकं मनः’ । सब प्रकार के संकल्प-विकल्पों का माध्यम हमारा मन ही है । संकल्प और विकल्प, ये शब्द कल्पना के सगोत्रीय अवश्य हैं यद्यपि उनका सीधा सम्बन्ध उससे नहीं है । संकल्प का तात्पर्य अनुभूत वस्तु से सम्बद्ध पहली मानसिक धारणाओं से है—विकल्प उनकी अनुयोगी अथवा प्रतियोगी धारणाएँ हैं । प्रत्यक्ष इन्द्रिय-ज्ञान (परिज्ञान) से जो हमारे अन्तःकरण पर प्रभाव प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, उनका मन ही समीकरण करके उन्हें बुद्धि के समक्ष उपस्थित करता है । “यही मन वकील के सदृश कोई बात ऐसी है (संकल्प) अथवा इसके विरुद्ध वैसी है (विकल्प) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिए पेश करता है । इसीलिए इसे ‘संकल्प-विकल्पात्मक’ अर्थात् बिना निश्चय किये कल्पना करने वाली इन्द्रिय कहा गया है ।”—ऐसा गीता-रहस्य में आता है; और यही पश्चिमी दार्शनिकों के मत से कल्पना का भी सबसे साधारण और पहला धर्म है ।

इस प्रकार मन ही कल्पना का आधार सिद्ध होता है । इसी विवेचन को कुछ और स्पष्ट करते हुए रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते हैं, “दार्शनिकों ने सब प्रकार के ज्ञान की पाँच अवस्थाएँ मानी हैं : परिज्ञान, स्मरण, कल्पना, विचार, और सहज ज्ञान । सबसे पहले हम वाह्य पदार्थों का ज्ञान अपनी ज्ञानेन्द्रियों-द्वारा होता है । जब हम किसी मनुष्य के सामने जाते

साहित्य में कल्पना का उपयोग

हैं, तब हमारे नेत्रों के द्वारा उसका प्रतिबिम्ब हमारे मन पर पड़ता है ।..... इस प्रकार के ज्ञान को 'परिज्ञान' कहते हैं । यदि हमने उस मनुष्य को ध्यान से देखा है तो पीछे से आवश्यकता पड़ने पर 'स्मरण' शक्ति की सहायता से उस मनुष्य के रूपादि का कुछ ध्यान कर सकते हैं ।.....मान लीजिए कि उक्त मनुष्य एक अङ्गरेज है । हमने एक सन्यासी को भी देखा है और हमें उस सन्यासी के रूप, आकार तथा उसके वस्त्रों के रंग का स्मरण है । अब हम चाहें तो अपने मन में उस अङ्गरेज का सूट-बूट छीनकर उसे सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहना सकते हैं और तब हमारी मानसिक दृष्टि के सामने एक अङ्गरेज सन्यासी का चित्र उपस्थित हो जाता है ।मन को एक विशेष क्रिया से स्मरण-शक्ति द्वारा सञ्चित अनुभवों को विभक्त कर और फिर उनके पृथक्-पृथक् भागों को इच्छानुसार जोड़कर हमने मन में एक नवीन व्यक्ति की रचना करली जिसका अस्तित्व वाह्य जगत् में नहीं है । मनकी इस क्रिया को 'कल्पना' कहते हैं ।" एक प्रकार से, अचेतन दशा में जो स्वप्नावस्था है—वही चेतन दशा में कल्पनावस्था समझनी चाहिए ।

यह तो रहा कल्पना का तत्त्व-दृष्टि से विवेचन । रस-दृष्टि से विवेचन करते समय हमारा रस-शास्त्र कुछ अधिक सहायता नहीं देता । यह बात नहीं कि वह कल्पना का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता । वास्तव में उसकी सत्ता के बिना तो कोई काव्य-शास्त्र एक पग आगे नहीं बढ़ सकता । अन्तर केवल इतना ही है कि विदेश में उसे काव्य का एक अनिवार्य तत्व माना है, और यहाँ अनिवार्य उपकरण । काव्य के अंग-प्रत्यंग में कल्पना ओत-प्रोत है—उमके बिना काव्य का अस्तित्व ही सम्भव नहीं—इसी कारण कदाचित् उमका पृथक् निर्देश अनावश्यक समझा गया हो । संस्कृत अलङ्कार-शास्त्र का 'स्वभावोक्ति' और 'वक्रोक्ति' विषयक वाद-विवाद मेरे कथन की पुष्टि करेगा । चित्त को चमकृत करने की जिस शक्ति का उल्लेख हमारे यहाँ स्थान-स्थान पर मिलता है यह और कुछ नहीं शब्द - भेद से काव्य का वही गुण है जिसे अङ्गरेज आलोचक एडिसन ने कल्पना का प्रसादन कहा है । इसके अनिरिक्त संस्कृत-साहित्य की आत्मा ध्वनि का आधार कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है ? व्यंजना शतप्रतिशत कल्पना के आश्रित है । "सूर्यास्त होगया ।"—व्यंजना का यह उदाहरण रस-शास्त्रियों में बहुत प्रसिद्ध । इसको सुनते ही प्रत्येक श्रोता अपने अनुकूल अर्थ निकाल लेगा : ग्वाला

घर लौटने का, विद्यार्थी सन्ध्यावन्दन करने का, अभिसारिका संकेत - स्थल की ओर प्रस्थान करने का... इत्यादि। मन की जिस शक्ति-द्वारा यह अर्थ-ग्रहण सम्भव है वही वास्तव में कल्पना है। इसी प्रकार गुणी-भूत व्यंग्य काव्य में भी कल्पना का आधार निश्चित है।

कल्पना को साधारणतः प्रत्यक्ष अनुभव का विरोधी गुण समझा जाता है—और एक निर्दिष्ट सीमा तक, स्थूल रूप में यह सत्य भी है। कल्पित और सत्य—घटित के अर्थ में—में इसी दृष्टि से पार्थक्य भी किया जाता है। उदाहरणके लिए, नाट्य-शास्त्र कहता है कि नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक, सत्य अथवा घटित, और प्रकरण की कल्पित, काल्पनिक होनी चाहिए। कपोल-कल्पित आदि शब्दों का प्रयोग भी इसी अर्थ से सम्बन्ध रखता है। परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कल्पना प्रत्यक्ष के सर्वथा अनाश्रित नहीं हो सकती। हम प्रायः उस वस्तु की कल्पना कर ही नहीं सकते जिसके समस्त स्वरूप का अथवा पृथक् अवयवों का हमने प्रत्यक्षीकरण न किया हो। इसीलिए तो कल्पना की तुलना उस पक्षी से की गयी है जो सुदूर आकाश में उड़ता हुआ भी पृथ्वी पर दृष्टि बाँधे रहता है।

कल्पना के स्वरूप की थोड़ी बहुत व्याख्या करने के उपरान्त, अब उसके काव्य-गत विभिन्न प्रयोगों का विवेचन करना संगत होगा। अंगरेज़ी आलोचक कॉलरिज और रिचर्ड्स ने इन रूपों का बड़ा स्वच्छ विवेचन किया है।

सबसे पहिले तो उसका प्रयोग मन पर पड़े हुए प्रत्यक्ष पदार्थ-चित्रों से सम्बन्ध रखता है। प्रत्यक्ष जगत् में हम जो कुछ देखते या सुनते हैं उसके विषय में हमारे मन में अनेक भाव-तरंगों अनायास ही उठने लगती है—मन इनको समवेतकर चित्रों के रूप में परिणत कर देता है। यह मन की वही प्राथमिक क्रिया है जिसका विवेचन तिलक महाराज ने अपने गीता-रहस्य में किया है। काव्य की दृष्टि से इस का अधिक मूल्य नहीं, यद्यपि स्थूल वस्तु-दर्शन में इसीका प्रयोग होता है। इस युग की टेकनीक में सम्भव है इसका मूल्य बढ़ जाय, परन्तु साधारणतः मन इतने से ही संतुष्ट नहीं होता। वह उस चित्र को अपने अनुरूप गढ़ना चाहता है, और इस प्रकार उसमें अपनी रुचि के अनुसार काँट-झाँट करता रहता है। इसी को विक्टर कज़िन ने “अनजाने में प्रकृति की आलोचना” कहा है। पश्चिमी साहित्य-शास्त्र में मन का यह कार्य आदर्श-करण के नाम से प्रसिद्ध है। यह आप-ही-आप बिना किसी प्रयत्न के होता

साहित्य में कल्पना का उपयोग

रहता है, और काव्य में तो प्रयत्न-पूर्वक भी इसका बचाव नहीं हो सकता। हाँ, भाव-प्रधान रचनाओं में इसका उपयोग मुख्य और वस्तु-प्रधान कृतियों में अपेक्षा-कृत गौण होता है। आगे चलकर भावना-विशेष पर केंद्रित होकर कल्पना का यही प्रयोग प्रतीकों का सृजन करने में समर्थ होता है।

कल्पना का दूसरा प्रयोग अलंकारों—अप्रस्तुत-विधान—में किया जाता है। साम्य और वैषम्य-मूलक जितने अलंकार हैं उनका प्रधान साधन कल्पना ही है। वस्तु और भाव के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए कल्पना का योग अनिवार्य है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि साम्य-मूलक अलंकारों में साम्य की स्थापना और विरोध, विषम, विभावना आदि वैषम्य-मूलक प्रयोगों में वैषम्य की धारणा कल्पना के आश्रय से की जाती है। अतिशयोक्ति में भी यही बात है। साम्य में समान-धर्मा वस्तुओं का, वैषम्य में विपरीत-धर्म वस्तुओं का और अतिशयोक्ति में दूरस्थित वस्तुओं का समीकरण किया जाता है।

दृढ जटा-मुकुट हो विपर्यस्त प्रति लटसे खुल
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वक्ष पर विपुल।
उतरा ज्यो दुर्गम पर्वत पर नैशान्धकार,
चमकती दूर ताराएँ हों ज्यों कही पार।

अनुपात का ध्यान न होने से यही समीकरण विचित्र तमाशे खड़े कर देता है। संस्कृत - हिन्दी रीति-साहित्य में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। फारसी और उर्दू में भी इसी तरह तख्तियुल के साथ भरपूर खिलवाड हुई है। पन्त की 'स्याही का बूँद' कविता पेश की जा सकती है।

गोल तारा-सा नभ से कूद !

यहाँ बूँद में और तारे में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है—परन्तु अनुपात को सर्वथा भुला कर !

कल्पना का तीसरा प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। किसी सीधे-सादे व्यक्ति को यह कहते हुए सुनकर कि मैं तो अमुक चित्र अथवा मूर्ति अथवा कविता में कोई विशेषता नहीं देखता, हम प्रायः कह उठते हैं कि तुम्हारी कल्पना निर्धन है। तो यहाँ कल्पना का तात्पर्य कलाकार की मानसिक अवस्था का अनुभव करने की क्षमता से है। शब्द-शक्ति लक्षणा का सम्बन्ध कल्पना के इसी अर्थ से है। यदि कलाकार अपनी मनोदशा को प्रेषणीय

नहीं बना सकता तो कलाकार में कल्पना की कमी है; और अगर पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उस मनोदशा को ग्रहण करने में मन्थर है तो यह उसकी कल्पना की हीनता कही जायगी। यही कारण है कि भाषा के लाल्पणिक प्रयोगों को कल्पना-हीन पाठक सरलता से नहीं समझ सकता।

इसके अतिरिक्त कल्पना का प्रयोग होता है आविष्कार के अर्थ में। इसी दृष्टि से वैज्ञानिक आविष्कर्ताओं को उत्कट कल्पनाशील कहा जाता है। काव्य में इस प्रकार का प्रयोग अद्भुत दृश्यों के चित्रण में, असम्भाव्य घटनाओं के विधान में, अपार्थिव स्त्री-पुरुषों के सृजन में किया जाता है। हिन्दी का उपन्यास 'चन्द्रकान्ता-संतति' इसका अमर उदाहरण है। यहाँ कल्पना दूर की कौड़ियों को इकट्ठा तो कर देती है, परन्तु उनका सम्यक् समन्वय नहीं कर सकती। इसी लिये उनमें भराव नहीं आ सकता। और यही कारण है कि इस प्रकार की कृतियों से हमारी मनस्तुष्टि नहीं हो सकती।

कल्पना का एक मुख्य कार्य है रिक्त स्थानों को भरना अर्थात् विषमताओं को एक सार करना। जगत में हम देखते हैं वस्तुएँ पूर्ण नहीं हैं, उनमें न्यूनताएँ एवं दोष हैं, अर्थात् उनमें बीच-बीच में स्थान रिक्त रह गए हैं। बस हमारी कल्पना आप ही आप उनको भरने का प्रयत्न करने लगती है। ऐसा करने के लिए उसको उन स्थानों के रिक्त होने का कारण खोजना पड़ता है और वह देखती है कि वास्तव में उन वस्तुओं के विभक्त अंगों में परस्पर सम्बन्ध था जो विशेष व्यतिक्रमों से अब टूट गया है। इस प्रकार हमारी कल्पना उन लुप्त परन्तु संगत सम्बन्धों का पुनर्स्थापन कर समस्त वस्तु को एकता प्रदान कर देती है। इसी को रूप-विधान कहते हैं। काव्य-गत टेकनीक में कल्पना का इसी अर्थ में प्रयोग होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा जान-बूझ कर ही किया जाय। अनजाने में भी हमारी कल्पना प्रायः यह कार्य करती रहती है।

अब कल्पना का सबसे अंतिम एवं सशक्त प्रयोग रह जाता है जिसका अंगरेज़ कवि-समालोचक कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ-काव्य के प्रसंग में इतने सबल शब्दों में विवेचन किया है : "इस समन्वय और जादू की शक्ति के लिए ही मैंने कल्पना शब्द का प्रयोग किया है। इसका धर्म है विरोधी या असम्बद्ध गुणों का एक-दूसरे के साथ संतुलन अथवा समन्वय करना अर्थात् एकरूपता का अनेकरूपता के साथ, साधारण का विशेष के साथ, भाव का

साहित्य में कल्पना का उपयोग

चित्र के साथ, व्यष्टिका समष्टि के साथ, नवीन का प्राचीन के साथ, असाधारण भावावेश का असीम संयम अथवा अनुक्रम के साथ अथवा चिर-जागृत विवेक एवं स्वस्थ आत्म-संयम का दुर्दम उत्साह तथा गंभीर भावुकता के साथ ।” इसी के बल पर कवि अनेकता में एकता ढूँढ़ निकालता है और विभिन्न विचारों एवं भावों को एक विशेष विचार अथवा भाव से अन्वित कर देता है ।” शेक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ कल्पना कहा है । कल्पना का यह रूप कवि की सबसे बड़ी गौरव-कसौटी है । क्योंकि इस प्रकार के समन्वय की क्षमता उन्हीं विश्वदर्शी कलाकारों में हो सकती है जिनके हृदय विशाल हों, जो जगत् की विभिन्नताओं को पचा सकें ।

खल और संत समाज की एक श्वास में वन्दना करने वाला तुलसीदास, विश्व की विषमताओं को एकरस होकर ग्रहण करने वाला शेक्सपियर, शैतान के विद्रोह और ईश्वर के न्याय पर एक साथ मुग्ध होने वाला मिल्टन, राम का अनन्य भक्त होते हुए भी उनके विरोधियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला मैथिलीशरण अथवा इसी कोटि का कोई अन्य कवि ही इतना उँचा उठ सकता है । कल्पना का यह प्रयोग समस्त काव्य में ही नहीं एक वाक्य तक में सफलता से हो सकता है । अंगरेज़ी के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी आलोचक रिचर्ड्स ने इसी दृष्टि से ट्रेजेडी को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप माना है क्योंकि उसमें भय, जो हमें पात्र से दूर हटाता है, और करुणा, जो पात्र के प्रति आकृष्ट करती है, का पूर्ण सामञ्जस्य हांता है ।

अंगरेज़ी में कल्पना के लिए एक और शब्द प्रयुक्त होता है ‘फ़ैन्सी’ जिसका अर्थ साधारणतः कल्पना की ललित क्रीडा समझा जाता है । कॉलरिज ने उसका जो अर्थ किया है—स्मरण का एक प्रकार—वह हमारी समझ में नहीं आता, और न वह प्रचलित अर्थ ही है ।

कल्पना के ये ही प्रमुख रूप हैं, उसके विभिन्न प्रयोग इन्हीं के अन्तर्गत आ जाते हैं । परन्तु फिर भी उनकी पृथक् सीमाओं का निर्देश करना साहित्य के विद्वार्थियों के लिए उतना ही कठिन है जितना दार्शनिक के लिए निश्चय पूर्वक यह कहना कि कल्पना केवल मन की ही क्रिया है अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों की ।

हिन्दी-उपन्यास

कुछ दिन से हिन्दी-उपन्यास पर एक लेख लिखने का भार मन पर भूल रहा था। कल रात को उसी की रूप-रेखा बना रहा था। कभी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण की बात सोचता, कभी समस्याओं के, और कभी टेकनीक के आधार पर। रूप-रेखा कुछ बनती भी थी। परन्तु परसों शाम ही को सुना हुआ जैनेन्द्रजी का यह वाक्य गूँज उठता था कि तुम लोग, यानी पेशेवर आलोचक—और उनका यह विशेषण मुझ जैसे लोगों ही को नहीं, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर ब्रैडले आदि जैसे आलोचकों को भी आलिंगन-पाश में बाँधने के लिए अपनी विशाल बाहे फैलाए हुए था—लेखक की आत्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि उस पर अपना ही मत थोपते रहते हो। अन्त में मेरे मन में एक बात आई : क्यों न एक मूलग्राही प्रश्नावली बना उपन्यासकारों से मिलकर अपने-अपने उपन्यास-साहित्य के विषय में उन सभी के दृष्टिकोण जान लूँ, और फिर उन्हें ही मनोविश्लेषण के आधार पर संश्लिष्ट कर एक मौलिक लेख तैयार कर लूँ ? यह विचार कुछ और आगे बढ़ता परन्तु एक समस्या आकर खड़ी होगई—कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, और फिर हिन्दी के सभी प्रतिनिधि उपन्यासकारों से मिलने के लिए तो इहलोक की ही नहीं परलोक की भी यात्रा करनी पड़ेगी। लेख की मौलिकता, उसके द्वारा हिन्दी आलोचना में एक नयी दिशा प्रशस्त करने का लोभ अथवा और कुछ भी कम-से-कम इस दूसरे उपाय का प्रयोग करने के लिए मुझे राज़ी न कर सका। अन्त को मानसिक श्रम से थककर मैं सो गया।

रात को मैंने देखा कि एक वृहत् साहित्यिक समारोह लगा हुआ है। साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन तो नहीं क्योंकि उसमें इस प्रकार के नगण्य विषयों के विवेचन का लोगों को कम ही अवसर मिलता है। पर कुछ भी हो, मैंने देखा उसी समारोह के अन्तर्गत उपन्यास अङ्ग को लेकर विशिष्ट गोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसमें हिन्दी के लगभग सभी उपन्यासकार उपस्थित हैं। पहिले उपन्यास के स्वरूप और कर्तव्यकर्म को लेकर चर्चा चली। कर्तव्य-कर्म के विषय में यहाँ तक तो सभी सहमत होगये कि जो साहित्य का कर्तव्य-कर्म है वही उपन्यास का भी, अर्थात् जीवन की व्याख्या करना। पहले श्रीयुत् देवकीनन्दन

खत्री का इस विषय में मतभेद था, परन्तु जब व्याख्या के साथ आनन्दमयी विशेषण जोड़ दिया गया तो वे भी सहमत हो गए। स्वरूप पर काफ़ी विवाद चला। अन्त में मेरे ही समवयस्क-से एक महाशय ने प्रस्ताव किया कि इस प्रकार तो समय भी बहुत नष्ट होगा और कुछ सिद्धि भी नहीं होगी। हिन्दी के सभी प्रतिनिधि उपन्यासकार उपस्थित हैं, अच्छा हो यदि वे एक-एक कर बहुत ही संक्षेप में उपन्यास के स्वरूप और अपने उपन्यास-साहित्य के विषय में अपना-अपना दृष्टिकोण प्रकट करते चले। उपन्यास के स्वरूप और हिन्दी के उपन्यास के विवेचन का इससे सुन्दर ढङ्ग और क्या हो सकता है! प्रस्ताव काफ़ी सुलभा हुआ था। फलतः सभी ने मुक्त कण्ठ से उसे स्वीकार कर लिया। विवेचन में एकता और एकाग्रता बनाए रखने के विचार से उन्हीं सज्जन ने तत्काल ही एक प्रश्नावली भी पेश कर दी, जिसके आधार पर उपन्यासकारों से बोलने की प्रार्थना की जाय। उसमें केवल तीन प्रश्न थे:—

- (१) आपके मत में उपन्यास का वास्तविक स्वरूप क्या है ?
- (२) आपने उपन्यास क्यों लिखे हैं ?
- (३) अपने उद्देश्य में आपको कहाँ तक सिद्धि मिली है ?

यह प्रश्नावली भी तुरन्त स्वीकृत होगयी, और प्रस्तावकर्ता से ही कह दिया गया कि आप ही कृपाकर इस कार्यवाही को गति दे दीजिए। अस्तु !

सबसे पहिले उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द जी से शुरु किया जाता। लेकिन प्रेमचन्दजी ने सविनय एक ओर इशारा करते हुए कहा: नहीं, नहीं, मुझसे पहिले मेरे पूर्ववर्ती बाबू देवकीनन्दन खत्री से प्रार्थना करनी चाहिए। देवकीनन्दनजी हिन्दी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचन्दजी के आग्रह पर एक सामान्य-सा व्यक्ति, जिसकी आकृति मुझे स्पष्टतः याद नहीं, धीरे से खड़ा हुआ और कहने लगा—भाई, आज तुम्हारी दुनिया दूसरी है, तुम्हारे विचारों में दार्शनिकता और नवीनता की छाप है। हम तो उपन्यास को कल्पित कथा समझते थे। इसके अतिरिक्त उसका कुछ और स्वरूप हो सकता है, यह तो हमारे ध्यान में भी नहीं आता था। मैंने स्वदेश-विदेश की विचित्र कथाएँ बड़े मनोयोग से पढ़ी थीं और उनको पढ़कर मेरे दिल में यह आया था कि मैं भी इसी प्रकार के अद्भुत कथानक लिखकर जनता का मनोरञ्जन कर यश-लाभ करूँ। इसीलिए मैंने चन्द्रकान्ता-सन्तति लिख डाली। अद्भुत के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होने के कारण मेरी कल्पना उत्तेजित होकर उस

चित्रलोक की रचना कर सकी । आखिर लोगों के पास इतना समय था और जीवन की गति इतनी मन्दी थी कि उन्हें आवश्यकता था किसी ऐसे साधन की जो उसमें उत्तेजना भर सके । बस, वे साहित्य से उत्तेजना की माँग करते थे । इसके अतिरिक्त मनुष्य यह तो सदा अनुभव करता है कि यह जीवन और जगत् अनन्त रहस्यों का भण्डार है, परन्तु साधारणतः कल्पना की आँखें खुली न होने के कारण यह उनको देख नहीं पाता । उसका कौतूहल जैसे इस तिलिस्म के द्वार से टकरा कर लौट आता है और उसे यह इच्छा रहती है कि ऐसा कुछ हो जो इस जादूघर को खोल सके । मेरे उपन्यास मनुष्य की ये दोनों माँग पूरी करते हैं—उनके मन्द जीवन में उत्तेजना पैदा करते हैं और उसकी कौतूहल वृत्ति की तृप्ति करते हैं । इसी लिए वे इतने लोकप्रिय रहे हैं—असंख्य पाठकों को उनसे जो वह चाहते थे मिला । इससे बढ़कर उनकी या मेरी सिद्धि और क्या हो सकती है ? वे जीवन की व्याख्या करते हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता । मैंने कभी इसकी चिन्ता भी नहीं की—परन्तु मनो-रञ्जन अचश्य करते हैं—मन की एक भूख को भोजन देते हैं, बस ।

इसके उपरान्त मुन्शी प्रेमचन्द बिना किसी तकल्लुफ़ के आप ही आप खड़े हो गए और निहायत ही सादगी और सचाई से कहने लगे—भाई, सवाल तुम्हारे कुछ मुश्किल हैं । उपन्यास के स्वरूप या अपने उपन्यास साहित्य का तात्विक विवेचन तो मैं आपके सामने शायद नहीं कर पाऊँगा ; पर मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हूँ—मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है । मानव-चरित्र कोई स्वतः सम्पूर्ण तथ्य नहीं है, वह वातावरण-सापेक्ष है, इस लिए उस पर वातावरण की सापेक्षता में ही प्रकाश डाला जा सकता है । आज का उपन्यासकार आज के वातावरण अर्थात् आज की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करता हुआ ही मानव-चरित्र की व्याख्या कर सकता है । लेकिन व्याख्या शब्द को ज़रा और साफ़ करना होगा । व्याख्या से मेरा मतलब सिर्फ़ स्वरूप, कार्य-कारण वगैरह का विश्लेषण कर उसके भिन्न-भिन्न तत्त्वों को अलग-अलग सामने रख देना नहीं है । वह तो वैज्ञानिक का ही काम है—और दरअसल सच्चे वैज्ञानिक का भी नहीं, क्योंकि वह भी उस विश्लेषण में से कोई जीवनोपयोगी तथ्य निकाल कर ही सन्तुष्ट होता है । उपन्यासकार की व्याख्या तो इससे बहुत अधिक है—वह तो निर्माण की

अनुवर्तिका है। मेरा जीवन-दर्शन वैज्ञानिक नहीं है, शुद्ध उपयोगितावादी है। यानी मैं मानता हूँ कि उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह परिस्थितियों के बीच से रख कर मानव-चरित्र का विश्लेषण कर यह समझले कि कहाँ क्या गड़बड़ है, और फिर क्रमशः उस अवस्था तक लेजाय जहाँ वह गड़बड़, वह सारी असङ्गति मिट जाय और जो मानव-चरित्र का आदर्श रूप हो। यहाँ मैं स्वप्नलोक या स्वर्गलोक की सृष्टि की बात नहीं करता—वहाँ तो वास्तव का आँचल ही आपके हाथ से छूट जाता है। आज की भौतिक वास्तविकताओं में घिरे हुए मानव-चरित्र का निर्माण इस प्रकार नहीं होगा। परिस्थिति के अनुकूल उसका एक ही मार्ग है और वह है आज के यथार्थ में से ही आदर्श के तत्वों को हूँदकर उसका निर्माण करना। मैं इसी भावना से प्रेरित होकर उपन्यास लिखता हूँ। मेरे उपन्यास कहाँ तक आज के मानव को आत्म-परिष्कार के प्रति, यानी परिस्थितियों के प्रकाश में अपनी खामियों को समझ कर उनको दूर करने के लिए जागरूक कर सके हैं, यह मैं नहीं जानता। पर मेरी सिद्धि इसी के अनुपात से माननी चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल मनोरञ्जन करना नहीं है—वह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का...। (सहसा बाबू देवकीनन्दन खत्री की ओर देखकर एकदम शर्म से लाल होकर फिर ठहाका मार कर हँसते हुए)—आशा है आप मेरा मतलब गलत नहीं समझ रहे हैं।

प्रेमचन्दजी के बाद कौशिकजी खड़े हुए। मुझे अच्छी तरह याद नहीं उन्होंने क्या कहा, पर शायद उन्होंने प्रेमचन्द जी की ही बात को दुहराया।

अब प्रसादजी से प्रार्थना की गयी। पहले तो वे राज़ी नहीं हुए। परन्तु जब लोगों ने विशेष अनुरोध किया तो वे अत्यन्त शान्त-संयत मुद्रा में खड़े हुए और कहने लगे—हिन्दी के आलोचकों ने मेरी कविता और नाटकों को रोमान्टिक आदर्शवाद की कक्षा में रक्खा है और मेरे उपन्यासों को यथार्थवाद की कक्षा में। मैं नहीं कह सकता कि मूलतः मेरे साहित्य के बीच कोई ऐसी विभाजक रेखा खींची जा सकती है। फिर भी यह सत्य है कि मुझे कविता-नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ को आँकना सरल प्रतीत होता है। कारण केवल यही है कि वह अपेक्षाकृत सीधा माध्यम है। आज धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विपमताओं के कारण जीवन में जो गहरी गुत्थियाँ पड़ गयी हैं, उनमें मैं निरपेक्ष होकर पलायन नहीं कर सकता—आह, यदि यह सम्भव

होता ! परन्तु प्रेमचन्दजी की तरह सामूहिक बहिर्मुखी प्रयत्नों में मुझे उनका समाधान सरलता से नहीं मिलता । जिन संस्थाओं पर समाज बालक की तरह आश्रय के लिए झुकता है वे अन्दर से कितनी कच्ची और घुनी हुई हैं ? प्रवृत्ति के एक धक्के को भी सँभालने का उनमें बल है ? मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता कि संस्थाओं का यह नया व्यसन जीवन का किसी प्रकार भी गतिरोध कर सकेगा । ऐसा क्या है जिसके नाम पर प्रवृत्ति को झुठलाया जाय ? और प्रवृत्ति भी क्या सत्य है ? यही आज के जीवन का दर्शन है—और मैं इसको पूरी चेतना के साथ अनुभव कर रहा हूँ । यह आपको मेरे सम्पूर्ण साहित्य में मिलेगा—उपन्यास में प्रतीकों के अधिक परिचित होने के कारण यह शायद अधिक मुखर हो गया है ।

इसके बाद बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के नाम से एक सज्जन जिनके मूर्धन्य पर शोभित फ्रैल्टकैप उनके परम्परा-प्रेम की दुहाई दे रही थी, उठ खड़े हुए और बोले—भई, उपन्यास को मैं उपन्यास ही समझता हूँ, और बुन्देलखण्ड के ये ही नदियाँ नाले या नदी नाले, भीलें और पर्वत-वेष्टित शस्य-श्यामल खेत मेरी प्रेरणा के प्रधान कारण हैं । इस लिए मुझको हिस्टोरिकल रोमान्स पसन्द है । अन्य कारण जानकर क्या करियेगा । इसी रोमान्टिक वातावरण में बाल्यकाल से ही अपनी आँखों से चारों ओर एक वीर जाति के जीवन का खण्डहर देखता आया हूँ—और अपने कानों से उसकी विस्मय-गाथाएँ सुनी हैं । अतएव स्वभाव से ही मैं आप-से-आप कल्पना के द्वारा उन दोनों को जोड़ने लगा । वे कहानियाँ इन खण्डहरों में जीवन का स्पन्दन भरने लगीं, और ये खण्डहर उन कहानियों में जीवन की वास्तविकता । मैं उपन्यास लिखने लगा । मेरे उपन्यास यदि उस गौरव-इतिहास को आपके मन में जगा पाते हैं तो वे सफल ही हैं ।

जिस समय ये लोग भाषण दे रहे थे एक हृष्ट-पुष्ट आदमी, जिसके लम्बे-लम्बे बाल अधनंगा शरीर एक अजीब फक्कड़पन का परिचय दे रहे थे, बीच-बीच में काफ़ी चुनौती-भरे स्वर में फ़िकरे कस कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था । पूछने पर मालूम हुआ कि आप हिन्दी के निर्वन्द कलाकार उग्रजी हैं । वृन्दावनलाल जी का भाषण समाप्त होने पर लोग उनमें प्रार्थना करने ही वाले थे कि आप खुद ही उठ खड़े हुए और बोले—ये लोग तो सभी मुर्दा हो गए हैं । जिसमें जोश ही नहीं रहा वह क्या उपन्यास लिखेगा ?

और जोश सुधार, आत्म-परिष्कार के नाम पर अपने को और दूसरों को धोखा देने वाले लोगो में कहां ? जोश आता है नीति की चहारदीवारों को तोड़ कर विधि-निषेधों का जी भर कर मज़ा लेने से । जोश आता है, जिम्मे ये लोग तामस और पाप कह कर दूर भागते हैं, उसका मुक्त उपभोग करने से, जबकि मनुष्य की सच्ची वृत्तियाँ दमन की शृङ्खलाएँ तोड़ कर स्वच्छन्द होकर जीवन का मांसल अनुभव करती हैं । आज यह जोश मैं—मेरे ही उपन्यास—दे सकते हैं, जिनके आत्म-रूप नायक अवसर आते ही नपुंसक बन जाते हैं उनमें इसकी क्या आशा की जा सकती है ? यह कह उन्होंने अपने व्यङ्ग का और अधिक स्थूल बनाते हुए जैनेन्द्र जी की ओर देख कर हँस दिया ।

जैनेन्द्रजी पर चोट का असर तो तुरन्त ही हुआ, पर उन्होंने अपने को हत-प्रभ नहीं होने दिया । हाथ को घुमाकर नर्म की चादर को संभाला और एक ख़ास सादगी के अन्दाज़ से आँखों को मथरते हुए ऊपर के होठ से नीचे के होठ को लपेट कर बाले—अरे भई, उग्रजी के जोश में उबाल लाने वाली चीज़ हमें कहां प्राप्त है—और फिर एक नज़र यह देख कर कि उनके इस हाज़िर जवाब का प्रेमचन्द्र जी और सियारामशरण जी पर क्या असर पडा है, कहने लगे—मुझे कुछ-मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उपन्यास जैसे आज परिभाषा की मर्यादा तोड़कर विशृङ्खल हो गया है । उसका स्वरूप जैसे कुछ नहीं है और सब कुछ है । वह कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है । आज के जीवन की तरह वह जैसे एकदम अनिश्चित होकर दिशा खो बैठा है । इसी लिए आज के जीवन की अभिव्यक्ति का सच्चा माध्यम उपन्यास ही है । मैं उपन्यास क्यों लिखता हूँ यह मैं क्या जानूँ ? मेरे उपन्यास जैसे हैं वैसे हैं ही—वे बड़े बेचारे हैं । परन्तु मुझे मालूम पडता है कि मेरे मनमें कुछ है जो बाहर आना चाहता है—और उसको कहने के लिए मैं उपन्यास या कहानी या लेख, जब जैसी सुविधा होती है लिख बैठता हूँ । आप पूछेंगे यह क्या है जो कि बाहर आना चाहता है । यह है जीवन की अखण्डता की भावना । मुझे अनुभव होता है कि यह जीवन और जगत् जैसे मूलतः एक अखण्ड तत्त्व है—आज इसकी यह अखण्डता खण्डित हुई-सी लगती ही है—लगती ही है, दरअसल है नहीं । आजका मानव इसी भ्रम में पड़कर भटक रहा है—उसके हाथसे जीवन की कुञ्जी खो गयी है, और कुञ्जी है यही अखण्डता की भावना । मैं चाहता हूँ कि वह इसे ढूँढ निकाले, नहीं तो निस्तार नहीं है । और इसे ढूँढने का साधन है

केवल एक प्रेम या अहिंसा। प्रेम या अहिंसा का अर्थ है दूसरे के लिए अपने को पीड़ा देना—पीड़ा में ही परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्म-पीड़न के ही साधन हैं, और इसीलिए मैंने उनमें काम-वृत्ति की प्रधानता रखी है, क्योंकि काम की यातनाओं में ही आत्म-पीड़न का तीव्रतम रूप है। वे पाठक को जितनी आत्म-पीड़न की प्रेरणा देते हैं, जितना उसके हृदय में प्रेम पैदा कर जीवन की अखण्डता का अनुभव कराते हैं उतने ही सफल कहे जा सकते हैं। इतना कहते हुए बड़े ही आहिस्ता से, जैसे ऐसा करने में भी किसी प्रकार की हिंसा का डर है, वे बैठ गये।

इसके बाद सियारामशरणजी से प्रार्थना की गयी कि वे अपना मन्तव्य प्रकट करें। परन्तु उन्होंने बड़े ही दैन्य से कहा—हम क्या कहेंगे, अभी जैनेन्द्र भाई ने जैसा कहा है हमारा भी वैसा ही मत है।

तब पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी का नम्बर आया। अपने गोलाकार मुखमण्डल को थोड़ा और गोल करते हुए वे बोले—उपन्यास-सम्राट् श्रीयुक्त् प्रेमचन्दजी और साथियो! मेरे भाई जैनेन्द्रजी ने जो कहा अभी तक मेरा भी बहुत कुछ वही मत था। परन्तु आज मैं स्पष्ट देखता हूँ—और यह कहते हुए अञ्जलजी की ओर देख कर वे अत्यन्त गम्भीर हो गये, जैसे जो कुछ कहने जा रहे हैं वह उन्हें अञ्जलजी के मुख पर साफ़ नज़र आ रहा है—कि आज के मानव की मुक्ति पीड़ा में नहीं है, जीवन की आर्थिक विषमताओं को दूर करने में है। आज मुझे शरत् या गाँधी नहीं बनना, शीलोखोव और स्टालिन बनना है।

अब वात्स्यायनजी अपना दृष्टिकोण प्रकाशित करें—माँग हुई। वात्स्यायनजी ने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया। परन्तु मैं चूँकि थोड़ा दूर बैठा था, मुझे सिर्फ़ उनके होठ ही हिलते दिखाई देते थे, सुनाई कुछ नहीं पड़ता था। उग्रजी ने एक बार उनको ललकारा भी—अरे सरकार ज़रा दम से बोलिए, आखिर आप स्वगत-भाषण तो कर नहीं रहे, मजलिस में बोल रहे हैं। पर वात्स्यायनजी पर जैसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे उसी स्वर में बोलते रहे। हार कर मुझे ही उनके पास जाना पडा। वे कह रहे थे.....या यों कहिए कि आपके सामने मेरा एक ही उपन्यास है। उसमें, जैसा कि मैंने प्रवेश में कहा है, मेरा दृष्टिकोण सर्वथा बौद्धिक रहा है। एक व्यक्ति का पूरी ईमानदारी से, अपने राग-द्वेष को सर्वथा पृथक् रखकर, वस्तुगत

हिन्दी-उपन्यास

चित्रण करना और तज्जन्य बौद्धिक आनन्द को स्वयं ग्रहण करना तथा पाठक को ग्रहण कराना मेरा उद्देश्य रहा है। किसी व्यक्ति का, विशेष कर उस व्यक्ति का जो अपनी ही सृष्टि हो, चरित्र-विश्लेषण करने में अपने राग-द्वेषों को अलग रखते हुए पूरी ईमानदारी वरतना स्वयं अपने में एक बड़ी सफलता है। आप शायद यह कहेंगे कि यह व्यक्ति मेरी सृष्टि ही नहीं मैं स्वयं हूँ और यह विश्लेषण अपने ही व्यक्ति-विकास का विश्लेषणात्मक मिहात्रलोकन है। तब तो ईमानदारी और वस्तुगत चित्रण का महत्व और भी कई गुना हो जाता है। क्योंकि अपने को पीडा देना तो आसान है; पर राग-द्वेष-विहीन हाँकर अपनी परीक्षा करने में असाधारण मानसिक शिक्का और संतुलन की आवश्यकता होती है, इससे प्राप्त आनन्द राग-द्वेष में बहने के आनन्द से कहीं भव्यतर है। मैंने इसी को पाने और देने का प्रयत्न किया है। शेखर को पढ़ कर आप जितना ही इस आनन्द को प्राप्त करपाते हैं उतनी ही मेरी सफलता है।

इतने ही में इलाचन्द्रजी स्वतःप्रेरित से बोल उठे—वात्स्यायनजी की बौद्धिक निरुद्देश्यता का यह आनन्द कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैं उनके मनो-विश्लेषण की सूक्ष्मता और सत्यता का कायल हूँ, परन्तु व्यक्ति का विश्लेषण करके उसको एक समस्या बना कर ही छोड़ देना तो मनोविश्लेषण का दुरुपयोग है। स्वयं फ्रॉयड ने भी मनो-विश्लेषण को साधन ही माना है साध्य नहीं। चरित्र में पड़ी हुई ग्रन्थियों को सुलझा कर वह हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और इस प्रकार व्यक्ति की, फिर समाज की विषमताओं का समाधान करता है। यही आनन्द सच्चा आनन्द है—स्वस्थ आनन्द है।

अब लोग थकने लगे थे। मुझे भी मनको एकाग्र रखने में कुछ कठिनाई-सी मालूम पड़ रही थी—शायद मेरी नींद की गहराई कम हो रही थी। इसलिए मुझे सचमुच बड़ा सन्तोष हुआ जब प्रश्नकर्ता महोदय ने उठकर कहा कि अब देर काफी हो गई है, इतना समय नहीं है कि आज के सभी उदीयमान औपन्यासिकों के अपने-अपने मन्तव्यों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अतएव अब केवल यशपालजी ही अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें।

यशपालजी बोले—वात्स्यायनजी की बौद्धिकता को तो मैं मानता हूँ, परन्तु उनके इस तटस्थ या वैज्ञानिक आनन्द की बात मेरी समझ में नहीं आती। वास्तव में यह वैज्ञानिक आनन्द और कुछ नहीं शुद्ध आत्मरति

हिन्दी-उपन्यास

मात्र है। वात्स्यायनजी घोर व्यक्तिवादी कलाकार हैं—उन्होंने जीवन और जगत को अपनी सापेक्षता में देखा और अद्विक्त किया है—जैसे सभी कुछ उनके अहं के चारों ओर चक्कर काट रहा है। मेरा दृष्टिकोण ठीक इसके विपरीत है। अपनी शक्तियों को अपनी व्यष्टि में ही केन्द्रीभूत कर लेना या अपनी व्यष्टि को सम्पूर्ण विश्व की धुरी मान लेना जीवन का बिल्कुल गलत अर्थ समझना है। आत्मरति एक भयङ्कर रोग है। उससे जीवन में विषमयी ग्रन्थियाँ पड़ जाती हैं। जीवन का समाधान तो इसी में है कि व्यक्ति के घोंघे से निकल कर समष्टि की धूप में विचरण किया जाय। व्यक्ति में उलभे रहने से जीवन की समस्याएँ और उलभ जायेंगी। उनके लिए सामाजिकता अनिवार्य है। व्यक्तियों पर ध्यान केन्द्रित कर उनको अनिवार्य महत्व देना मूर्खता है—सामूहिक चेतना जाग्रत कीजिए—गण-शक्ति का अर्जन कीजिए। परन्तु इसके साथ ही जैनेन्द्रजी के आत्म-निषेध को भी मैं नहीं मानता। जो है उसका निषेध करना बेमानी है और न कोई आत्म-निषेध करता है। आत्म-निषेध की सबसे अधिक बात करने वाले गाँधीजी ही सच्चे बड़े आत्मार्थी हैं। अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक तटस्थता आदि व्यक्तिवाद के ही विभिन्न नाम हैं। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि इस भ्रम-जाल से निकल कर जीवन की भौतिकता और सामाजिकता को स्वीकार करें। मेरे साहित्य का यही उद्देश्य है।

गोष्ठी की कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी थी। अन्त में प्रश्नकर्त्ता महोदय ने वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए निवेदन किया—अभी आपके सामने हिन्दी के कुछ प्रतिनिधि उपन्यासकारों ने अपने-अपने दृष्टि-कोणों की सुन्दर विवेचना की है। हिन्दी उपन्यास के लिए वस्तुतः यह गौरव का दिन है जब कि हमारे आदि-उपन्यासकार से लेकर नवीनतम उपन्यासकार तक—शिव देवकीनन्दन खत्री से लेकर यशपाल तक—सभी एक स्थान पर मौजूद हैं (यद्यपि ऐसा कैसे सम्भव हो सका यह सोच कर वक्ता महोदय को बड़ा आश्चर्य हो रहा था) और उन्होंने स्वयं ही अपने दृष्टिकोणों का स्पष्टीकरण किया है। आपने देखा कि किस तरह इनका दृष्टिकोण क्रमशः बढ़ता गया है। किस तरह सामन्तीय से वह भौतिक-बौद्धिक हो गया है। देवकीनन्दन खत्री और यशपाल हमारे उपन्यास-साहित्य के दो छोर हैं। देवकीनन्दनजी का दृष्टिकोण—उनके औपन्यासिक मान—शुद्ध सामन्तीय है। साहित्य

हिन्दी-उपन्यास

या उपन्यास उनके लिए एक जीवित शक्ति नहीं है, वह मनोरञ्जन का—उपभोग का एक उपकरणमात्र है। वह जीवन की व्याख्या और आलोचना करने वाला एक चैतन्य प्रभाव नहीं है, उपभोग-जर्जर जीवन में झूठी उत्तेजना लाने वाली एक खुराक है। शारीरिक उत्तेजना के लिए जिस प्रकार लोग कुश्ते खाते थे, मानसिक उत्तेजना के लिए इसी प्रकार वे 'तिलिस्म होशरुवा' या 'चन्द्रकान्ता सन्तति' पढते थे। इस तरह से उस समय के जीवन के लिए चन्द्रकान्ता उपन्यास एक महत्व-पूर्ण प्रभाव था, और कम-से-कम उसकी अनन्त-विहारिणी कल्पना का लोहा तो सभी को मानना होगा। वह मन को इस बुरी तरह जकड़ लेती है यही उसकी शक्ति का अमंदिग्ध प्रमाण है। भारतीय जीवन की गति के अनुसार प्रेमचन्द तक आते-आते यह दृष्टिकोण बदलकर विवेक और नीति का दृष्टिकोण हो जाता है। उनके लिए उपन्यास सामाजिक-जीवन का निर्माण करने वाला एक चेतन-प्रभाव है, उपयोगिता और सुधार उसके दो ठोस उद्देश्य हैं, और नीति और विवेक दो साधन। जीवन से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। निदान उनका उपन्यास मानव-जीवन की ऊपरी सतहको छू कर नहीं रह जाता, वह उसके भीतर प्रवेश करता है। परन्तु चूँकि उसकी दृष्टि बहिर्मुखी है, सामाजिक जीवन पर ही केन्द्रित रहती है, इसलिए उसकी भी तो पैठ सीमित माननी ही पड़ेगी। नीति और विवेक के प्राधान्य के कारण प्रेमचन्द का उपन्यास प्राण-चेतना के आरपार नहीं देख पाता—विवेकी को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसकी विवेक की आँखें बीच में ही रुक जाती हैं, जीवन के अतल को स्पर्श नहीं कर पातीं। इसीलिए तो प्रेमचन्दजी की दृष्टि की व्यापकता, उदारता और स्वास्थ्य का कायल हो कर भी मुझे उनमें और शरत् या रविवायू में बहुत अन्तर लगता है। प्रेमचन्दजी की इस बहिर्मुखी सामाजिकता को उसी समय प्रसाद, वृन्दावनलाल वर्मा और उग्र ने चैलेञ्ज किया—प्रसाद ने निर्मम होकर सामाजिक संस्थाओं का गहिँत खोखलापन दिखाया, वृन्दावनलाल ने वर्तमान के इतिवृत्त को छोड़ अतीत के विस्मय-गौरव की ओर संकेत किया, उग्रने उनकी उथली नैतिकता को चुनौती दी। परन्तु गाँधीवाद के व्यवहार-पक्ष का लोक-रुचि पर उस समय इतना अधिक प्रभाव था कि प्रेमचन्द का गतिरोध करना असम्भव हो गया। उस समय लोगों की दृष्टि गाँधीवाद के व्यवहार-पक्ष तक ही सीमित थी, उनके अध्यात्म तक नहीं पहुँच पायी थी। जीवन के इस तल तक पहुँचने का प्रयत्न जैनेन्द्रजी ने किया है। विवेक

और नीति से आगे अध्यात्म की ओर बढ़ने का उनको और सियारामशरणजी को आरम्भ से ही आग्रह रहा है। उनकी पीडा की क्लिष्टता में गाँधीवाद का अध्यात्म-पक्ष ही तो है। इस दृष्टिकोण की दो तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ हमें भगवती बाबू की चित्रलेखा और अज्ञेय के शेखर में मिलती हैं। भगवती बाबू आस्तिक भ्रष्टवादी हैं। पीडा में उनका विश्वास नहीं। उनकी आस्था स्वस्थ उपभोग में है—अहं के निषेध में नहीं, अहं के परितोष में है। अज्ञेय का दृष्टिकोण शुद्ध वैज्ञानिक और बौद्धिक है। ये नास्तिक-बुद्धिवादी हैं। उनके इसी दृष्टिकोण की दृढ़ता और स्थिरता के कारण वास्तव में शेखर हिन्दी की एक अभूतपूर्व वस्तु बन गया। बुद्धि की इस दृढ़ता के साथ काश अज्ञेय के पास आस्तिकता का समर्पण-भाव भी होता ! यशपात में यह प्रतिक्रिया एक पग और आगे बढ़ जाती है। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक न रह कर भौतिकवादी हो जाता है। अज्ञेय की बौद्धिकता उनमें भी है, परन्तु वैज्ञानिक आत्म-लीनता उनमें नहीं है—ये अपने बाहर जाते हैं, इनमें भौतिकवादी सामाजिकता है.....।

ऊबे हुए लोगों में से इतने में ही एक तेज़ आवाज़ आई—आपने क्या खूब संश्लेषण किया है ! बस अब छुट्टी दीजिये !—और मैंने आँखें मलते हुए देखा कि काफ़ी दिन चढ़ आया है और श्रीमतीजी पूछ रही हैं—छुट्टी है क्या आज ?

प्रसाद के नाटक

—मूल-चेतना—

शान्त गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरङ्गों को दबा कर धूप में सुस्करा उठा है, या फिर गहन आकाश जो भस्मा और विद्युत् को हृदय में समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा है—ऐसा ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था।

प्रसाद अपने मूल-रूप में कवि थे, जीवन में उन्हें आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक थे। बस, शिव की उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। शिव का शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल को पान कर गए और उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका कण्ठ चाहे नीला हो गया हो, परन्तु मुख पर वही आनन्द का शान्त प्रकाश बना रहा। प्रसाद के जीवन का आदर्श यही था। वे बड़े गहरे जीवन-द्रष्टा थे। आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं को उन्होंने देखा और सहा था, यह विष उनके प्राणों में एक तीखी जिज्ञासा बनकर समा गया था—उनकी आत्मा जैसे आलोकित हो उठी थी। इस आलोकन को दबाते हुए आग्रह के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके आदर्श की व्याख्या करता है और यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है।

ऐसा व्यक्ति, यह स्पष्ट है, संसार की भौतिक वास्तविकता को विशेष महत्त्व नहीं देगा। प्रायः वह उसको छोड़ कहीं अन्यत्र आनन्द की खोज करेगा। एक शब्द में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना अनिवार्य है। वर्तमानसे त्रिमुख होने के कारण—जैसा रोमान्टिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है—वह पुरातन की ओर जायगा या कल्पना-लोक की ओर। प्रसाद का यही रोमान्टिक दृष्टिकोण उनकी सांस्कृतिक चेतना के लिए उत्तरदायी है।

—नाटकों का आधार—

प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है। आर्य-संस्कृति में उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिए उनके नाटकों में भारत के इतिहास का प्रायः वही परिच्छेद है—चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्षवर्धन तक—जिसमें उसकी संस्कृति

प्रसाद के नाटक

अपने पूर्ण वैभव पर थी : ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृतियों के संघर्ष से जब उसका स्वरूप प्रखर हो उठा था ।

एक ओर चाणक्य ब्राह्मण-धर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित करता है : “ब्राह्मण एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि-वैभव है—वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वशों का संघटन कर लेगा”; दूसरी ओर भगवान् बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती है : “विश्व के कल्याण में अग्रगण्य हो ! असंख्य दुःखी जीवों को हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुःख-समुद्र में कूद पडो ! यदि एक भी रूते हुए हृदय को तुमने हँसा दिया तो सहस्रों स्वर्ग तुम्हारे अन्तर में विकसित होंगे !.....विश्व-मैत्री हो जायगी—विश्वभर अपना कुटुम्ब दिखाई पड़ेगा !” इन्हीं दोनों धूप-छाँही डारों से बुना हुआ प्रसाद के नाटकों का आधार है ।

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य पर सुग्ध थे । स्वभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी युग में रहते थे । कालाहल की श्रवणी तज कर जब वे भुलावे का आह्वान करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होंगे, उस समय यह रंगीन अतीत उन्हें सचमुच बड़े वेग से आकर्षित करता होगा । इसीलिए उनके नाटकों में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती है । कामना का रूपक इसका सुखर साक्षी है । वे विदेशी छाया से आच्छादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग की ओर प्रेरित करने की बात नोचा करते थे । उन्होंने देखा कि हमारा वर्तमान इतिहास ही नहीं भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में मलिन हो गया है, अतः फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक अन्वेषण किये । उनके पुरातत्व-ज्ञान का आधार प्राचीन शिलालेख, पाणिनि-व्याकरण, पतञ्जलि-योग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कथासरित्सागर, राजतरङ्गिणी, पुराण, प्राचीन-काव्य-ग्रन्थ आदि ही है । प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के लिए सिर्फ रोमान्टिक मोह ही नहीं था—चन्द्रगुप्त मौर्य, कालिदास, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि के विषय में उनकी खोज अपना स्वतन्त्र महत्व रखती है । इस प्रकार भारतीय संस्कृति के बिखरे अवयवों को जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, चिन्ता और कल्पना द्वारा उसमें प्राण-सञ्चार किया ।

उन्होंने वातावरण की सृष्टि इतने सजीव रूप में की है कि मौर्य एवं

प्रसाद के नाटक

गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता है—फिर से हम आज की पश्चिम-मिश्र-संस्कृति और उसके पहिले की मुस्लिम-संस्कृति और उसके भी पूर्ण की सामन्तीय-संस्कृति इन तीनों को लोंघकर आर्य-संस्कृति की छाया से पहुँच जाते हैं। यह पुनरुत्थान इतने सहज ढङ्ग से होता है कि दो हजार वर्ष का संहार अन्तराय एक राध तिरोंदित हो जाता है। प्रसाद का दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र और बात-चीत सभी देश-काल के अनुकूल है। आम्भीक, अन्तर्वेद, गोपाद्रि, सदान्ताधिकृत, कुमारामात्य आदि शब्दों का प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने का अमोघ साधन है।

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि युग-जीवन या युग-धर्म का प्रभाव प्रसादजी पर विलकुल नहीं है। मैंने जैसा अभी निवेदन किया, प्रसादजी गहरे जीवन-दृष्टा थे। उनका आधुनिक जीवन का भी अध्ययन असाधारण था—अतएव उनके नाटकों में आज की समस्याएँ स्पष्ट प्रतिबिम्बित मिलती हैं। चन्द्रगुप्त और स्कन्दगुप्त से राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भव्य आदर्श है। युद्ध से जब स्कन्दगुप्त एक बार आहत हो कर गिर जाता है, उस समय सिंहदरवाजे के कण्ठ से बैठ कर प्रसादजी की देशभक्ति अमर स्वरो में फूट उठती है :

“मालव सैनिक—सेनापति, रक्तपात का बदला ! इस नृशंस ने निरीह जनता का अकारण बध किया है। प्रतिशोध ?

सिंहदरवाजा—ठहरो मालव वीरो, ठहरो। यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह मत्सुत्तर है।”

यह प्रसङ्ग इतिहास के अनुकूल ही अथवा नहीं, परन्तु इसमें बोलती हुई देशभक्ति की भावना एकान्त दिव्य है। देशभक्ति का इतना शुद्ध और पवित्र रूप मैंने हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र नहीं देखा।

इसी प्रकार आज की प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता पर भी प्रसादजी के चन्द्रगुप्त से अनेकों तीखे व्यंग्य हैं। चाणक्य की नीति का प्रमुख तत्त्व एक-राष्ट्र की स्थापना ही ता है—

“मालव और मागध को भूल कर जब आर्यावर्त का नाम लोगे तभी यह मिलेगा।”

प्रसाद के नाटक

“आकस्मिककारी घात और नाटकों से भेद न करेंगे।”

इसके अतिरिक्त हमारी अन्य समस्याएँ जैसे दाम्पत्य-सम्बन्धविच्छेद, धार्मिक अथवा जातीय द्रव्य आदि का भी प्रोट-प्रिवेचन स्थान-स्थान पर मिलता है। परन्तु प्रसाद की कला का यह चमत्कार है कि ये समस्याएँ उस पुरातन वातावरण से पूरी तरह से फिट कर दी गई हैं। जो लोग इस प्रकार के प्रभाव को ऐतिहासिक अन्वयति मानते हैं, वे वास्तव में मानव भावनाओं की चिरन्तनता को ग्रहण करने से अपनी अजमता-मात्र प्रकट करते हैं।

—सुख-दुःख की भावना—

प्रसाद के नाटकों के मूल-रूप को नमस्कार के लिए उन्नी सुख-दुःख की भावना को ग्रहण करना अनिवार्य है। उनके नाटक सभी सुखान्त हैं। परन्तु क्या उनको समाप्त करने पर पाठक के मन में सुन्दर और शान्ति का प्रस्फुरण होता है? नहीं। नाटक के ऊपर दुःख की छाया आदि से अन्त तक पड़ी रहती है और उनके मूल में एक कदम चेतना सुख की तरह से छिपी हुई अनिवार्यतः मिलती है। प्रो० शिलीमुख ने विल्कुल ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त-भावना प्रायः वैराग्य-पूर्ण शान्ति होती है। इसका कारण है उनके जीवन की वही कसूर जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदैव विलोडित करती रहती थी—बौद्ध इतिहास और दर्शन के मनन ने उसे और तीखा कर दिया था। उनके नाटकों में बौद्ध और आर्य-दर्शन का संघर्ष और समन्वय वास्तव में दुःखवाद और आनन्द-मार्ग का ही संघर्ष और समन्वय है जो उनके अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। इसी समन्वय के प्रभाववश उनके नाटक न पूर्णतः सुखान्त हैं और न दुःखान्त। उनमें सुख-दुःख जैसे एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। कवि आग्रह-पूर्वक सुख का आह्वान करता है, सुख आता भी है परन्तु तुरन्त ही दुःख भी अपनी कलक दिखा ही जाता है।

“सिल्यूकस—(काँ नैलिया की ओर देखता है; वह सलज्ज स्त्रिय भुका लेती है)—तब आओ बेटा, आओ चन्द्रगुप्त! (दोनों ही सिल्यूकस के पास आते हैं, सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों की वर्षा और जयध्वनि!)

चाणक्य—“(मौर्य का हाथ पकड़ कर) चलो, अब हम लोग चलें।”

इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा दुःखान्त न होकर प्रसादांत हैं। इसका एक प्रमाण और है, वह है रस का परिपाक।

प्रसाद के नाटक

इन नाटकों में मुख्य रस दो है : शृंगार और वीर (देशभक्ति) । इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और तीव्र है । शृंगार में एक ओर अपने को लय कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी ओर विलास की उष्ण गन्ध और रूप-यौवन के गहरे चित्र, जो प्रसाद की तूलिका की विशेष विभूति हैं । इसी प्रकार वीरता—देशाभिमान अथवा आत्म-गौरव की अभिव्यक्ति भी अन्तर की ही पुकार है । सिहरण अथवा बन्धुवर्मा की देशभक्ति कर्तव्य-पूर्ति नहीं, आत्मा का आग्रह है । उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर ही नहीं हैं, उनमें हृदय का आक्रोश भी है । परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस—शान्त रस—भी अनिवार्य रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन करता है । जब आवेश, चाहे वह मधुर हो या परुष, उबल कर सीमा तोड़ना चाहता है तभी शान्त रस के छींटे उसे शान्त और संयत कर देते हैं । स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग से परिशान्ति की ओर बहता हुआ मिलता है । यही प्रसाद के नाटकों का 'प्रसादान्त' होना है !

—चरित्र-प्रधान नाटक—

स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के द्वन्द्व को लेकर चलते हैं और इनकी सबसे बड़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है ।

प्रसाद आधुनिक साहित्य के सबसे महाम् स्रष्टा थे । उन्होंने अपने नाटकों में अनेक अमर-पात्रों की सृष्टि की है जो सभी अपना स्वतन्त्र एवं प्राणवान् व्यक्तित्व रखते हैं—दार्शनिक बिम्बसार और सनकी तत्त्वज्ञानी दाण्ड्यायन का व्यक्तित्व भी कितना साफ़ और तीखा है ! कारण यह है कि पात्रों में प्राण फूँकने वाली प्रतिभा की सजीवना और तीव्रता अद्वितीय थी । प्रसादजी के जीवन-स्थ की परिधि भले ही घर से दशाश्वमेध और दशाश्वमेध से घर तक सीमित रही हो, परन्तु उनका भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन चिर-गतिशील था । उसकी गति प्रेमचन्द्र की तरह विस्तार में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु अन्दर गहराई में बहुत दूर पहुँच गई थी । वे अत्यन्त प्राणवान् कलाकार थे, उनके व्यक्तित्व की तीक्ष्णता ने ही पात्रों की रूप-रेखा को काट-छाँट कर इतना तीखा कर दिया था ।

एक दूसरे प्रकार से भी स्रष्टा ने अपने-आप को सृष्टि में व्यक्त किया है : प्रसाद के दर्शन-कवित्व-मय व्यक्तित्व का थोड़ा-बहुत अंश उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है । पुरुष-पात्र प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं :

प्रसाद के नाटक

- (१) जीवन के तत्त्वों को सुलभाने वाले तत्त्व-वेत्ता आचार्य,
 - (२) जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होकर जूझने वाले कर्मठ सैनिक, और
 - (३) राजपुत्रों को राजनीति के दौलत-पेच सिखाने वाले कूट-नीतिज्ञ ।
- स्त्रियों में भी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ हैं—

- (१) राजनीति की आग में नलने वाली राज-महिलियाँ,
- (२) जीवन-युद्ध में प्रेम का सम्बल लेकर कूटने वाली स्वाभि-
मानिनी राजपुत्रियाँ,
- (३) जीवन के भँवर में पड़ी हुई मध्यवर्गीय दुर्बल नारियाँ, और
- (४) अपने निस्पृह बलिदान से नाटक के जीवन में एक करुण गन्ध
छोड़ जाने वाली फूल-सी सुकुमारियाँ ।

बौद्ध और शैव दर्शनो के समन्वय से जीवन की व्याख्या करने वाले ये आचार्य दार्शनिक प्रसाद के ही प्रतिरूप हैं । उधर निरन्तर कर्म में रत फलितु फल की ओर से विरक्त सैनिक-रूप राजपुत्रों को, प्रसाद का जीवन के विचार और उपभोग परिपुष्ट पौरुष प्राप्त हुआ है । नारी-पात्रों में आपको उनके हृदय का रूप-मोह और प्राणों में बैठी हुई जिज्ञासा की टीस मिलेगी । इस प्रकार प्रसादजी ने सभी चरित्रों में अपने व्यक्तित्व की साँस फूँक दी है । स्वभावतः उनमें वह अच्यक्तिगत चित्रण न मिलेगा जो सच्चे अर्थ में नाटकीय कहा जाता है । जहाँ शेक्सपियर जैसे नाटककारों में, कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया है यह पता लगाना असम्भव है, यहाँ आप प्रसादजीके व्यक्तित्व की झलक स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, चाणक्य—किसी भी चरित्र में थोड़ी-बहुत देख सकते हैं । इस दृष्टि से प्रेमचन्द्र प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक अव्यक्त रह सकते थे ।

प्रसाद के काव्य में विराट् और कोमल का अपूर्व संयोग है । जिस लेखक ने कामायनी के विराट् रूपक की सृष्टि की है उसीने अनेक मधु-स्निग्ध गीतियों की उद्भावना भी की है । अतएव आपको उनके नाटकों में इन दोनों तत्त्वों का अपूर्व योग मिलेगा । उनके दो प्रकार के चित्र साहित्य की अमर-विभूतियाँ हैं—

- (१) सम्पूर्ण चित्र, (२) रेखा-चित्र ।

पहिले चित्र कवि की विराट् भावना की प्रसूति हैं । उनमें सम्पूर्ण चरित्र-विकास शक्ति के आधार पर होता है । स्वभावतः यह चित्र समस्त

प्रसाद के नाटक

नाटक की दीवार को घेरे हुए रहता है। चाणक्य और स्कन्दगुप्त ऐसे ही दो चित्र हैं। अजातशत्रु की मल्लिका में विस्तार तो नहीं परन्तु शक्ति असीम है। इनमें महान् कोमल का एक स्पर्श-भर पाकर मुस्करा उठा है।

दूसरे चित्र गीतमय हैं—वे प्रसाद जी की सूक्ष्म-कोमल गीति-प्रतिभा के प्रोद्गास हैं। इनमें जीवन की समस्त रेखाएँ अथवा विभिन्न रङ्ग नहीं हैं, इनमें एक रेखा है और एक धुँधला रेशमी रंग है—एक ही स्वर है। 'संगीत-सभाओं की अन्तिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक लीण गंध-धूम-रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ—इन सबों की प्रतिकृति' हैं ये नारी चरित्र। देवसेना, मालविका और कोमा—ये तीन चित्र प्रसाद के नाटकों में उनकी ट्रेजेडी की सार-प्रतिमाएँ हैं। इनका व्यक्तित्व जैसे जीवन का सजीव कोमल-करुण व्यंग्य है।

—मधु-सिचन—

प्रसाद के नाटक सभी मधु-सिंचित हैं। वे मूल रूप में कवि हैं, अतः उनके नाटकों में काव्य की गहरी एवं पृथुल अन्तर्धारा बह रही है। उनके सुन्दरतम गीतों का एक बहुत बड़ा अंश इन नाटकों में बिखरा मिलेगा। इसके अतिरिक्त वस्तु-चयन, पात्रों के व्यक्तित्व, वातावरण, कथोपकथन और सारभूत प्रभाव—सभी में कविता का रंगीन स्पन्दन है। प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के सहारे, दूर अतीत के बिखरे हुए प्रस्तर-खण्डों को एकत्रित कर उनमें प्राणों की कविता का रस भर दिया; अतएव परिणाम-स्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उनका वातावरण रूप और रंग से जगमगा रहा है।

सबसे प्रथम उनके गीतों को ही लीजिये। यह सत्य है कि ये सभी गीत नाटकीय नहीं हैं। कुछ तो स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये हैं, परन्तु उनके भीतर जो वेदना की गहरी टीस, रूपयौवन का चटकोला रंग एवं विलास की उष्ण गन्ध भरी हुई है, वह समस्त नाटक पर सौरभ-श्लथ वासन्ती समीर की भाँति संचरण करती रहती है।

यही वान वस्तु-विधान और चरित्राङ्कन में है। प्रसाद की घटनाएँ रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं। अंधेरी रात में मागंधी और शैलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सर्वस्व-त्याग, स्कन्दगुप्त और देवसेना की विदा, मालविका का यलिदान—सभी-कुछ एक मृक-कविता है। पात्रों की स्नायुओं में भी रस का

प्रसाद के नाटक

प्रभूत संचार हो रहा है। इनमें से कतिपय तो एकांत कवित्वमय हैं। उनका अस्तित्व ही नाटक में कविता की सांस फूँकने को होता है। ये पात्र प्रायः नारी-पात्र होते हैं जिनके जीवन के विरल मधुर क्षण फूल के समान खिलकर अपना सौरभ छोड़ जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्रायः और सब पात्र भी अपने स्वप्न के कवित्व के भागी हुए हैं—चाणक्य के कर्म-कठोर व्यक्तित्व में भी बाल्यकाल की स्मृतियाँ भाँवरियाँ ले रही हैं। ये नाटक गद्य-गीतों का अद्भुत भाण्डार हैं। उदाहरण के लिए—

१—“अकस्मात् जीवन-कानन में, एक-राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसन्त घुम आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती हैं। सौन्दर्य का कोकिल ‘कौन?’ कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी! फिर उसी म प्रेम का मुकुल लग जाता है, आँसू-भरी स्मृतियाँ मकरन्द-सी उसमें छिपी रहती हैं।”

२—“धड़कते हुए रमणी-वचन पर हाथ रख कर, उस कम्पन में स्वर मिला कर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम-सङ्गीत की तान सौन्दर्य की लहर बन कर युवतियों के सुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढाया करती है।”

अब सारभूत प्रभाव लीजिये। वह न तो वास्तविकता की माँग पूरी करता है और न किसी आदर्श की पूर्ति। उसके पीछे भी सिद्धांत का नहीं, काव्य का आग्रह है। देखिए स्कन्दगुप्त का अंतिम दृश्य :—

“स्कन्दगुप्त—देवी, यह न कहो। जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुःखी लोग, एक दूसरे का मुँह देख कर काट लेंगे। हमने अन्तर की प्रेरणा से जो निष्ठुरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। परन्तु इस नन्दन की वसन्त श्री, इस अमरावती की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ—ऐसा मैं किस मुँह से कहूँ (कुछ ठहर कर सोचते हुए) और किस वज्र-कठोर हृदय से रोकूँ?.....”

.....देवसेना ! देवसेना !! तुम जाओ। हत-भाग्य स्कन्दगुप्त, अकेला स्कन्द, ओह !!

देवसेना—कष्ट हृदय की कसौटी है; तपस्या अग्नि है। सम्राट्,

प्रसाद के नाटक

यदि इतना भी न कर सके तो क्या ! सब क्षणिक सुखों का अन्त है । जिसमें सुखों का अन्त न हो, इस लिए सुख करना ही न चाहिए ! मेरे इस जीवन के देवता ! और उस जीवन के प्राप्य ! चमा !

(धुटने टेकती है; स्कन्द उसके गिर पर हाथ रखता है)”

—दोष—

प्रसाद के नाटकों के दोष शायद उनके गुणों से अधिक स्पष्ट हैं ।

सबसे पहला दोष रङ्गमञ्च विषयक है । उनके नाटक में अभिनय की त्रुटियाँ हैं । उनमें युद्ध, अभियान आदि के ऐसे दृश्य हैं जो मञ्च पर काफ़ी गड़बड़ करेंगे । दूसरे उनकी अपरिवर्तनशील गम्भीर भाषा में अभिनयोचित वाञ्छल्य नहीं है । अनावश्यक दृश्यों की संख्या भी बहुत है ।

दूसरा बड़ा दोष है एकता का अभाव । उसके लिये शायद उत्तरदायी है प्रसाद के मन में चलता हुआ सुख-दुःख का संघर्ष, जिसके समाधान का अथवा अन्त तक करते रहे थे । राज्यश्री या ध्रुवस्वामिनी में वस्तु-विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया । ध्रुवस्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूर्णतः एकसार है । परन्तु स्कन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त जैसे बड़े नाटकों में घटना-बाह्यत्व में फँस कर नाटक की एकता अस्त-व्यस्त हो गई है । इन दोनों नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र हैं जो प्रभाव की एकता के लिये अनावश्यक ही नहीं बल्कि घातक हैं । स्कन्दगुप्त में धातुसेन, पृथ्वीसेन, मातृगुप्त, मुद्गल और और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों का क्या प्रयोजन है ? चन्द्रगुप्त में चन्द्रगुप्त का सिंहासनारोहण बीच में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथा-वस्तु वहाँ एक बार दम तोड़ कर फिर उठती है ।

तीसरा प्रमुख दोष यह है कि वस्तु-विधान में कहीं-कहीं बड़े भद्दे जोड़ लगे हुए हैं । अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि संभालना कठिन हो गया है और प्रेम्णा करने के लिये उसे या तो वाञ्छित व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़कर उपस्थित कर देना पडा है अथवा किसी का जबरदस्ती गला घोटना पडा है । यह बड़े नाटकों में सर्वत्र हुआ है ।

—महत्त्व—

इस प्रकार इन नाटकों का महत्त्व असम है । एक ओर जहाँ पाठक उनके दोषों को देख कर विचुम्बित हो उठता है, दूसरी ओर उनकी शक्ति और

प्रसाद के नाटक

कविता से अभिभूत हुए विना भी नहीं रह सकता । ये नाटक अंशों में जितने महान् हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं । प्रसाद की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान् कोसल चग्नि, उनके विराट्-मधुर दृश्य, उनका काव्य-स्पर्श हिन्दी में तो अद्वितीय हैं ही, अन्य भाषाओं के नाटकों की तुलना में भी उनकी ज्योति मलिन नहीं पड़ सकती ।

गुलेरीजी की कहानियाँ

हमारे एक साहित्यिक मित्र ने जीवन के कुछ सिद्धान्त स्थिर कर रखे हैं। उनमें से एक यह भी है कि अध्ययन का मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव वे व्यक्तित्व के मूल्यांकन में विद्वत्ता को प्रायः अवगुण ही मानते हैं। उनका कहना है—और बात काफ़ी हद तक ठीक भी है—कि विद्वत्ता के अनुपात से ही व्यक्ति की प्राणवत्ता में कमी होती जाती है। विद्वान् व्यक्ति प्रायः प्राणवान् नहीं रह पाता, उसके दृष्टिकोण में जीवन की लज़गी न रह कर पुस्तक-ज्ञान का बोझीलापन आ जाता है।

गुलेरीजी इस सिद्धान्त के अपवाद हैं। उच्च कोटि की विद्वत्ता के साथ ही उतनी ही प्राणवत्ता भी उनके व्यक्तित्व में पायी जाती है। वे अपने युग में शुद्ध प्रथम श्रेणी के विद्वान् थे। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, भाषा-विज्ञान—सभी में उनकी अबाध गति थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं और हिन्दी, बँगला, मराठी, अंगरेज़ी आदि आधुनिक भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। लैटिन, जर्मन और फ्रेंच का भी उन्हें ज्ञान था। परन्तु अपने इस असाधारण पांडित्य को उन्होंने सदैव जीवन का साधन ही माना, साध्य नहीं बनने दिया। उनकी जीवन-चेतना इतनी प्रबल थी कि पांडित्य उसको पुष्ट तो कर सका पर दबा नहीं सका।

गुलेरीजी का सन्निप्त जीवन सभी प्रकार से सफल ही कहा जा सकता है। वे पुत्र, वित्त और लोक—तीनों ओर से सुखी थे। विद्यार्थी-जीवन में उन्हें स्पृहणीय सफलता मिली थी। हाई-स्कूल और बी.ए. में वे सर्व-प्रथम रहे थे। यौवन-काल में भी सफलता उनके चरण चूमती रही। पहले वे जयपुर राज्य के सभी सामन्त-पुत्रों के अभिभावक रहे। बाद में उन्होंने बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में कॉलेज ग्रॉव ओरियण्टल लनिङ्ग ऐण्ड थियॉर्लॉजी के प्रिंसिपल पद का सुशोभित किया। लोक-जीवन में भी उनको अक्षय गौरव प्राप्त हुआ था। काशी-नागरी-प्रचारिणी का सभापतित्व, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक-माला एवं सूर्यकुमारी पुस्तकमाला का सम्पादन, अनेक लेखों का स्वदेशी-विदेशी विद्वानों द्वारा अभिनन्दन—ये सब उनके गौरव की स्वीकृति के विभिन्न रूप थे। परन्तु गौरव दीर्घजीवी नहीं होता ! उन्तालीस वर्ष की अल्पायु में ही

गुलेरीजी की कहानियाँ

जमस्त दिशाओं को उद्घासित कर यह प्रकाश-पुंज भी तिराहित हो गया और विद्वान् लोग यह अनुमान लगाते ही रह गये कि अगर कुछ और समय मिलता तो शायद वह हिन्दी जगत का समग्रतः आच्छादित कर लेता ।

गुलेरीजी ने हिन्दी-साहित्य के अनेक विभागों को समृद्ध किया । भाषा-तत्त्व और पुरातन्त्र पर उनका पर्याप्त साहित्य विद्यमान है । पुरानी हिन्दी और शिशुनाग-मूर्तियों पर लिखे हुए उनके लेख आज भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । परन्तु मैं उनके इस साहित्यांग को रक्षार्थ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसकी मीमांसा करने का अधिकारी नहीं हूँ । मैं तो केवल उनके सृजनात्मक साहित्य, उनकी कहानियों की ही विवेचना करता हुआ यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि किस प्रकार उनकी सृजन-प्रतिभा अविकसित ही रह गई और कलाकार के रूप में वे अपना प्राप्य न पा सके ।

—गुलेरीजी की कहानियाँ—

अभी एक-आध वर्ष पहले तक सब का यही खयाल था कि गुलेरीजी केवल एक ही कहानी 'उसने कहा था' लिख कर अमर हो गये । विद्वानों ने इस बात को पूरे विश्वास के साथ लिखित रूप में भी स्वीकृत कर लिया था । परन्तु कुछ दिन हुए गुलेरीजी की दो और कहानियाँ सामने आईं—'सुखमय जीवन' और 'बुद्धू का काँटा'—और आलोचकों की यह उलझन कि गुलेरीजी ने एकसाथ ही ऐसी 'ए वन्' कहानी कैसे लिख डाली, कुछ-कुछ सुलझी । इस दशामे उन्होंने तीन पत्र रखे । पहला था 'सुखमय-जीवन', दूसरा 'बुद्धू का काँटा' और तीसरा 'उसने कहा था' । सम्भव है, उन्होंने कुछ और भी प्रयत्न किए हों जो आज उपलब्ध नहीं ।

—दृष्टिकोण—

जीवन के प्रति गुलेरीजी का दृष्टिकोण, जैसा मैंने आरम्भ में कहा है, सर्वथा स्वस्थ है । उनके साहित्य का आधार छायानुभूतियाँ नहीं हैं, जीवन की मांसल अनुभूतियाँ ही हैं । निदान उनमें मानसिक ग्रन्थियों का सर्वथा अभाव मिलता है । जीवन में नीति और सदाचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए भी वे सैक्स के नाम पर बिड़कने वाले आदमियों में से नहीं थे । जहाँ-कहीं भी प्रसंग आया है उन्होंने मुक्त भाव से बिना भिन्नके उसकी स्पष्ट व्यंजना की है—यहाँ तक कि 'उसने कहा था' कहानी में उद्धृत पंजाबी के उस गाने में 'कर लेणा नाड़े दा सौंदा अड़िये' के स्थान पर

गुलेरीजी की कहानियाँ

भी उन्होंने शर्मा कर चिह्न-बिन्दु नहीं लगाये, साफ़ ही पंक्ति को उद्धृत कर दिया है। यह उनके मन के स्वास्थ्य का असंदिग्ध प्रमाण है। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं ही इस सत्य का उद्घाटन किया है : “जो कोने में बैठ कर उपन्यास पटा करते हैं उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र होते हैं।” गुलेरीजी प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को ही देखते थे, उपन्यासों की सृगतृष्णा में चमत्कार नहीं ढूँढते थे।

उनकी कहानियाँ में स्पष्ट ही शास्त्र के बँध हुए वातावरण से प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण की ओर जाने की प्रवृत्ति है। उनके जीवन-मान सर्वथा प्राकृतिक हैं। कृत्रिम मान—चाहे उन पर सभ्यता और नागरिक शिष्टाचार का कितना ही मुलम्मा चढा हो, उन्हें सह्य नहीं थे। दृष्टिकोण का यह स्वास्थ्य हस, विवेक, और विचार—तीनों तत्वों के उचित सम्मिश्रण का फल था। उसमें अन्तरभिमुखता और बहिर्मुखता का वाञ्छित संयोग था। जीवन के रस का उन्होंने सम्यक् उपभोग किया परन्तु अपने जागृत विवेक के कारण उसमें बहे नहीं। इससे अनुभूति में स्थिरता आई। उधर, विचार ने उसको गंभीरता और परिपक्वता प्रदान की। जीवन-तत्वों का यही सम्यक् संतुलन उनके जीवन और साहित्य की सफलता का कारण था।

—सामाजिक चेतना—

ऐसे व्यक्ति की सामाजिक चेतना स्वभावतः ही बलवती होनी चाहिए। और वास्तव में हिन्दी कहानी के उस प्रसवकाल में इस प्रकार की सामाजिक चेतना होना आश्चर्य की बात है। उन्होंने दृष्टि को अपने मन के राग-द्वेषों पर ही न गटा कर बाहर जीवन की धूप में विचरने दिया और समाज की सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहे। उदाहरण के लिए पर्दे की अस्वस्थ प्रथा, उन्मत्त वदती हुई सभ्यता की दाम्भिक चेतना, विवाह से सम्बद्ध दहेज-मुहूर्त आदि की प्रथाओं पर वे बीच-बीच में छींटे छोड़ते हुए चले हैं।

इसके साथ ही कुछ अन्य सामयिक प्रश्नों पर भी, जैसे हिन्दी में ग्रहण किए गये संस्कृत के नन्यम शब्दों के उच्चारण पर भी, उन्होंने मौका देखकर फिकरा कम दिया है। संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् होते हुए भी गुलेरीजी यह

गुलेरीजी की कहानियाँ

मानते थे कि संस्कृत नक्सम शब्दों का उच्चारण हिन्दी-व्याकरण के नियमों के अनुकूल ही होना चाहिए। आज से तीन वर्ष पूर्व एक संस्कृत के पण्डित की इस प्रकार की धारणाएँ कितनी प्रगतिशील थी यह देखकर उनके व्यक्तित्व की शक्ति का पता चलता है। इस दृष्टि से यह व्यक्ति अपने समय से कितना आगे था !

—हास्य—

ऐसे खुले हुए स्वभाव के व्यक्ति में निश्चय ही हास्य की अत्यन्त प्रखर भावना होगी। गुलेरीजी के हृदय में कुठन का विष नहीं था, संतोष का अमृत था; इसीलिए उनके हास्य में भी कुठन का विष नहीं, संतोष का अमृत है। उन्होंने स्वस्थ दृष्टि से अपने चारों ओर बहुत गौर से देखा। जीवन और जगत में सर्वत्र उन्हें ऐसी विचित्रता दिखाई पड़ी जिससे स्वभावतः ही उनके हृदय में गुदगुदी पैदा हो जाती थी। वास्तव से उनका हास्य एक ऐसे व्यक्ति का हास्य है जिसके हृदय में जीवन के प्रत्येक सुख से सहानुभूति है, जो विकृतियों में भी अद्भुत वैचित्र्य और आर्कषण पाता है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का दम्भ या मैज नहीं है और जो खुलकर हँसता है। एक उदाहरण लीजिये। अमृतसर के इक्के-तांगे वालों की बोलियों की तारीफ़ करते हुए आप फ़र्माते हैं—“क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं; चलती है, पर भीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बारबार चित्तौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं : हटजा जीणे जोगिये, हटजा करमा वालिये, हटजा पुताँ प्यारिये, बचजा लम्बी वालिए ! समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्योंवाली है, पुत्रों को प्यारी है, लम्बी आयु तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है—बचजा !”

दूसरी बात जो गुलेरीजी के हास्य के विषय में जानने योग्य है यह है कि वे हास्य की सृष्टि नहीं करते, उद्बुद्धि-मात्र करते हैं। उनका हास्य साध्य नहीं, साधन है। वे केवल हास्य के लिए परिस्थिति का स्रजन नहीं करेंगे वरन् उपस्थित परिस्थिति में ही हास्य की तरंग पैदा कर देंगे। कहीं-कहीं तो गम्भीर परिस्थिति को भी वे हँसी से गुदगुदा देते हैं। ‘सुखमय जीवन’ के अंत में परिस्थिति में काफ़ी खिंचाव आ गया है परन्तु ज्योंही उत्तेजना शान्त होती

गुलेरीजी की कहानियाँ

हैं और परिस्थिति में लोच आता है, गुलेरीजी फौरन ही उसे गुदगुदा देते हैं। प्रेचर वृद्ध गुलाबराय वर्मा की आँखों में आँसू तो वास्तव में मानसिक स्तब्धता का अंत हो जाने के कारण—दूसरे शब्दों में, क्रोध के सहसा आनन्द में परिणत हो जाने के कारण—आते हैं, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि “वृद्ध की आँखों पर कमला की माता की विजय होने के क्षोभ के आँसू थे या घर बैठ पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आँसू थे ? राम जाने !” अच्छा, और यह मन्डेह होता है उस व्यक्ति को जो स्वयं ऐसी ही मानसिक स्थिति में होकर गुज़र चुका है। इस प्रकार गुलेरीजी के पात्र कभी-कभी अपने पर भी हँस लेते हैं।

गुलेरीजी अधिकतर अपने पात्रों पर नहीं हँसते—उनके साथ हँसते हैं। इसलिए उनके हास्य में विनोद की मात्रा अधिक रहती है। इनकी कहानियाँ विनोद की फुलझडियाँ छोड़ती हुई रस-दिशा में बढ़ती हैं। विनोद के अतिरिक्त वाक्-चापल्य और वाक्-चातुर्य का भी सम्यक् उपयोग उनमें मिलता है। लहनासिंह और नकली लेफिटनेन्ट साहब की बातचीत उसका सुन्दर उदाहरण है। व्यंग्य का प्रयोग उन्होंने अपेक्षाकृत कम किया है। जहाँ है वहाँ अत्यंत महीन और मधुर है। किसी गम्भीर नैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर सुधार करने के लिए वे किसी का हास्य द्वारा प्रताडित नहीं करते।

—रस—

इन सब गुणों के होते हुए भी गुलेरीजी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण ता रस ही है। यह रस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव नहीं है, जीवन के गम्भीर और स्वस्थ उपभोग में से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। उसमें एक बलिष्ठ व्यक्तित्व का वज़न है। ‘बुडू का काँटा’ की परिणति में काफी रम्य है। ‘उसने कहा था’ कहानी का आरम्भ चंचल-मधुर है। पर अंत में तो जैसे सारी ही कहानी रस में डूब जाती है। शैशव की उम्र मीठी घटना से माधुर्य और लहनासिंह के पुरुषार्थी व्यक्तित्व से शक्ति प्राप्त कर अन्त में उम्रके बलिदान की करुणा कितनी गम्भीर हो जाती है। आप देखें कि रति, हास, ओज और कारुण्य—इनके मिश्रण से रस का जो परिपाक हांता है वह अत्यन्त ही भ्रगाढ और पुष्ट है, और यह रस-सिंचन घटनाओं और परिस्थितियों में ही नहीं है, वर्णनों में भी स्थान-स्थान पर इसकी रमीली मुस्कराहट मिलती है। उदाहरण के लिए—

(१) “आँखों के डंले काले, कोण सफेद नहीं कुछ मटियानीले, और

गुलेरीजी की कहानियाँ

पिघलते हुए। जान पड़ता था कि अभी पिघलकर वह जायेंगे। आँखों के चोंतरक हँसी, ओठों पर हँसी और सारे शरीर पर नीरोग स्वास्थ्य की हँसी।”

(२) “पहाड़ी ज़मीन, बिना पानी सींचे हुए हरे मखनज कं गलीचे से ढँकी हुई ज़मीन, उस पर जंगली गुलदाऊदी की पीली टिमकियाँ और वसन्त के फूल, आलू-बुखारे और पहाड़ी करौड़े की रज से भरे हुए छोटे-छोटे रंगीले फूल जो पेड़ का पत्ता भी न दिखने दें, ज़िलिज पर लटकें हुए बादलों की-सी वरक्रीले पहाड़ों की चोटियाँ जिन्हें देखते आँखें अपने-आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवाकी साँस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती, नदी से निकाली हुई छोटी-छोटी असंख्य नहरे जो माँपके-से चक्कर खा-खाकर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलेटी में जा मिलतीं।”

—भाषा—

सबसे अधिक आश्चर्य-जनक है गुलेरीजी की भाषा। ऐसी प्रौढ़ भाषा उस समय तो कोई लिख ही क्या सकता था, गद्य के समुन्नत युग में भी कोई लिख सका है, इसमें मुझे सन्देह है! प्रेमचन्द की भाषा में इतनी प्रौढ़ि और शक्ति कहाँ हैं, और शुक्लजी की भाषा में जीवन की इतनी स्फूर्ति और अर्थार्थता कहाँ हैं?

आज से तीस-पैंतीस वर्ष पूर्व जब हिन्दी का गद्य व्याकरण की पुस्तकों से बाहर आते ही लड़खड़ाने लगता था, गुलेरीजी की भाषा की लालचणिक और व्यंजनात्मक शक्तियों पर कितना व्यापक अधिकार था! उनकी भाषा में जीवन-गत विभिन्न परिस्थितियों को—विभिन्न पात्रों की-विभिन्न मनोदशाओं को—व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। और उन्होंने सदैव ही भाषा के वारतविक रूप को बनाये रक्खा है, इसलिए उसका माधुर्य, ओज और प्रसाद स्वाभाविक ही है। उन्होंने कहीं भी न तो माधुर्य लाने के लिये शब्दों की हड्डियाँ तोड़ कर उन्हें मुलायम बनाने की कोशिश की है और न ओज के लिए तीलियाँ बाँधकर ही उनको कड़ा और खड़ा करने की कोशिश की है।

इस व्यक्ति के जीवन की सफलता का यही रहस्य था कि इसने अपने पाण्डित्य की गम्भीरता को जीवन के उपभोग में अत्यन्त सतर्कता से प्रयुक्त किया। इसीलिए इसके व्यक्तित्व में स्फूर्ति और गम्भीरता का अद्भुत योग था! ठीक यही रहस्य उनकी भाषा की समर्थता का भी है—यहाँ भी उन्होंने अपनी व्यापक शब्द-शक्ति और भाषागत पाण्डित्य का उपयोग जीवनगत भाषा गढ़ने में किया। प्राणवान् व्यक्ति में का पाण्डित्य जिस प्रकार जीवनगत

गुलेरीजी की कहानियाँ

अनुभव में शक्ति और उसका जीवनगत अनुभव पाण्डित्य से समृद्धि पाता रहता है इसी प्रकार साहित्य की भाषा जीवन की भाषा में शक्ति और जीवन की भाषा साहित्य की भाषा से समृद्धि पाती रहती है। और किसी व्यक्ति के लिए ये दो खोत जितने ही अधिक खुले होंगे उतनी ही समृद्ध और मशक्त उसकी भाषा होगी। गुलेरीजी को यह सुविधा भरपूर प्राप्त थी।

गुलेरीजी के बाद इस विषय का उनमें गुस्तर उदाहरण हमारे पास राहुल का है। परन्तु राहुल में एक दोष है—उनमें छूमर नहीं। इसीलिए उनकी भाषा में समृद्धि और शक्ति अधिक होते हुए भी स्फूर्ति और फटक उतनी नहीं है जितनी कि गुलेरीजी की भाषा में।

—टेकनीक—

गुलेरीजी के उपर्युक्त गुणों का अब तक जो उल्लेख किया गया है, उससे आप यह मत समझिये कि उनकी सभी कहानियाँ सर्वथा पूर्ण और निर्दोष हैं। यह बात बिल्कुल नहीं है। उनकी अन्तिम कहानी 'उसने कहा था' तो अवश्य हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से है, परन्तु पहली दोनों कहानियों में बहुत-कुछ कच्चापन है। 'सुखमय जीवन' में तो वास्तव में कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पायी। उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यन्त अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है। 'बुद्धू का काँटा' इसमें कहीं अधिक सफल कहानी है, परन्तु उसमें भी अतिरंजना और अप्रासंगिकता है। इसकी नायिका—(शायद यह पारिभाषिक और कृत्रिम नागरिक विशेषण उसके लिए गुलेरीजी स्वीकार न करते)—कुछ अधिक वाग्वीर और पहलवान है। इसके अतिरिक्त उस पहाड़ी टट्टू वाले की सारी कहानी ही अप्रासंगिक है।

परन्तु जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, ये दोनों कहानियाँ दो पहिली संज़िलें हैं। 'सुखमय जीवन' में गुलेरीजी की कहानी-कला का शैशव है, 'बुद्धू का काँटा' में किशोरावस्था और 'उसने कहा था' में आकर वह पूर्ण योषिता हो गई है। चूँकि वह समय से पूर्व ही पूर्णत्व को प्राप्त हो गई थी इसीलिए शायद उसकी अकाल-मृत्यु हो गई। बहुत हौनहार बालक अधिक दिन जीवित नहीं रहते।

छायावाद की परिभाषा

आज से बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व, युग की उद्बुद्ध चेतना ने वाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मवृद्ध अन्तर्मुखी साधना आरम्भ की वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। जिन परिस्थितियों ने हमारी कर्म-वृत्ति को अहिंसा की ओर प्रेरित किया उन्हीं ने भाव-वृत्ति को छायावाद की ओर। उसके मूल में स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म के प्रति आग्रह था।

पिछले महायुग के उपरान्त ग्राम के जीवन में एक निस्स्वार खोखलापन आ गया था। जीवन के प्रति विश्वास ही नष्ट हो गया था। परन्तु भारत में आर्थिक पराभव के होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दन था। भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक आशाएँ लगाये बैठी थी। उसमें स्वप्नों की चञ्चलता थी। वास्तव में भारत की आत्म-चेतना का यह किशोर काल था जब अनेक इच्छा-अभिलाषाएँ उड़ने के लिये पङ्क फड़फड़ा रही थीं। भविष्य की रूप-रेखा नहीं बन पाई थी, परन्तु उसके प्रति मन में इच्छा जग गई थी। पश्चिम के स्वच्छन्द विचारों के सम्पर्क से राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति असन्तोष की भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी, भले ही उनको नोडने का निश्चित विधान अभी मन में नहीं आ रहा था। राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद की दृढ़ नैतिकता असन्तोष और विद्रोह की इन भावनाओं को बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थीं। निदान वे अन्तर्मुखी होकर धीरे-धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थीं, और वहाँ से क्षति-पूर्ति के लिये छाया-चित्रों की सृष्टि कर रही थी। आशा के इन स्वप्नों और निराशा के इन छाया-चित्रों की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई।

छायावाद में आरम्भ से ही जीवन की सामान्य और निकट वास्तविकता के प्रति एक उपेक्षा, एक विमुखता का भाव मिलता है। नवीन चेतना से उद्दीप्त कवि के स्वप्न अपनी अभिव्यक्ति के लिये चञ्चल हो रहे थे, परन्तु वास्तविक जीवन में उसके लिये कोई सम्भावना नहीं थी। अतएव स्वभावतः ही उसकी वृत्ति निकट यथार्थ और स्थूल से विमुख होकर सुदूर, रहस्यमय, और सूक्ष्म के प्रति आकृष्ट हो रही थी। भावनाएँ कठोर वर्तमान से कुण्ठित होकर स्वर्ण-अतीत या आदर्श भविष्य में वृत्ति खोजती थीं—ठोस वास्तव से

छायावाद की परिभाषा

ठोकर खाकर कल्पना और स्वप्न का संसार रचती थी—कोलाहल के जीवन से भागकर प्रकृति के चित्रित अञ्जल में शरण लेती थीं—स्यूत से सहम कर सूक्ष्म की उपासना करती थीं। आज के आलोचक इसे पलायन कह कर तिरस्कृत करते हैं, परन्तु यह वास्तव को वायवी या अतीन्द्रिय रूप देना ही है—जो मूल रूप से मानसिक कुण्ठाओं पर आश्रित होते हुए भी प्रत्यक्ष में पलायन का रूप नहीं है। वास्तव पर अन्तर्मुखी दृष्टि डालते हुए उसको वायवी अथवा अतीन्द्रिय रूप देने की यह प्रवृत्ति ही छायावाद की मूल वृत्ति है। उसकी सभी अन्य प्रवृत्तियों की इसी अन्तर्मुखी वायवी वृत्ति के आधार पर व्याख्या की जा सकती है।

—व्यक्तिवाद—

यह अन्तर्मुखी प्रवृत्ति जिन विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है उनमें सबसे मुख्य है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के दो रूप हैं। एक, विषय पर विषयी की मनसा का आरोप अथवा वस्तु को व्यक्तिगत भावनाओं में रँग कर देखना। दूसरा, समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि में ही लीन रहना।

द्विवेदी युग की कविता इतिवृत्तात्मक और वस्तुगत थी। उसकी प्रतिक्रिया में छायावाद की कविता भावात्मक एवं आत्मगत हुई। दूसरे, उस कविता का विषय बहिरङ्ग सामाजिक जीवन था : द्विवेदी युग का कवि बहिर्मुख होकर कविता लिखता था। छायावाद की कविता का विषय अन्तरङ्ग व्यक्तिगत जीवन हुआ : छायावाद का कवि आत्मलीन होकर कविता लिखने लगा। उसका अही व्यक्तिभाव प्रसाद में आनन्दभाव, निराला में अद्वैतवाद, पन्त में आत्मरति और महादेवी में परोत्तरति के रूप में प्रकट हुआ।

—शृङ्गारिकता—

अन्तर्मुखी प्रवृत्ति की दूसरी अभिव्यक्ति है शृङ्गारिकता। छायावाद की कविता प्रधानतः शृङ्गारिक है, क्योंकि उसका जन्म हुआ है व्यक्तिगत कुंठाओं से, और व्यक्तिगत कुंठाएँ प्रायः काम के चारों ओर केन्द्रित रहती हैं। जिस समय छायावाद का जन्म हुआ उस समय स्वच्छन्द विचारों के आदान से स्वतन्त्र प्रेम के प्रति समाज में आकर्षण बढ़ रहा था, परन्तु सुधार-युग की कठोर नैतिकता से सहमकर वह अपने में ही कुण्ठित रह जाता था। समाज के चेतन मन पर नैतिक आतङ्क अभी इतना अधिक था कि इस प्रकार की स्वच्छन्द भावनाएँ अभिव्यक्ति नहीं पा सकती थीं। निदान वे अवचेतन में उतरकर वहाँ से अप्रत्यक्ष रूप

छायावाद की परिभाषा

में व्यक्त होती रहती थी। और यह अप्रन्यस्त रूप था नारी का अशरीरी सौन्दर्य अथवा अतीन्द्रिय शृंगार। छायावाद का यह अतीन्द्रिय शृंगार दो प्रकार से व्यक्त होता है। एक तो प्रकृति के प्रतीको-द्वारा : प्रकृति पर नारी-भाव के आरोप द्वारा। दूसरे नारी के अतीन्द्रिय सौन्दर्य द्वारा अर्थात् उसके मन और आत्मा के सौन्दर्य को प्रधानता देते हुए उसके शरीर के असांगल चित्रण द्वारा।

छायावाद में शृंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिल कर, विरजय का भाव मिलना है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और सांसल न होकर कल्पनामय या मनोमय है। छायावाद का कवि प्रेम को शरीर की भूख न समझकर एक रहस्यमयी चेतना समझता है। नारी के अङ्गों के प्रति उसका आकर्षण नैतिक आतङ्क से महम कर जैसे एक अस्पष्ट कौतूहल में परिणत हो गया है। इसी कौतूहल ने छायावाद के कवि और नारी के व्यक्तित्व के बीच अनेक रेशमी झिलमिल पर्दे डाल दिये हैं; और वास्तव में छायावाद के झिलमिल काव्य-चित्रों का मूल उद्गम ये ही झिलमिल पर्दे हैं। उसके वायवी रूप-रङ्ग का वैभव इन्हीं से उत्कीर्ण होता है और इन्हीं पर आश्रित होने के कारण छायावाद की काव्य-सामग्री के अधिकांश प्रतीक काम-प्रतीक हैं।

—प्रकृति पर चेतना का आरोप—

छायावाद में प्रकृति के चित्रों की प्रचुरता है। कुछ विद्वानों की तो यह धारणा है कि छायावाद का प्राण-तत्त्व ही प्रकृति का मानवीकरण अर्थात् प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का आरोप है। यह सत्य है कि छायावाद में प्रकृति को निर्जीव चित्राधार अथवा उद्दीपक वातावरण न मान कर ऐसी चेतन सत्ता माना गया है जो अनादिकाल से मानव के साथ स्पन्दनों का आदान-प्रदान करती रही है। परन्तु फिर भी प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की मूल प्रवृत्ति नहीं है, क्यों कि स्पष्टतः छायावाद प्रकृति-काव्य नहीं है; और इसका प्रमाण यह है कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण नहीं है वरन् प्रकृति के स्पर्श से मन में जो छाया-चित्र उठें उनका चित्रण है जो प्रवृत्ति प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का आरोपण करती है वह कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है; वह मन की कुण्ठित वासना ही है जो अवचेतन से पहुँच कर

सूक्ष्म रूप धारण कर प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा अपने को व्यक्त करती है। निदान प्रकृति का उपयोग यहाँ दो रूपों में हुआ है। एक कोलाहल-मग्न जीवन से दूर शान्त-स्निग्ध विश्राम-भूमि के रूप में और दूसरे प्रतीक रूप में। रूप, ऐश्वर्य और स्वच्छन्दता जो जीवन में नहीं मिल सके वह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिले, अतएव कवि की मनोकामनाएँ बार-बार उसी के मधुर अञ्जल में खेलने लगी और प्रकृति के प्रति आकर्षण बढ़ जाने से स्वभावतः उसी के प्रतीक भी अधिक रुचिकर और प्रिय हुए।

—मूल-दर्शन—

जैसा कि सुश्री महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद का मूलदर्शन सर्वात्मवाद है—प्रकृति के अन्तर में प्राण-चेतना की भावना करना सर्वात्मवाद की ही स्वीकृति है। उन्होंने वैदिक ऋचाओं में समानान्तर उद्धरण देकर यह स्थापित किया है कि प्रकृति में स्पन्दित जीवन-चेतना की पहचान भारतीय कवि के लिए नवीन न होकर अत्यन्त प्राचीन है—सनातन से चली आ रही है। छायावाद में समस्त जड़-चेतन को मानव-चेतना से स्पन्दित मान कर अंकित किया गया है, और इस भावना को यदि कोई दार्शनिक रूप दिया जायगा तो वह निश्चय ही सर्वात्मवाद होगा। परन्तु क्रमका भेद है। छायावाद का कवि आरम्भ में ही सर्वात्मवाद की अनुभूति से प्रेरित नहीं हुआ है। उसकी प्रेरणा उसकी कुण्ठित वासनाओं में से ही आई है, सर्वात्मवाद की रहस्यानुभूति से नहीं, यह निर्विवाद है। इसे न मानना प्रत्यक्ष का निषेध करना है। और इसका प्रमाण यह है कि पल्लव, नीहार, परिमल, आँसू आदि की मूलवर्ती वासना अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म तो अवश्य हैं परन्तु सर्वथा उदात्त और आध्यात्मिक नहीं हैं।

आज के बुद्धिजीवी कवि के लिए वासना को सूक्ष्मतर करना तो साधारणतः सम्भव है, परन्तु आध्यात्मिक अनुभूति का होना उसके लिए सहज सम्भव नहीं है; और यह स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि गत युद्ध के बाद जिन कवियों के हृदयों से छायावाद की कविता उद्भूत हुई उन पर किसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति का आगोप नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उस अवस्था में तो कोई विशेष परिष्कृति भी सम्भव नहीं थी—वह उन कवियों का तारुण्य था जब मन की सहज भावनाएँ अभिव्यक्ति के लिए आकुल हो रही थीं। बाद में प्रसाद या महादेवी भारतीय

छायावाद की परिभाषा

अध्यात्म-दर्शन के सहारे, अथवा पन्त देश-विदेश के भौतिक सर्वहितवादी दर्शनों के आधार पर, उभे परिशुद्ध एवं संस्कृत भले ही कर पाये हों, परन्तु आरम्भ से कोई दिव्य प्रेरणा उन्हें थी यह मानना असत्य होगा।

अतएव प्रकृति पर मानवता का आरोप कम-से-कम आरम्भ में तो निश्चय ही अनुभूति का तत्व न होकर अभिव्यक्ति का प्रकार था। शृंगार और स्वच्छन्दता की भावनाएँ, जिन्हें परिस्थिति के अनुरोध से प्रकृत रूप में अभिव्यक्त करना सम्भव नहीं था, प्रकृति के रूपको से अन्योक्ति आदि के द्वारा व्यक्त होती थी। बस, इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रवृत्ति की कोई भी मनोवैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं। सर्वात्मवाद का बुद्धि द्वारा ग्रहण तो सहज सम्भव है परन्तु उसको अनुभूति के लिए उस समय छायावाद के किसी भी कवि को चेतना किया जा सकता था। उस समय स्वच्छन्द छायावृत्तियों में छायावाद का निर्माण हो रहा था, जो एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट संस्कार के कवियों की जीवन के प्रति सहज प्रतिक्रिया थी, प्रगतिवाद की तरह किसी ठोस वैज्ञानिक बौद्धिक जीवन-दर्शन से मन को टकरा-टकरा कर प्रेरणा नहीं ली जा रही थी।

यही बात रहस्यानुभूति के विषय में कही जा सकती है। बहिरङ्ग-जीवन से सिमटकर जब कवि की चेतना ने अन्तरङ्ग में प्रवेश किया तो कुछ बौद्धिक जिज्ञासाएँ—जीवन और मरण सम्बन्धी, प्रकृति और पुरुष सम्बन्धी, आत्मा और विश्वात्मा सम्बन्धी—काव्य में आ जाना सम्भव ही था; और वे आईं। कुछ आध्यात्मिक क्षण तो प्रत्येक भावुक के जीवन में आते ही हैं। अतएव छायावाद की रहस्योक्तियाँ एक प्रकार से जिज्ञासाएँ ही हैं। वे धार्मिक साधना पर आश्रित न होकर कहीं भावना, कहीं चिंतन और कहीं केवल मन की छलना पर ही आश्रित हैं।

छायावाद के ये ही मूल तन्तु हैं। इन्हीं में अभिन्न रूप से गुथा हुआ आपको विषाद का नीला तन्तु भी मिलेगा जो असन्तोष और कुण्ठा का परिणाम है। परन्तु यह विषाद सन्ध्या की कालिमा न होकर प्रत्यूष की चित्रित नीहारिका है। इसमें धुमडन है, पराजय नहीं। नीरजा के विषाद और निशा-निमन्त्रण के विषाद की तुलना मेरे आशय को स्पष्ट कर देगी। इसका कारण यह है कि छायावाद की दुनिया अननुभूत दुनिया थी। बचचन के समय तक आकर वह अधिक जीवन-गत (अनुभूत) हो चुकी थी। अतः छायावाद की निराशा भी अनुभूत होने के कारण श्रान्त और जर्जर नहीं हो गई थी; वह स्पन्दित

और-स्फूर्त थी। छायावाद के चिर-उपहसित पीडा-प्रेम का यही व्याख्यान है।

—भ्रान्तियाँ—

छायावाद के विषय में तीन प्रकार की भ्रान्तियाँ हैं।

पहला भ्रम उन लोगों ने फैलाया है जो छायावाद और रहस्यवाद में अन्तर नहीं कर पाते। आरम्भ में छायावाद का यही दुर्भाग्य रहा। उस समय के आलोचक इसी भ्रम का पोषण करते हुए उसे कोसते रहे। यद्यपि आज यह भ्रम प्रायः निर्मूल हो गया है तो भी छायावाद के कतिपय कवि और समर्थक छायावाद के सुकुमार शरीर पर से आध्यात्मिक चित्तन का मृगचर्म उतारने को तैयार नहीं हैं। रामकुमारजी आज भी कवीर के योग की शब्दावली में अपने काव्य का व्याख्यान करते हैं। महादेवीजी की कविता के उपायक अब भी प्रकृति और पुरुष के रूपको में उलझे बिना उसका महत्व समझने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ने भी छायावाद के ऊपर सर्वात्मवाद का भारी बोझ लाद दिया है।

इसके विरोध में, जैसा मैंने अभी कहा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि छायावाद एक बौद्धिक युग की सृष्टि है। उसका जन्म साधना से—यहाँ तक कि अखण्ड आध्यात्मिक विश्वास से भी—नहीं हुआ। अतएव उसके रूपकों और प्रतीकों को यथा-तथ्य मानकर उस पर रहस्य-साधना अथवा रहस्यानुभूति का आरोप करना अनर्थ करना है, भ्रान्तियों का पोषण करना है।

दूसरी भ्रान्ति उन आलोचकों की फैलाई हुई है जो मूल-वर्तिनी विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन न कर सकने के कारण—और उन अपराधियों में मैं भी हूँ—केवल वाह्य साम्य के आधार पर छायावाद को योरप के रोमांटिक काव्य-सम्प्रदाय से अभिन्न मानकर चले हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद मूलतः रोमानी कविता है, और दोनों की परिस्थितियों में भी जागरण और कुण्डा का मिश्रण है। परन्तु फिर भी यह कैसे भूला जा सकता है कि छायावाद एक सर्वथा भिन्न देश और काल की सृष्टि है। जहाँ छायावाद के पीछे असफल सत्याग्रह था वहाँ रोमांटिक काव्य के पीछे फ्रान्स का सफल विद्रोह था, जिसमें जनता की विजयिनी सत्ता ने समस्त जागृत देशों में एक नवीन आत्म-विश्वास की लहर दौड़ा दी थी। फल-स्वरूप वहाँ के रोमानी काव्य का आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और ठोस था; उसकी दुनिया अधिक मूर्त थी, उसकी आशा और स्वप्न अधिक

छायावाद की परिभाषा

निश्चित और स्पष्ट थे, उसकी अनुभूति अधिक तीक्ष्ण थी। छायावाद की अपेक्षा वह निश्चय ही कम अन्तर्मुखी एवं वायवी था।

तीसरे भ्रम को जन्म दिया है आचार्य शुक्ल ने, जो छायावाद को शैली का एक तत्त्वमात्र मानते थे। उनका मत है कि विदेश के अभिव्यञ्जनावाद, प्रतीकवाद आदि की भाँति छायावाद शैली का एक प्रकार-मात्र है।

इस भ्रम का कारण है शुक्लजी की वस्तु-परक दृष्टि, जो वस्तु और अभिव्यञ्जना में निश्चित अन्तर मानकर चलती थी। वास्तव में उन दो-चार इने-गिने सम्प्रदायों को छोड़कर जो जानबूझ कर शैली-गत प्रयोगों को लेकर चले हैं, कोई भी काव्यधारा केवल अभिव्यञ्जना का प्रकार नहीं हो सकती। जिन अभिव्यञ्जनावाद और प्रतीकवाद का उन्होंने उल्लेख किया है वे भी शुद्ध टेकनीक के प्रयोग नहीं हैं : उनके पीछे भी एक विशिष्ट अनुकूल भाव-धारा और विचारधारा है। प्रत्येक सच्ची काव्यधारा के लिए अनुभूति की अन्तर्प्रेरणा अनिवार्य है और जहाँ अनुभूति की अन्तर्प्रेरणा है वहाँ काव्य टेकनीक-मात्र का प्रयोग कैसे हो सकता है ? छायावाद निश्चित ही शुद्ध कविता है। उसके पीछे अनुभूति की अन्तर्प्रेरणा असंदिग्ध है। उसकी अभिव्यक्ति की विशेषता भाव-पद्धति की विशिष्टता के ही कारण है।

—निष्कर्ष—

निष्कर्ष यह है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है : जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति-काव्य जीवन के प्रति एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण था और रीति-काव्य एक-दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।

इस दृष्टिकोण का आधेय नव-जीवन के स्वप्नों और कुण्ठाओं के सम्मिश्रण से बना है, प्रवृत्ति अन्तर्मुखी तथा वायवी है और अभिव्यक्ति है प्रायः प्रकृति के प्रतीकों द्वारा। विचार-पद्धति उसकी तत्त्वतः सर्वात्मवाद मानी जा सकती है। पर वहाँ से इसे सीधी प्रेरणा नहीं मिली।

यह तर्क स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व-काव्य नहीं है—कुण्ठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। प्रथम श्रेणी के काव्य की सृष्टि तो पारदर्शी कवि के द्वारा ही सम्भव

है, जिसके लिए यह जीवन और जगत् अनुभूत हों और जो सत्य को प्राप्त कर चुका हों। परन्तु यह सौभाग्य संसार में कितनों को प्राप्त है? इसके अतिरिक्त, संसार का अधिकांश काव्य कुण्ठा-जात ही तो है। उसकी तीव्रता और वैभव-विलास का जन्म प्रायः कुण्ठा से ही तो होता है।

इस सीमा को स्वीकार कर लेने के उपरान्त छायावाद को अधिक-से-अधिक गौरव दिया जा सकता है। और सच ही, जिस कविता ने एक नवीन सौन्दर्य-चेतना जगाकर एक बृहत् समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया; जिसने उसकी वस्तु-नात्र पर अटक जाने वाली दृष्टि पर धार रखकर उसको इतना नुकीला बना दिया कि हृदय के गहनतम गह्वरों में प्रवेश कर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और तरल-से-तरल भाव-वीचियों को पकड़ सके; जिसने जीवन की कुण्ठाओं को अनन्त रङ्ग वाले स्वप्नों में गुड़गुड़ा दिया, जिसने भाषा को नवीन हास्य-भाव, नवीन अश्रु-हास और नवीन विभ्रम-कटाक्ष प्रदान किये; जिसने हमारी कला का असंख्य अनमोल छाया-चित्रों से जगमग कर दिया; और अन्त में जिसने कामायनी का समृद्ध-रूपक, पल्लव और युगान्त की कला, नीरजा के अश्रु-गीले गीत, परिमल और अनामिका को अम्बर-चुम्बी उड़ान दी—उस कविता का गौरव अक्षय्य है! उसकी समृद्धि की समता हिन्दी का केवल भक्ति-काव्य ही कर सकता है।

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

प्रगति का साधारण अर्थ है आगे बढ़ना । जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगति-शील साहित्य है । इस दृष्टि से विचार करेंगे तो तुलसीदास सबसे बड़े प्रगतिशील लेखक प्रमाणित होते हैं । भारतेन्दु बाबू और द्विवेदी-युग के लेखक, मुख्यतः मैथिलीशरण गुप्त, भी प्रगतिशील लेखक हैं । परन्तु आज का प्रगतिवादी इन में से किसी को भी प्रगतिशील नहीं मानेगा—ये सभी तो उसके मतानुसार प्रतिक्रियावादी लेखक हैं । अतः प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना अवश्य है, परन्तु एक विशेष ढङ्ग से, एक विशेष दिशा में । उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है । इस परिभाषा का आधार है द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद क्या है, पहिले इसे समझ लें ।

इसमें दो शब्द हैं : भौतिकवाद और द्वन्द्वात्मक । भौतिकवाद का सार यह है कि संसार का मूलाधार पञ्चभूत है—पञ्चभूत, अर्थात् पदार्थ : मैटर । उसके सभी दृश्य, सभी सूक्ष्म-स्थूल रूप पदार्थ से ही बने हुये हैं । शरीर की परिचालिका शक्ति मस्तिष्क है और मस्तिष्क भी शरीर की अन्य इन्द्रियों की भाँति भौतिक ही है । वाह्य-जगत् को घटनाओं की हमारी इन्द्रियों पर प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप एक कम्पन होता है । शरीर का वह सूक्ष्मतम और सबसे अधिक विकसित अवयव जो इस कम्पना का अनुभव और समन्वय करता है मस्तिष्क कहलाता है । आत्मा कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है, अधिक से अधिक उसे मस्तिष्क के आगे की एक विकसित अवस्था-मात्र माना जा सकता है । अर्थात् वह भी, अगर है तो, पदार्थ की ही उद्भूति है । परन्तु यह पदार्थ क्रियाहीन या गतिहीन नहीं स्वभाव से ही गतिशील है और इसमें गति पैदा करने के लिए ब्रह्म के ईक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती; वह तो पदार्थ के अन्तर्गत वर्तमान विरोधी तत्त्वों के सतत संघर्ष का सहज परिणाम है । जिस प्रकार जगत् को उत्पन्न करने के लिए किसी आधिदैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं, इसी

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

प्रकार उसके संरक्षण और विनाश के लिए भी नहीं। क्योंकि जो पदार्थ अपनी परस्पर-विरोधी शक्तियों के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप स्वयं गतिशील है उसमें स्वस्थ रूप का उद्भव और अस्वस्थ रूप का लय आप-से-आप होता रहता है।

इसलिए विश्व में केवल एक ही सत्ता है—आधिभौतिक! आध्यात्मिक और आधिदैविक सत्ताएँ मनकी छलना-मात्र हैं। “संसार किसी ईश्वर या मनुष्य की सृष्टि नहीं, वह गतिशील पदार्थ की एक ऐसी जीवित अग्नि-शिखा है जो अंशतः ऊर्ध्व-विकास और अंशतः अधःपतन की ओर उन्मुख है।”

वस, गति की प्रेरक इन्हीं परस्पर-विरोधी शक्तियों के, जो स्वयं वस्तु में वर्तमान रहती हैं, संघर्ष या द्वन्द्व का अध्ययन करते हुए जीवन-विकास का अध्ययन करना ही द्वन्द्वात्मक प्रणाली है। और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद वह दर्शन है जो जीवन को ऐसी प्रगतिशील भौतिक वास्तविकता मानता है जिसके मूल में विरोधी शक्तियों का संघर्ष चल रहा है! इन विरोधी शक्तियों से निश्चय ही एक विनाश के पथ पर होगी, दूसरी उत्थान के पथ पर। चैतन्य मस्तिष्क का कार्य यही है कि इस तथ्य को ढूँढ निकाले और प्रगतिशील शक्तियों को सहायता दे और विनाशोन्मुख शक्तियों का, जो अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए व्यर्थ ही छुटपटा कर विकास या प्रगति में बाधा डालती हैं, बलपूर्वक नाश करे।

इस प्रकार, जगत् का एकमात्र सत्य भौतिक जीवन ही है। उसी का स्वस्थ उपभोग हमारा ध्येय है, अन्य किसी भी काल्पनिक सुख की खोज में भटकना पलायन है। और इस भौतिक जीवन की प्रमुख संस्था है समाज, जिसका आधार है अर्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में प्रगतिवादी केवल अर्थ का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। काम को वह अर्थ के आश्रित मानता है और धर्म को भी भौतिक अर्थ में जीवन की विधि-मात्र मानते हुए अर्थ के ही आश्रित मानता है। मोक्ष को आध्यात्मिक अर्थ में वह एकदम अस्वीकृत कर देता है।

आज के समाज में दो विरोधी शक्तियाँ हैं : पूँजीवाद और समाजवाद। पूँजीवाद, जिसका साम्राज्यवाद भी एक अंग है, विनाशोन्मुख है; और समाजवाद विकासोन्मुख। निदान प्रगतिवादी समाजवाद का पोषक है और

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

पूँजीवाद का शत्रु । बल्कि यों कहिये कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है । साहित्य सामाजिक कर्म-विधान का एक सक्रिय अङ्ग है । अतएव उसे समाज-व्यवस्था के संरक्षण में वाञ्छित सहयोग देना चाहिए ! हमारे समाज की जागृत शक्तियाँ वे लोग हैं जो अब तक दलित और शोषित रहे हैं । प्रगतिवादी साहित्य उनकी सहायता करता है, उनके पक्ष में आन्दोलन करता है, उनकी शक्ति को संगठित करता है, उनकी पीड़ा को मुखर करता है और उन पर होने वाले अत्याचार का तीव्र विरोध करता है । - इस प्रकार उसके अन्तर्गत मानववाद, क्रांति और विशेष परिस्थितियों में—जैसे पराधीनता में अथवा बाहर से हमला होने पर—देश-भक्ति भी आजाती है, यद्यपि इनमें से कोई भी उसका अनिवार्य तत्त्व नहीं है ।

समाजवाद से सहज सम्बन्ध होने के कारण प्रगतिवादी साहित्य को मुख्यतः सामाजिक या सामूहिक चेतना मानता है, वैयक्तिक नहीं । जिस प्रकार समाजवाद समष्टि या समूह के हितों की चिंता और रक्षा करता है, व्यक्ति के नहीं, उसी प्रकार प्रगतिशील-साहित्य समाज के सुख-दुःख की अभिव्यक्ति को ही महत्त्व देता है, व्यक्ति के सुखदुःख की अभिव्यक्ति को नहीं । अर्थात् प्रगतिशील लेखक की भावना सामाजिक भावना है, व्यक्तिगत नहीं । यह सौंदर्य को अपने हृदय या दूसरे की आँखों में देखने की अपेक्षा सामाजिक स्वास्थ्य में देखता है । अपनी ही समस्याओं और भावनाओं में उलझे रहना—व्यक्ति को समष्टि से पृथक् देखने का प्रयत्न—मिथ्या है; और साथ ही एक रुग्ण या विकृत मनोवृत्ति का परिचायक है । दूसरे शब्दों में, इस प्रकार प्रगतिशील-साहित्य का उद्देश्य अहं का सामाजीकरण है ।

इस प्रकार, दृष्टिकोण बदल जाने से आदर्श और मूल्यों का भी बदल जाना अनिवार्य है । गत युग में जो सत्य-शिव-सुन्दर था वह आज विपरीत अर्थ रखता है । अब तो हमारे मूल्यों का साप केवल एक ही है—जनहित । आज सत्य से तात्पर्य है भौतिक वास्तविकता का, शिव का अर्थ है भौतिक जीवन—सामाजिक स्वास्थ्य—में सहायक होने वाला, और सुन्दर का आशय है स्वाभाविक एवं प्रकृत । पहले प्रकृत भावनाओं का संयम, दमन और गोपन ही उनका परिष्कार और संस्कार माना जाता था, परन्तु आज इस प्रकार का दमन और गोपन अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी समझा जाता है । फ्राँयड ने दमन और गोपन का पर्दा फाड़ कर, उसको तह में छिपी हुई कुत्साओं का

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

प्रदर्शन किया है। अतएव प्रगतिवादी स्वस्थ मानव-प्रवृत्तियों को—जिन में मुख्य चुधा और काम है—प्राकृत रूप में व्यक्त करने से नहीं घबराता :

धिक्रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निश्चल चुम्बन
अङ्कित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर !
क्या गुह्य चुद्र ही बना रहेगा बुद्धिमान,
नर-नारी का यह सुन्दर स्वर्गिक आकर्षण !!

विचार के साथ अभिव्यंजना भी बढ़ती। सबसे पहिले तो कला का दृष्टिकोण ही बदल गया—

“ललित कला कुत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण।”

अब तक काव्य के आलम्बनों में जिस प्रकार प्राकृत, कुत्सित एवं लघु का तिरस्कार और सुन्दर, मनोरम एवं महत् का ही ग्रहण होता था, इसी प्रकार अभिव्यक्ति के उपकरणों में भी। प्रगतिवाद ने कहा कि यह अन्तर काल्पनिक हैं। जीवन में सब-कुछ केवल सूक्ष्म, सुगढ़ और कोमल हो नहीं है; उसमें स्थूल, दृढ़ और अनगढ़ भी है और जो शाश्वत अधिक उपयोगी है। स्वस्थ जीवन-दर्शन वही है जो उसकी वास्तविकता को स्वीकार करे—जीवन को उसके सम्पूर्ण रूप में ग्रहण करे। रूप-मोह या मानसिक विलास में पड़ कर जीवन के उन स्वस्थ उपादानों का, जिनका वाह्य प्राकृत और अनगढ़ है, तिरस्कार करना क्षत्री मस्तिष्क का काम है।

इसलिए प्रगतिवादी ने अपनी अभिव्यक्ति के उपकरण आग्रहपूर्वक साधारण-स्वस्थ जन-जीवन से ग्रहण करना आरम्भ किया। वह अपने काव्य-चित्रों का आधार नित्य-प्रति के व्यवहार को बनाता है। उसकी अलंकरण-सामग्री सूक्ष्म, कोमल या चुनी हुई नहीं है, वह स्थूल और प्राकृत है। एक शब्द में, उसकी कला विलास, रूप-रङ्ग, और रोमांच से प्रेम नहीं करती। इसी तरह प्रगतिवाद की शब्द-योजना में भी प्रकृत जन-जीवन का अनगढ़पन मिलता है, रीति-काल की पालिश और छायावाद की अमूर्त मधुचर्या नहीं। अतएव प्रगतिवादी अभिव्यक्ति खरी, खड़ी और तीखी होती है—क्योंकि वह मुख्यतः भावात्मक न हो कर आलोचनात्मक है।

संशय यह है कि प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम है, जिसके मूलतत्त्व ये हैं :—

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद—केवल आर्थिक विधान की मान्यता, ईश्वर और आत्मा की सत्ता की अस्वीकृति ।

समाजवाद (जिसके मूल में मानववाद भी अन्तर्निहित है) समाजवाद का समर्थन; पूँजीवाद और उससे सम्बद्ध राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और साहित्यिक रुढ़ियों के विरुद्ध क्रान्ति ।

राष्ट्रीय-भावना—यह केवल भारत-जैसे पराधीन देश से—अथवा चाहे आक्रमण होने पर अन्य देशों में भी—अधिक सुव्यक्त होती है । वैसे समाजवाद की तरह प्रगतिवाद का भी यह अनिवार्य तत्व नहीं है ।

प्रगतिवाद को प्रभावित करने वाली शक्ति मुख्यतः कार्ल मार्क्स है, और किन्हीं अंशों में डार्विन और फ्रायड भी । और, इसकी अभिव्यक्ति भावात्मक की अपेक्षा बौद्धिक अर्थात् आलोचनात्मक अधिक है ।

यह हुआ प्रगतिवाद का तात्विक विश्लेषण । परन्तु इसके ये सभी सिद्धान्त निर्विवाद स्वीकार नहीं किये जा सकते—उन पर कुछ मूलगत आक्षेप सरलता से हाँ सकते हैं ।

पहला आक्षेप तो यही है कि प्रगतिवादी जीवन-दर्शन संकुचित है : जीवन की केवल आर्थिक व्याख्या संगत नहीं । इस विषय में सीधी युक्तियों की अपेक्षा एक निषेधात्मक युक्ति अधिक सफल होगी । मार्क्स-वादिनों ने मानव इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है वह अधूरी और अनेक स्थानों पर असंगत एवं अविश्वसनीय है । उदाहरण में कॉडवेल की 'इल्यूज़न ऐन्ड रियैलिटी' पुस्तक के उस सुन्दर एवं महत्वपूर्ण परिच्छेद की ओर संकेत किया जा सकता है जिसमें वे अंग्रेज़ी-साहित्य के इतिहास का विवेचन करते हुए केवल उन्हीं मोटी-मोटी बातों को ले सके हैं जो उनका प्रयोजन सिद्ध करती हैं । अंग्रेज़ी-साहित्य की अनेक सूक्ष्म और उलझी हुई प्रवृत्तियों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है । मेरी अपनी बौद्धिक सीमाएँ हो सकती हैं, परन्तु मुझे यह सचमुच हास्यास्पद लगता है कि जहाँ फ्रायड-जैसे अतलदर्शी मनोवैज्ञानिक मानव-मन की परीक्षा करते हुए अन्त में नेति-नेति कह देते हैं वहाँ मार्क्स का साधारण अनुयायी भी सिर्फ पैदावार की बातचीत करता हुआ उसके अन्तिम सत्यों तक

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

सूट से पहुँच जाता है। यह विश्वास और उत्साह स्तुन्य होने पर भी बुद्धि-संगत नहीं है।

दूसरा आरोप यह है कि साहित्य अपने मूलरूप में सामाजिक या सामूहिक चेतना नहीं, वह तो वैयक्तिक चेतना ही हो सकती है। मनुष्य पहले व्यक्ति है पीछे समाज की इकाई; और उसका पहला रूप ही मौलिक रूप है। अतएव साहित्य अपने वास्तविक रूप में जीवन के प्रति व्यक्ति की अथवा अनात्म के प्रति आत्म की प्रतिक्रिया ही है, अर्थात् साहित्य वस्तुतः आत्माभिव्यक्ति है। हमारे आत्म या व्यक्तित्व की दो प्रवृत्तियाँ हैं : अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी। अन्तर्मुखी प्रवृत्ति बहिरंग को अपने अन्दर खींचती हुई गहरी अथवा घनीभूत होती रहती है; बहिर्मुखी वृत्ति अन्तरङ्ग का बाहर प्रसार करती हुई व्यापक होती रहती है। मनुष्य में संस्कार और परिस्थिति-वश इनमें से एक का प्राधान्य हो जाता है। साहित्य की सृजन-प्रक्रिया से स्पष्ट है कि वह जीवन की भावगत व्याख्या है। वह जीवन की अन्तर्मुखी साधना है। अतः स्वभाव से ही साहित्यकार में अन्तर्मुखी वृत्ति का ही प्राधान्य होता है। वह जितना महान् होगा उसका अहं उतना ही तीखा और बलिष्ठ होगा जिसका पूर्णतः सामाजिककरण असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा। संसार में ऐसा महान् साहित्यकार विरला ही होगा जिसने किमी अपरागत उद्देश्य से पूर्णतया तादात्म्य स्थापित कर लिया हो। गोकर्णी, इकबाल, मिल्टन आदि के व्यक्तित्व का विश्लेषण असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर देगा कि उनके भी साहित्य में जो महान् है वह उनके दुर्दमनीय अहं का ही विस्फोट है, साम्यवाद, इस्लाम या प्यूरिटन मत की अभिव्यक्ति नहीं। महान् साहित्य असाधारण प्रतिभा के असाधारण क्षणों की सृष्टि है। और यह असाधारण प्रतिभा समाज या समूह से, जिसका कि अधिकांश साधारण प्रतिभा और शक्ति वाले लोगों से बना हुआ है, सहानुभूति रखती हुई भी—और यह भी सर्वथा अनिवार्य नहीं—अपनी चेतना को उसमें लय नहीं कर सकती। उसकी अपनी चेतना समाज से बहुत कुछ ग्रहण करती हुई भी सृजन के अर्ध-चेतन क्षणों में बनस्पति से ढकी हुई चिनगारी की तरह प्रज्वलित हो उठेगी।

वास्तव में अपने मूल रूप में जीवन का एक दृष्टिकोण होते हुए भी व्यावहारिक रूप में प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचार-धारा का ही उच्चार है

जो बलपूर्वक साहित्य द्वारा अपनी प्रत्यक्षाभिव्यक्ति चाहता है। इसलिए उसमें प्रायः वही सामयिक उन्साह और प्रचार-भावना मिलती है जो साम्प्रदायिक लोगों में सर्वत्र पायी जाती है। अतः जहाँ तक ये लोग अपनी बात कहते हैं हम उसे आवश्यक काट-छांट के बाद आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु जब अपनी उस अन्तिम मार्क्सवादी कमौटी पर ये लोग अपर साहित्य को कसते हैं तो इनके परिणाम सर्वथा भ्रमक और अन्यायपूर्ण होते हैं। मार्क्सवाद एक नवीन और काफ़ी स्वस्थ जीवन-दर्शन है : साहित्य पर उसके द्वारा नवीन प्रकाश पड़ रहा है। परन्तु उसकी उपादेयता व्याख्या तक ही सीमित है : उसके द्वारा किया हुआ मूल्यांकन एकांगी होता है। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति प्रगतिवाद के मूल्यों से ही है : वह साहित्य और पैदावार का सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे रोटी-पानी या जीवन के दूसरे सामयिक प्रश्नों को हल करने का सीधा साधन मानकर बहुत ही सस्ता बना देता है।

आदिकाल से ही मानव-मन अनेक जीवन-दर्शनों का आविष्कार करता रहा है। परन्तु उसके सभी प्रयत्नों का ध्येय रहा है केवल आनन्द की प्राप्ति। साहित्य भी आनन्द-प्राप्ति का एक प्रयत्न है, किन्तु यह प्रयत्न स्थूल और प्रत्यक्ष नहीं है। सुख के लिये किये हुए मानव प्रयत्नों में साहित्य अत्यन्त सूक्ष्म परिष्कृत और मधुर प्रयत्न है—आध्यात्मिक चिन्तन इससे भी सूक्ष्म है, पर वह इतना मधुर नहीं। साहित्य की साधना और सिद्धि दोनों में ही आनन्द है। अतएव आनन्द को छोड़ और कोई कलौटी मानना हमारी समझ में नहीं आता। जीवन के मूल्य चिरन्तन ही मानने पड़ेंगे। क्योंकि जीवन चिरन्तन है, जीवन की मौलिक वृत्तियाँ चिरन्तन हैं—कम-से-कम मानव-सृष्टि के प्रारम्भ से अब तक तो चिरन्तन ही चली आयी है।

चिरन्तन शब्द का कोई काव्यमय अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। चिरन्तनता अन्त में जाकर एक सापेक्षिक गुण सिद्ध होता है जिससे स्थायित्व का चरम आधिक्य और परिवर्तन-शीलता की चरम न्यूनता का ही अभिप्राय है। आज भी हमें वाल्मीकि और होमर की कविताएँ अनेक सामयिक कविताओं से कहीं अधिक आनन्द देती हैं, उनकी प्राणवत्ता अब भी ज्यों-की-त्यों है। इसका कारण यही है कि मानव-मन में कुछ ऐसे गुण हैं जो देश-काल के परिवर्तनों के बीच भी बने रहते हैं। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये गुण और कुछ नहीं मानव-जीवन की मूल वृत्तियाँ ही हैं। देश-काल का प्रभाव

इन पर इतना ही पड़ता है कि किराँ विशेष परिस्थिति में कोई विशेष मनोवृत्ति बलपूर्वक एक विशेष रूप में अपने-आपको अभिव्यक्त करे। स्वयं समाजवाद का मूल उस आदिम मानववृत्ति प्रेम में मिल जाता है। आज जो हम सबको अथवा उन व्यक्तियों को भी जो रपट्ट रूप से पूँजीवादी हैं सुन्दर प्रगतिशील कविता प्रिय लगती है, इसका एकमात्र कारण यही है कि घोर-से-घोर पूँजीवादी और उनसे ही कट्टर समाजवादी दोनों के अन्तरतम में कुछ तार ऐसे हैं जो एक सामान्य अनुभूति से संकृत होकर वाह्य भेदों की अवहेलना करते हुए बरबस मिल जाते हैं। यह सामान्य अनुभूति है मानववाद जिसका दार्शनिक नामकरण चाहे कभी हुआ हो पर जो अपने मूल रूप में प्रेम का एक प्रस्फुटन होने के कारण अनादि काल से चला आ रहा है। हमसे अधिकारी के हृदय को समाजवाद का विज्ञान स्पर्श नहीं करता—उसकी मूलवृत्तिनी मानव-कल्याण या पारस्परिक सहानुभूति की भावना ही स्पर्श करती है।

सारांश यह है कि साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी जो अब तक चली आयी है वही ठीक है—अर्थात् आनन्द ! साहित्य की सृजन-क्रिया स्वयं साहित्यकार को आनन्द देती है और उसके व्यक्त रूप का ग्रहण पाठक या श्रोता को आनन्द देता है। हमें जो साहित्य जितना ही गहरा और स्थायी आनन्द दे सकेगा उतना ही वह महान् होगा, चाहे उसमें किसी सिद्धांत का—समाजवाद, गांधी-वाद, मानववाद, पूँजीवाद, किसी भी वाद का—समर्थन हो या विरोध।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि पूँजीवाद की जो प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः मानव-हित में वातक हैं उनका समर्थन कैसे श्रेयस्कर हो सकता है। पर इसका उत्तर सरल है। पहले तो यह अनुचित समर्थन मानव-मन को आनन्द देने में ही असमर्थ होगा; और यदि समर्थ होगा भी तो लेखक की अनुभूति की तीव्रता और आत्माभिव्यक्ति की निष्कपटता के कारण ही। आप कह सकते हैं कि वह शकत रास्ते पर है, लेकिन उसकी ईमानदारी और ताकत की दाद आपको देनी ही होगी। इसी उलझन को सुलझाने के लिए तो पुराने आचार्य ने रसानुभूति को अलौकिक कहा है। वह बेचारा यही कहना चाहता था कि इस प्रकार के लोक-प्रचलित अस्थायी वादों के द्वारा साहित्य का रस अशुद्ध हो जाता है। काव्य रसात्मक है—सदैव रहा है और आशा यही है कि रहेगा भी। जिसमें

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

रस नहीं है वह अपने उच्च मिष्टान्तों या किसी भी अन्य कारण से काव्य से भी ऊँची कोई वस्तु हो जाय पर काव्य नहीं हो सकता ।

अतएव, जहाँ तक व्याख्या का सम्बन्ध है, मार्क्सवाद ने हमें एक नया मार्ग दिखाया है और उसके लिए हम कृतज्ञ हैं । परन्तु एक तो यह मार्ग अंतिम : एकमात्र मार्ग नहीं है—फ्रायड आदि द्वारा प्रदर्शित अन्य मार्ग कम उपयोगी नहीं । दूसरे, यह एक परीक्षण-विधि मात्र है, मूल्यांकन की कसौटी नहीं । इस नयी विधि का प्रयोग हमें रस-परीक्षण के ही लिए, इसकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए करना चाहिए । साहित्य के क्षेत्र में तो शुद्ध मनोविज्ञान और सौन्दर्य-शास्त्र का ही, जो मनोविज्ञान का ही एक अंग है, अधिक विश्वास करना उचित होगा ।

एक और आक्षेप जो प्रगतिवाद के मूल सिद्धांतों पर किया जा सकता है यह है कि इसका दृष्टिकोण मूलतः वैज्ञानिक ज्ञान के कारण बौद्धिक एवं आलोचनात्मक है । अतएव स्वभाव में ही उसमें वह तन्मयता या आत्म-विसर्जन नहीं है जो काव्य के लिये अनिवार्य है । अस्तु ।

हिन्दी में प्रगतिवाद का आदि-ग्रंथ गोदान है । परन्तु गांधी जी में आस्था रखने वाले प्रेमचन्द्र को शुद्ध प्रगतिवादी शायद न माना जा सके । वे मानववाद के आगे नहीं जा सके । प्रगतिवाद की रूप-रेखा पिछले दो-तीन वर्षों से ही बनना आरम्भ हुई है । यह एक विचित्र संयोग है कि हिन्दी में प्रगतिवाद का भी सबसे पहला लेखक—जिसने उसे गौरव दिया—वही व्यक्ति है जो छायावाद का भी एक प्रमुख प्रवर्तक था । मेरा आशय कवि पंत से है ।

इस वर्ग के कवि-लेखकों में केवल एक ही प्रवृत्ति सर्व-सामान्य है—क्रांति । शुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण तो शायद पन्त* और नये कवियों में नरेन्द्र ही ने ग्रहण किया है । और सच तो पन्त और नरेन्द्र में भी यह बुद्धि की प्रेरणा है, संस्कार अभी उनके भी पीछे को ही दौड़ रहे हैं । शेष कवि-लेखक तो अंशतः ही प्रगतिशील हैं ।

* परन्तु अब इन दोनों को भी प्रगतिवादी पार्टी की चीफ़ लिपि डाक्टर रामविलास शर्मा ने पार्टी से निकाल दिया है । —लेखक

चौकने की बात नहीं; पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिन्दी में शुद्ध प्रगतिशील रचनाएँ तो मिल जायँगी, परन्तु इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सर्वथा ग्रहण कर लेने वाला पूर्णतः प्रगतिशील कवि या लेखक अभी सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा कहना, 'हिन्दी के प्रगतिशील साहित्य का तिरस्कार करना नहीं है। एक तो उसका इतिहास ही दो तीन वर्षों में सिमटा हुआ है। दूसरे अन्य देशों में भी, शायद रूस को छोड़कर, आलोचना ही अधिक है सृजन कम। हिन्दी में भी स्वभावतः आलोचना ही अधिक है। और इसके कई कारण हैं :

१. हिन्दी-कवियों का दृष्टिकोण अभी वैज्ञानिक अर्थात् भौतिक एवं बौद्धिक नहीं बन पाया। अभी वह अधिकांश में भाव-प्रधान है। आत्मा का मोह भी ये कवि नहीं छोड़ पाये हैं। इसलिए हिन्दी-साहित्य में मानववाद या क्रान्ति ही मुख्य है, वैज्ञानिक समाजवाद या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बहुत कम।

२. हिन्दी में अभी सामाजिक चेतना इतनी प्रबल नहीं हुई है कि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया उममें लय हो जायँ। अभी अधिकांश कवियों में वैयक्तिक गीति-तत्त्व की प्रचुरता है।

३. हिन्दी ने जिन प्रवृत्तियों ने छायावाद का जन्म दिया उनको पूरी तरह अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिल पाया। कुछ तो एक साथ बढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति और कुछ प्राँपैगैण्डा के परिणाम-स्वरूप वे प्रवृत्तियाँ एक साथ समय से पहले ही दब गयीं। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। कामायनी, तुलसीदास और अनामिका—उधर युग-चाणी के रचना-काल में कोई विशेष अन्तर नहीं है ! आज के अधिकांश प्रगतिवादी कल के छायावादी हैं—अतएव स्वाभाविक है कि इनकी ओर से पूरी-पूरी कोशिश होने पर भी वह क्षी रोमांस (?) बार-बार उभर आता है। अब भी ये प्रायः वहीं उसे मधु-माधव के उपवन में पलायन कर जाते हैं। दिनकर की रसवंती, अंचल की मधुलिका और अपराजिता, नरेन्द्र और स्वयं पन्त की अनेक कविताएँ मेरे कथन की पुष्टि करेंगी।

४. हिन्दी के अधिकांश प्रगतिशील लेखक उस जीवन से दूर हैं जो उनकी प्रेरणा का मूल-स्रोत है। उनके सिद्धान्त पढ़ का और मनन कर प्राप्त किये हुए हैं, मह कर और भोग कर नहीं। केवल बौद्धिक सहानुभूति के बल पर शोधितों की पीड़ा को मुखर करने वाले या हज़ारों मील दूर पर लडने वाली

प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

लाल सेना के अभियान गीत लिखने वाले इन लेखकों की रचनाएँ स्वभावतः ही प्राणवान् कैसे हो सकती हैं ?

अभी भारतीय-जीवन में गाँधीवाद और समाजवाद का संघर्ष चल रहा है। गाँधीवाद का भारत के संस्कारी हृदय पर गहरा प्रभाव है। पर यह भी निश्चित है कि उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। निदान संक्रान्ति के इस युग में अनमिल तत्वों का सम्मिश्रण जीवन की भाँति कविता में भी सहज सम्भव है। पर यह न मानना कृतघ्नता होगी कि भारतीय जीवन में समाजवाद की तरह हिन्दी में प्रगतिवाद भी एक जीवित शक्ति है। उसमें उत्साह और चैतन्यता है। आज भारत में प्रगतिवाद का भविष्य समाजवाद के भविष्य के साथ बँधा हुआ है—लेकिन फिर भी आधुनिक साहित्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसकी गतिविधि का निरीक्षण करना होगा।

यौवन के द्वार पर

अभी थोड़े दिनों की बात है, साहित्य-सन्देश में हिन्दी के प्रौढ समा-लोचक श्री पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का एक लेख छपा था जिसमें वर्तमान हिन्दी-साहित्य के गति-रोध पर लोभ प्रकट किया गया था। इसी अङ्क में एक जोरदार लेख प्रोफ़ेसर प्रकाशचन्द्र गुप्त का भी था जिसका आशय भी क़रीब-क़रीब यही था। इन लेखों से हिन्दी-संसार में एक खलबली-सी मच गई। हिन्दी के रिटायर्ड महारथियों को भी चिन्ता हुई। उधर रायबहादुर डॉक्टर श्यामसुन्दरदास और मिश्रबन्धु महोदयों ने पत्र-व्यवहार हुआ, इधर नागरी-प्रचारिणी सभा और साहित्य-सम्मेलन भी इस गतिरोध को भङ्ग करने के लिए कटिबद्ध हुए।

परिणाम-स्वरूप डॉक्टर श्यामबिहारी मिश्र की अध्यक्षता में काशी में एक सभा बुलाई गयी जिसमें हिन्दी के लगभग सभी नए-पुराने कलाकार उपस्थित थे। बहुत कुछ वाद-विवाद के उपरान्त यह निश्चित हुआ कि वर्तमान हिन्दी-साहित्य की गतिविधि की जाँच की जाय और सबसे पहिले कविता से श्रीगणेश हो। इस कार्य के लिए एक उपसमिति बनाई गयी जिसमें सर्वश्री पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, कृष्णबिहारी मिश्र और गुलाबराय के नाम सर्व-सम्मति से चुने गए। परन्तु एक नए लेखक ने आक्षेप किया कि उपर्युक्त तीनों ही सज्जन नवीन साहित्य से पूर्ण परिचित नहीं हैं, अतएव कम-से-कम एक नवीन आलोचक भी लिया जाय जो मैटीरियलिस्टिक इन्टर-प्रेटेशन ऑफ हिस्ट्री करना जानता हो, साइको-ऐनैलिसिस से परिचित हो, एंगो और इड की सीमा-रेखाओं का समझता हो। इस पर वहाँ उपस्थित अनेक वयोवृद्ध लेखक आगववूला हो गए—इन कल के लौंडों ने अन्धेर मचा रखा है, एक तो हिन्दी-साहित्य की यह दशा कर दी और फिर दूसरों पर विश्वास नहीं करते; हमारे साहित्य से श्रद्धा तो बिल्कुल उठ गई है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को शान्त किया गया।

यौवन के द्वार पर

यह प्रस्ताव वही-का-वहीं गूँ हो जाता। परन्तु जब श्रीकृष्णविहारी मिश्र ने स्वयं विनय-पूर्वक स्वीकार किया कि आक्षेप बहुत अनुचित नहीं उसमें बहुत-कुछ सत्य है, तो एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। फिर एक बहस शुरू हो गई। पक्ष में बोलने वालों में सर्व श्री रामबहोरी शुक्ल, ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल, ललिताप्रसाद सुकुल आदि थे; विपक्ष में श्री किशोरीदास वाजपेयी, हितैषीजी और पं० भागीरथप्रसाद दीक्षित के जोरदार भाषण हुए। अन्त में पं० श्रीराम शर्मा खड़े हुए : मैं न पक्ष में हूँ न विपक्ष में, लेकिन चीज़ यह है..... इतने ही में थार-लोग चिल्ला उठे : यदि ऐसा है तो बैठ जाइए, बैठ जाइए !.....

आखिर तब यह हुआ कि निर्णायक तो उपयुक्त तीनों सज्जन ही रहेंगे, परन्तु जिन कवियों की कविता के विषय में निर्णय होना है उनको यह अधिकार होगा कि वे अपने साथ एक नवीन आलोचक भी ले आवें।

अब तब एक प्रश्न शेष था : कौन-कौन नवीन कवियों को लिया जाया। और यह प्रश्न सचमुच भयङ्कर था। खुले अधिवेशन में तो खून-खराबे की गुञ्जाइश थी, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने बुद्धिमानी से इसे निर्णायकों पर ही छोड़ दिया। निर्णायकों ने कुछ नये आलोचकों की सरमति लेकर दिनकर, अञ्जल और नरेन्द्र ये तीन नाम चुनकर सभापति महोदय को घोषणा के लिए दे दिये। इसबार जीवन-साहित्य के सुधीन्द्रजी उठ खड़े हुए और बोले : मुझे इस पर एक आक्षेप है। ये तीनों सज्जन समाजवादी हैं, इनमें गाँधीवाद का प्रतिनिधि नहीं है। अतएव मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दी के प्रसिद्ध गाँधीवादी राष्ट्र-कवि श्रीमोहनलाल द्विवेदी को अवश्य सम्मिलित किया जाय। ऐसा न करना अनुचित, त्याज्य और वृणित होगा। सुधीन्द्रजी की इस युक्ति पर डॉक्टर मिश्र चौक पड़े—वर्गीकरण तो उन्होंने भी किया है, लेकिन यह नया वर्गीकरण गाँधीवादी और समाजवादी क्या बदतमीज़ी है ! और आप सच मानिए कि वे चिढ़ कर फौरन् ही इस प्रस्ताव को रूल-आउट कर देंगे, पर जब स्वयं रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी ने काव्य-गुण के आधार पर द्विवेदीजी की सिफारिश की तो मिश्रजी शान्त हो गये।

इस प्रकार चार कवि चुने गए—दिनकर, नरेन्द्र, अञ्जल और

यौवन के द्वार पर

सोहनलाल द्विवेदी—और उनसे कहा गया कि वे स्वयं अपना व्याख्याता चुनकर तीनों निर्णायकों से अभी मिल लें जिससे भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित हो जाय ।

दिनकर ने इधर-उधर आँखें दौड़ाईं तो उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया जिसने उनके काव्य का निकट से अध्ययन किया हो—बेनीपुरीजी तो जेल में थे ! आखिर उन्होंने स्वयं ही अपनी पैरवी करने का इरादा किया । इस पर कुछ लोगो को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि 'कस्मै-दैवाय' के इस लेखक ने पं० बनारसीदास चतुर्वेदी-जैसे अभिभावक को—जिन्होंने रेणुका को हिन्दी कविता के मूर्धन्य पर आसीन करने के लिए भगीरथ प्रयत्न तो नहीं (क्योंकि वह तो सफल हो गया था) परन्तु गाँधी-प्रयत्न अवश्य किया था—क्यों नहीं साथ लिया । पर दिनकर की दृष्टि मानो कह रही थी कि अब मैं ज्यादा समझदार हो गया हूँ ।

नरेन्द्र उठे और चुपके से श्रीप्रकाशचन्द्रगुप्त के पास जाकर खड़े हो-गये, जैसे कुछ कहने - सुनने की ज़रूरत ही न हो—इन दोनों लघु-लघु गात व्यक्तियों का आलोचक-अलोच्य सम्बन्ध सनातन-काल से ही चला आया हो ।

अञ्जल ने सविनय दृष्टि से पं० नन्ददुलारे वाजपेयी की ओर देखा तो उनकी त्योरियाँ चढ़ गईं, बोले : मुझे तुम्हारे लिए जो करना था कर दिया—अपराजिता की भूमिका लिखकर तुम्हें हिन्दी के प्रमुख कवियों में प्रतिष्ठित कर-दिया । अब इस काम के लिए किसी छोटे-मोटे आदमी को टटोलो । लाचार होकर अञ्जल को श्री कान्तिचन्द्र सौनरिक्सा से ही, जो गहरी सुख्ख टाई लगाए हुए उनके साथ-साथ काकी फुर्ती से इधर-उधर घूम रहे थे, संतोष करना पड़ा ।

सोहनलाल द्विवेदी के मनमें इस समय विचित्र संघर्ष चल रहा था । उनको अपनं योग्य कोई आलोचक ही नज़र न आता था । वे बार-बार सोचते थे किसको साथ ले चलूँ ? महामहिम महामना महर्षि मालवीयजी का ? परन्तु वे तो कहीं आते-जाते नहीं । पं० जवाहरलालजी को ? लेकिन वे तो सुनते हैं रुज़वेल्ट से मिलने की तैयारी कर रहे हैं । आचार्य शुक्लजी वक्त पर ही मर गये । रायबहादुर श्यामसुन्दरदास ने साहित्यिक संन्यास-सा लेलिया है । पन्तजी ? बड़े सङ्कोची हैं, शायद तैयार न हों ! लेकिन होंगे क्यों नहीं, मैंने भी तो उन पर एक कविता लिखी है । हरभाऊजी का साहित्यिक महत्व लोग नहीं मानेंगे ।

यौवन के द्वार पर

इसी उधेड़-बुन में देर होगई । शेष पाँचों वृज्जन प्रस्तुत थे । निदास सभापति महोदय को कहना पडा : द्विवेदीजी आपने अपना साथी नहीं चुना, जल्दी कीजिए । द्विवेदीजी उत्तर भी न दे पाये थे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अत्यन्त विनयपूर्वक अपनी सेवाएँ अर्पित कीं । बेचारे रावराजा को क्या मालूम था ? सरल-स्वभाव से बोल उठे : हाँ-हाँ, सोहनलालजी ठीक है । शर्माजी से अच्छा नई कविता का पारखी और कौन मिलेगा ? वैसे भी पहलवान जँचते हैं । राम राखे, शाब्दिक हाथापाई से भी नहीं घबरायेंगे ! वस फिर क्या था ! द्विवेदीजी का स्वाभिमानी चेहरा लाल हो गया । बोले : आप वयोवृद्ध हाँकर मजाक करते हैं । मैं राम-कवि हूँ, राम की एकमात्र चिन्ताधारा का प्रतीक । मेरा घोर अपमान किया गया है । और इतना कहकर श्री सोहनलाल द्विवेदी सुधीन्द्रजी को वही छोड़ सभा से उठकर चले गए ।

रावराजा अजब उलझन में थे, बेचारे बुड्ढे आदमी खिसियाने-से रह गए । लेकिन बखशीजी ने खड़े होकर कहा कि अब बहुत देर हो गई है; जो नहीं सम्मिलित होता उसे छोड़ दीजिए । विवशता है ।

(२)

एक सप्ताह बाद !

साप्ताहिक भारत और देशदूत में निर्यायिक उपसमिति का विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसकी अथार्थ प्रतिलिपि हम पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ दे रहे हैं ।

“दिनकर, अबल और नरेन्द्र की कविताओं का अध्ययन करने के उपरान्त एक बात असंदिग्ध रूप से हमारे सामने आती है कि इन तीनों के काव्य-विषय मुख्यतः रति और उत्साह हैं । अथवा आज की शब्दावली में इनके काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ हैं : सेक्स और क्रांति । क्रांति : सामाजिक और राजनीतिक दोनों ।

रति और उत्साह, जिसमें ध्वंसमूलक क्रांति और रचनात्मक निर्माण-कार्य दोनों ही आ जाते हैं, यौवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं; और इन दोनों के संतुलि उपयोग एवं उपभोग में ही उसकी स्वस्थता है । इनमें पहली प्रवृत्ति प्रधानतः अन्तर्मुखी और दूसरी बहिर्मुखी है । पहली का सम्बन्ध

यौवन के द्वार पर

व्यक्तिगत जीवन और दूसरी का सामाजिक दायित्व से है। दायित्व शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि ये तीनों ही कवि उसके प्रति अत्यन्त सचेत हैं—इतने अधिक कि अपनी पहली प्रवृत्ति के लिए तीनों को ही कुछ-न-कुछ सफाई देनी पड़ी है।

१. नरेन्द्र—“प्रवासी के गीत एक क्षय-ग्रस्त युवक कवि के गीत हैं।”

२. अञ्जल—“जहाँ मैं बहक गया हूँ वहाँ मेरी दुर्बलता है, जीवन के क्षयी रोमान्स के प्रति अवाञ्छनीय आसक्ति है।”

३. दिनकर—“रेणुका और हुंकार के विपरीत रसवन्ती की रचना निरुद्देश्य प्रसन्नता से हुई है और इसमें किसी निश्चित संदेश का अभाव-सा है। इन गीतों में मैं अपने हाथ से छूट-सा गया हूँ और प्रायः अकर्मण्य-आलसी की भाँति उस प्रगल्भ अप्सरी के पीछे-पीछे भटका फिरा हूँ जिसे कल्पना कहते हैं। इस अलम्भ भ्रमण में कुछ मेरे हाथ भी लगा या नहीं, यह तो याद नहीं; हाँ, यात्रा सुखद रही।”

नरेन्द्र और अञ्जल ने अपनी रति भावनाओं को क्षय-ग्रस्त युवक के गीत और क्षयी रोमान्स कहा है। पर वास्तव में यह रोमान्स ही इन दोनों के स्वभाव का धर्म है जिसे उन्होंने खिलवाड़ करके विकृत कर लिया है। ये दोनों ही कवि सचमुच अपने-अपने ढंग के ‘न्यूरोसिस’ के केस हैं। न्यूरोसिस शब्द पर चौंकने की आवश्यकता नहीं। यह एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है साधारण मानसिक स्वास्थ्य से च्युति। और आज हम में से ६० प्रति-शत नवयुवक इसके शिकार हैं।

नरेन्द्र का नारी के प्रति दृष्टिकोण मूलतः छायावादी है। उनकी भावना सौम्य से आगे नहीं बढ़ सकी, उन्होंने दूर से ही नारी को मुग्धभाव से देखा है। स्पष्ट शब्दों में, उनकी सेक्स-चेतना ने नारी की ओर बढ़ने : उसका निकट-अनुभव प्राप्त करने के स्थान पर कवि के भीतर ही प्रतिवर्तन किया है, वह कवि के मन में ही घुमड़ती रही है। अतएव उनकी शृङ्गार-कविता उनके संयोग-वियोग के गीत सभी सफल-विफल दिवा-स्वप्नों के ही मधुर चित्र है। हिन्दी का छायावाद अनेक प्रकार की सामाजिक कुण्ठाओं की सृष्टि है जिसमें मुख्यतम है कुण्ठित शृङ्गार-भावना। नरेन्द्र की रसाभिव्यक्तियों में इसी कुण्ठा का नग्नतम रूप मिलता है। इस कुण्ठा के लिए उनका अपना

यौवन के द्वार पर

संकोची स्वभाव, जिसमें नारीत्व का भी पर्याप्त अंश विद्यमान है, और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। यह कुण्डा जितनी ही त्रिंशताजन्य यानी व्यक्ति के प्रतिकूल होगी उतनी ही अधिक मन में घुमड़न पैदा करेगी और फिर यह घुमड़न उतने ही अधिक दिवा-स्वप्नों की सृष्टि करेगी। शूल-फूल और प्रवासी के गीत दोनों में तो स्पष्टतः स्वीकृत रूप में छायावादी प्रेरणा है।

छायावाद में काम-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं की दो सीमाएँ हैं : पंत और प्रसाद। पंत का दृष्टिकोण शुद्ध मानसिक है। उनका अन्तर्मुखी एवं अत्यन्त सूक्ष्मता-प्रिय स्वभाव किशोर-सुलभ सौम्य से आगे नहीं जा सका। नारी के प्रति उनका भाव काम, विस्मय और श्रद्धा का एक त्रिचित्र अशरीरी मिश्रण है। इसके विपरीत प्रसाद की प्रतिक्रिया में स्वस्थ शरीर की वाञ्छित उष्णता है और इसीलिए उनके शृङ्गार-चित्रों में रूप-यौवन की स्वरथ गन्ध है। नरेन्द्र में न तो पंत की अत्यन्त परिष्कृति-प्रिय रुचि का संयम है और न प्रसाद के दृष्टिकोण का स्वास्थ्य। पंत ने अपने और नारी के बीच सदैव जो एक आदर-पूर्ण अन्तर बनाए रखा है वह नरेन्द्र में नहीं है। उनके विरह-चित्रों के पीछे जो कोई नारी-पात्र भाँकता हुआ मिलता है वह शायद उनके काफी पास आकर उनकी वासनाओं को उत्तेजित कर पृथक् हो गया है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए उनके चित्र काम-स्नात होते हुए भी पूर्ण स्वरथ पक्ष की उद्भूति नहीं हैं, उनमें नारी अंगों के प्रति इतना अधिक जालच है कि उसको सर्वथा स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। आज नरेन्द्र का दृष्टिकोण बदल गया है। वे क्रियात्मक रूप में प्रगतिवादी हैं और उनकी ईमानदारी में शुभा करने की कोई सुझाव नहीं। अपने द्वारा लये दृष्टिकोण के लिए उन्होंने सहर्ष एक बड़ा मूल्य भी दिया है। और यह भी ठीक ही है कि उन्होंने काफी सचाई से अपने सौन्दर्य-रसिक हृदय को समाजवादी साँचे में ढालने का प्रयत्न किया है। परन्तु स्वभाव की मूल-वृत्तियाँ सरलता से नहीं बदल सकती। जितना ही नरेन्द्र अपने व्यक्तिगत सुख-दुख को क्षयप्रस्त मनोविकार समझकर उसे सामाजिक हित में अंतर्भूत करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही शायद उनका न्यूरोसिस बढ़ता जाता है।

अभी उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई है—शीराज्ञी। उसका दृष्टिकोण सर्वथा स्वस्थ है, शीराज्ञी के चरित्र की शक्ति असंदिग्ध है; किन्तु कवि की अपनी भूखी वृत्ति भी नग्न-रूप में प्रकट हुए बिना नहीं रह सकी—

यौवन के द्वार पर

“कहते हैं वहाँ हिन्दुस्तान के सब सूबों की ही सुन्दरियाँ नही वरन् विदेश के देशों से भी कई सुन्दर स्त्रियाँ उन्होने रखी थी। हिन्दुस्तानी स्त्रियाँ उन्हें विशेष प्रिय थीं—सुदूर सरहदी सूबे की छरहरी लाँवी नाज़नी जिसकी भाषा जीवन-पर्यन्त न राजा साहब ही समझ पाये न जो राजा साहब की ही भाषा सीख सकी, वह कर्नाटकी जिसकी अटपटी बोली में वही चटपटा-पन था जो दक्षिण की भूमि में उगने वाले मिरच-मसालों में होता है, कुमायूँ-गौराङ्गना नायक-कन्या जो अपने लिए हमेशा पुछिङ्ग वाचक शब्दों से कभी मोड़ ही न छोड़ सकी थी, बुन्देलखण्ड की वह कुमारी जिसकी मांस-पेशियाँ उस देश की चट्टानों की तरह दृढ़ और वहाँ की रातों की तरह कोमल थीं और बुन्देलखण्ड की तारों-भरी रात के समान ही जिसका सँवला-सलोनापन आँखों को चमत्कृत कर देता था, मालवा की कोमलाङ्गी मालती जिसके श्वासों में ताड़क सौरभ था अहिफेन के फूलों का चूमकर बहने वाली बासन्ती समीर का……”

अञ्जल में नरेन्द्र की अपेक्षा पौरुष अधिक है। छायावाद के मूल में जो विद्रोह या असन्तोष की भावना थी उसने दो रूप धारण किए। पन्त, महादेवी और रामकुमार जैसे भाव-सुकुमार कवियों में वह अन्तर्मुखी होकर आत्मवृद्ध हो गई, निराला, भगवती बाबू और नवीन जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों में उसीने बहिर्मुखी होकर क्रान्ति का रूप धारण किया जो मुक्ति का कोई मार्ग न पाकर अवरुद्ध वाष्प-समूह के समान विस्फोट करती रही। अञ्जल इन्हीं दूसरे प्रकार के कवियों की साहित्यिक सन्तान है जिसने भौतिकवाद के वर्धमान प्रभाव को पूरी तरह ग्रहण कर अपने दृष्टिकोण को इन पूर्वजों की अपेक्षा अधिक स्थूल और भौतिक बना लिया है। स्वभावतः उसको सेक्स-चेतना मांस-लुब्ध है। अञ्जल दूर खड़ा होकर लालची निगाहों से नारी को नहीं देखता। उसकी मेकम-प्रतिक्रिया तो ऐसे व्यक्ति की सी है जिसकी भूख खाने पर भी नहीं मिटती। स्पष्टतः यह भी एक अस्वास्थ्य का ही लक्षण है। और सचमुच अञ्जल का न्यूरोसिस नरेन्द्र के न्यूरोसिस से ज्यादा खतरनाक है। उसकी कविता में नारी की जिम बीभत्स प्रलयकारिणी शक्ति का बारबार आह्वान किया गया है वह और कुछ नहीं उसकी यही विचुब्ध वासना है जो विकराल रूप धारण कर उसके मन में प्रकट होती रहती है।

यौवन के द्वार पर

अञ्जल के शृङ्गार-चित्रों में तमस् की शक्ति है और यह शृङ्गारिक तमस् रति, घृणा और क्रोध के तत्वों से बना हुआ है। हमारे स्वभाव से प्रेम करने की प्रवृत्ति और बध करने की प्रवृत्ति दोनों ही साथ-साथ वर्तमान रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतनी मिली-जुली हैं कि किसी प्रकार का आघात पाते ही, जैसे हताश हो जाने पर, तुरन्त रूप-परिवर्तन कर लेती हैं। एक साथ ही हमारा प्रेम घृणा में और घृणा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में इन दोनों का सामञ्जस्य भी गड़बड़ हो जाता है और वे अत्यन्त विच्छिन्न रूप धारण कर लेती हैं। आत्म-पीडन एवं पर-पीडन ऐसी ही प्रवृत्तियाँ हैं। अञ्जल की भूखी-वासना से स्वभावतः ऐसा ही हुआ है। अंग्रेजी में वायरनिज़म बहुत-कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति का नाम है।

फिर दिगम्बरी के आँगन से लोथों के अम्बार सजाये
कौन चली आती तुम रूपसि ! रक्त-लिप्त अलकें उलझाये ?
भर लाई हां तप्त कठिन अङ्गों में तूतानों का आसव
आज तुम्हें फिर विश्व बदलना आज तुम्हें क्या कठिन असम्भव ?

दिनकर का व्यक्तित्व मूलतः शृङ्गारी नहीं है। परन्तु उन्होंने शृङ्गार का जीवन की एक अत्यन्त स्वरथ प्रवृत्ति के रूप में ग्रहण किया है और उसको, जैसा कि उनके उद्धरण से स्पष्ट है, वाञ्छित आदर दिया है। दिनकर ने अपने को सद्दर्पमय पथका पथिक मानते हुए शृङ्गार को सुखद विराम-स्थल माना है। उनके शृङ्गारगीत शक्तिशाली व्यक्ति के हृदय में स्वभाव से वर्तमान रति-भावना की शुद्ध उद्गीतियाँ हैं। पुरुष-विद्या के निरंतर आकर्षण की मान्यता स्वीकार करते हुए उन्होंने नारा का पुरुष जीवन के लिए एक अत्यन्त मधुर प्रभाव माना है।

छरहरे बदनवाले साधारणतः स्वस्थ इस युवक कवि की चैतन्य आँखों में मुस्कराती हुई रस-रेखा नारी सौंदर्य से इसी मधुर प्रभाव को ग्रहण करती है। उसमें नारी-अङ्गों के प्रति न कोई लालच है और न अमिट भूख। स्पष्टतः दिनकर में किसी प्रकार की मानसिक विकृति के लक्षण नहीं दिखाई देते। उसमें दिवास्वप्नों का लगभग अभाव-सा है। इसलिए उनकी सभी रसोक्तियाँ विकच और प्रसन्न हैं। दिनकर के शृङ्गारिक दृष्टिकोण में एक और विभिन्नता यह है कि वह सर्वथा भौतिक नहीं हो पाया, उसमें कहीं-कहीं-आध्यात्मिक स्पर्शभी अत्यन्त सुव्यक्त है। और इसका कारण शायद यही है कि

जीवन के द्वार पर

दिनकर मूलतः देशभक्त कवि हैं। उनके हृदय में भारत के पवित्र अतीत के प्रति अच्युत श्रद्धा है। इसीलिए उपनिषद् और बौद्ध दर्शन की जन्मभूमि में उत्पन्न और पोषित यह कवि आत्मा का मांह नहीं छुंटा सका। रगवती की अनेक कविताओं में इस प्रकार के अभौतिक संकेत हैं। यह दूसरी बात रही कि अन्त में जाकर इस प्रकार के सभी अभौतिक संकेतों का भौतिक आधार मिल जाय, क्योंकि प्रेम तो भौतिक ही हो सकता है।

अब इन कवियों के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू लीजिए : उन्माह या क्रान्ति-भावना।

नरेन्द्र में यह भावना मुख्यतया प्रतिक्रिया-जन्य है। प्रवासी के गीत में गुमा प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव की कोमलता में जब परिस्थितियों के आघात से आत्म-क्षय के चिह्न दिखाई देने लगे तो उन्होंने एक मचेत व्यक्ति की भाँति उसका उपचार करने का प्रयत्न किया। वैयक्तिक चेतनाएँ जब किसी प्रकार के अतिचार के कारण रुग्ण या विकृत हो जायँ तो इसका उपचार यही है कि अहं का समाजीकरण किया जाय, यानी उन चेतनाओं को आत्म-प्रेम से मोड कर विश्व-प्रेम की ओर नियोजित किया जाय। अतिशय भावुकता की सुक्ति है बुद्धि, और अतिशय आत्मप्रेम, जो वास्तव में इस अतिशय भावुकता का मूल कारण है, की सुक्ति है सामाजिकता एक जागरूक व्यक्ति की भाँति नरेन्द्र ने यही मार्ग ग्रहण किया है।

आज नरेन्द्र प्रगतिवादी हैं, समाजवाद उनका स्वीकृत जीवन-दर्शन है। सामाजिक हितों के लिए वे उत्साहपूर्वक क्रियाशील हैं। समाजवादी होने के कारण स्पष्टतः ही उनकी क्रान्तिभावना के पीछे एक निश्चित रचनात्मक विधान है। इसलिए उनकी इन कविताओं में संयत शक्ति मिलती है, उच्छ्वसित विस्फोट नहीं। यह एक बुद्धिवादी की क्रांति है। इसमें भविष्य का एक स्वप्न है और सचमुच नरेन्द्र का स्वप्नदर्शी स्वभाव आज भी उसका मोह नहीं छोड़ सका। जब उनके संस्कार प्रबल हो उठते हैं तो वे फिर पुराने मधुर-विधुर सपने देखने लगते हैं, जब उनकी चेतना जागरूक रहती है तो वे लाल रूस के सपने देखते हैं। उनके व्यक्तित्व की द्विधा जो आज अत्यन्त व्यक्त रूप में हमारे सामने है इसी स्तर पर जाकर मिटती है।

अञ्जल की क्रान्ति के पीछे मूलतः कोई बौद्धिक विधान नहीं है; अञ्जल

के स्वभाव में बौद्धिकता का प्राधान्य नहीं है। उनमें किसी प्रकार की राजनीतिक-चेतना भी नहीं है। जो कुछ है वह सामाजिक ही है, और यह सामाजिक चेतना भी प्रधानतः यौन सम्बन्धों तक ही सीमित है। आज हमारे समाज में जो विकृतियाँ पैदा हो गई हैं उनमें एक विकृति है यौन सम्बन्धों की विषमता जिसका सबसे स्पष्ट कारण यह है कि हमारा नैतिक-विधान यौन सम्बन्धों को ही सबसे बड़ा निर्णय मानकर उनके दमन का अपाकृतिक सहत्व देता रहा है। फलतः आज के मामूली दूज में पाने-पीने में प्रवर्गीय चुनक ने जब सामाजिक बन्धनों के प्रति क्रांति की तो सबसे अधिक आक्रोश रखने यौन-नैतिक के विरुद्ध ही प्रकट किया। क्योंकि अन्य सभी दंगनों की अपेक्षा यही उसे अधिक खल रही थी। जो इन उलझन का कोई समाधान न निकाल सका वह भाग्यवादी बन गया और जिसने समाजवाद का सहारा ले लिया अपने इसके मूल कारण अर्धविषमता को अपना मुख्य शत्रु मानकर इसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया। अज्ञान ने समाजवाद का अँचल इन्हीं तरह पकड़ा है। अर्थात् यौन सम्बन्धों की विषमता ही उनके अर्थ-सम्बन्धों की विषमता की ओर ले गई है। यही कारण है कि किरण-काल में भी जहाँ स्पष्ट शब्दों से अज्ञान ने पुराने पापों का प्रायश्चित्त करते हुए प्रवृत्तियों का दीजा ले ली है, जहाँ अत्यन्त यौन और तेज के साथ उन्नीचे रोषितों की अभिसरणी पीड़ा को सुखर किया है, नारी-शोषण के वाग्मना-लक्ष्य चित्रों का ही प्राधान्य है। अज्ञान की दुनियाँ में सबसे बड़ी मजलूम नारी है, और इन जुलूमों का अन्त करने के लिए भी उसने नारी की ही अंशव सूर्ति का आह्वान किया है।

अज्ञान बुद्धि-जीवी नहीं है, और न अज्ञानवादी ही, इसलिए वह समाजवाद के भविष्य-स्वप्न को ग्रहण करने में असमर्थ रहा है। अतएव उसमें क्रांति का विध्वंसात्मक रूप ही मिलता है, रचनात्मक रूप नहीं। उसकी कविता में काले अन्धकार की शक्ति है आशा का उज्ज्वल सन्देश नहीं! परन्तु यही उसका अपना व्यक्तित्व और शक्ति है।

हमने अभी कहा कि दिनकर मूल-रूप में देश-भक्त कवि हैं। उन्होंने अपने कवि-जीवन के प्रभात में रेणुका में देश की गौरव-विभूति के प्रति अस्मान जागृत करते हुए पराधीनता के विरुद्ध क्रांति-घोष किया था। किन्तु केवल देशभक्ति पिछले युग की भावना है; आज तो मानववाद की भावना जागृत हो उठी है। स्वयं मानव ही मानवता का अन्त कर रहा है—आज के कवि की यही सबसे बड़ी पीड़ा है। दिनकर ऐसे प्रान्त का कवि है जहाँ

यौवन के द्वार पर

निर्धनता अट्टहास करती हैं। वर्ग-प्रेम्य भी विहार से अधिक शायद गियासतों में ही मिले। इसके अतिरिक्त इन ब्रेचारे भूखो-नंगों को प्रकृति के खूनी दाँत और पक्षों का भी अक्सर शिकार बनना पड़ता है। इन्हींलिए समाजवादी आन्दोलन, किसान-आन्दोलन आदि वहाँ अधिक सक्रिय रूप धारण कर चुके हैं। दिनकर ने इन्हीं की तडप को रबर कर दिया है। उनका अन्त करने के लिए विपथगा क्रान्ति का आह्वान किया है। परन्तु फिर भी उगने समाजवादी जीवन-दर्शन को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया, उगकी गति मानव-वाद तक ही सीमित रही है। इसीलिए उसकी कविता भी नैदानिक नहीं बनी। कुल मिलाकर दिनकर देशभक्त मानववादी है। परार्थानता के अभिशापो और शोषितों की पीडाओं से उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व तडप उठता है। परन्तु क्योंकि मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता इसीलिए वह केवल हुंकार भरकर रह जाता है। वह उन मशक्त व्यक्तियों का उच्चार है जो देश की परतन्त्रता की विपमताओं का तो पूरी तरह अनुभव करते हैं, परन्तु सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण कुछ समाधान नहीं ग्योच पाते।

अब तक हमने इन तीनों कवियों के व्यक्तित्वों का विश्लेषण करते हुए उनकी रीति और उत्साह भावनाओं का विवेचन किया। अब एक कार्य शेष रह जाता है : उनके काव्य-गुण की परीक्षा। उसके लिए नए आलोचक क्षमा करें—हमारे पास वही पुरानी कसौटी है रस की। इनमें से एक कवि की क्रान्ति-भावना उचित दिशा को ग्रहण करने वाली है, दूसरे की क्रान्ति विपथगा है—यह सब कुछ इस समय हमारे लिए मूल्य नहीं रखता। इसके लिए पुरस्कार या दण्ड देने का दायित्व हम समाज पर छोड़ते हैं। रस-परीक्षण के लिए तो केवल एक बात दृष्टव्य है : इन कविताओं में आनन्द देने की शक्ति कहाँ तक है। अर्थात् उनके रचयिता कहाँ तक अपने व्यक्तित्वों का सफल अनुवाद कर सके हैं। और भी स्पष्ट शब्दों में, इनकी आत्मा-भिव्यक्ति कितनी सच्ची, कितनी तीव्र, कितनी गहरी, कितनी सबल एवं प्रौढ है।

इस कसौटी पर कसने पर एक ओर नरेन्द्र की वे गीतियाँ अत्यन्त सरस बन पड़ी हैं जो उनके जीवन के सहचर दिवास्वप्नों की मधुर सृष्टि हैं। दूसरी ओर उनके वे उद्गार—जेष्ठ का मध्याह्न, बन्दी, पापी आदि—भी स्वस्थ रस से परिपुष्ट हैं जो कवि की उस समय की मनोदशा की अभिव्यक्ति

हैं जब कि वे अपने रुग्ण मन के उपचार के लिए समाजवाद की 'प्राणधारा' का सेवन कर रहे थे। इनके अतिरिक्त उनकी बहुत-सी कविताएँ, जैसे समाज-वाद का प्रचार करने वाली रचनाएँ या विरह-गीतों की माला पूरी करने वाले गीत, काफी माधारण स्तर की हैं। हिन्दी के कई कम-प्रसिद्ध कवियों ने—उदाहरणार्थ, गिरिजाकुमार माथुर ने—उनसे मधुरतर गीत-रचना की है।

अञ्जल के विषय में हमने अभी निवेदन किया कि उनसे अन्धड की शक्ति है। मधूलिका और अपराजिता को पढकर आप सहज ही इसका अनुभव कर लीजिए। इनमें जिस व्यक्तित्व का अनुवाद है उसकी शक्ति असंदिग्ध है, पर बौद्धिक सुलभात्व उसके विचारों में प्रारम्भ से कम रहा है। इसलिए ये कविताएँ कुहर-धूमिल एवं रिक्त हैं। इन्हें पढते हुए क्या पाठक यह अनुभव नहीं करता कि वह एक बरगडर के बीच खडा हुआ है जिन्में गर्द-गुन्दार और रत्न-विरंगे फूल पत्तों का मिला जुला कुहराम मचा हुआ है जो उसे झकझोर तां देता है पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं डालता? परन्तु अञ्जल ने निश्चय ही उन्नति की है। किरण-त्रेला में आकर उनका दृष्टिकोण आवर्त-बद्ध नहीं रहा, उनकी बौद्धिक पकड सुलभ गई है, उनको एक दिशा मिल गई है। और उसके लिए मन्त्रमुच उन्हें प्रगतिवाद का आभार मानना चाहिए।

अञ्जल के आवेश और कल्पना दोनों के वेग है। पर उनको स्थिरता प्रदान करने वाली बौद्धिक शक्ति उनके पास कम है। इसीलिए भावगत कविताओं एवं अंतर्गतों की अपेक्षा उनकी वस्तुगत कविताएँ, जिनमें वस्तु की रूप-रेखा और सीमाएँ निश्चित होने के कारण स्थैर्य आप-से-आप वर्तमान रहता है, कहीं-अधिक सफल और रस-पीन है। दानव, मजदूर की अन्धी लड़की, शोपिता आदि हमारी गवाही देगी। ये तीनों और इस प्रकार की कुछ अन्य कविताएँ भी अत्यन्त उच्च कोटि की हैं।

दिनकर का व्यक्तित्व इन दोनों की अपेक्षा अधिक शक्तिमान् है। उनके कम्बुघोष में तो अधिक शक्ति है ही, बीणा-रव में भी कम माधुरी नहीं। उनकी सर्वप्रथम काव्य-कृति है रेणुका। उसकी कुछ कविताओं में देश की गौरव-भावनाओं का पवित्र जय-जयकार है जो मन में सात्विक रस का सञ्चार करता है। परन्तु अधिकतर रचनाएँ, मुख्यतः तो कवि-प्रतिभा का प्रथम स्फुरण होने के कारण और कुछ अंशों में बाहर के कतिपय नैतिक अथवा दूसरे शब्दों में असाहित्यिक प्रभावों के कारण, इतिवृत्त-प्रधान हो गई हैं। दिनकर के व्यक्तित्व की सफलतम उद्भूतियाँ हैं हुंकार और रसवन्ती

यौवन के द्वार पर

की विशिष्ट कविताएँ। एक में यदि इस ज्वालामुखी का उष्ण-तरल लावा है, तो दूसरी में उसके हृदय में गूँजती हुई बाँसुरी का रस-भीगा स्वर ! दिनकर की कविता वहाँ असफल होती है जहाँ उसमें अनुभूति लुप्त हो जाने से एक खोखलापन शेष रह जाता है जो निस्सार बजता रहता है। यह द्राप अञ्जल की मधूलिका और अपराजिता में और भी भयङ्कर रूप में मिलता है। अस्तु !

अन्त में दिनकर, अञ्जल और नरेन्द्र तीनों के काव्य का पूरी तरह अध्ययन कर लेने के उपरान्त हम किसी प्रकार की निराशा नहीं हुई। ये कवि अपने पूर्ण यौवन की ओर स्वस्थ ढंग से बढ़ रहे हैं और यौवन के द्वार तक पहुँच भी चुके हैं।”

* इस लेख के पूर्वार्ध में मेरी लेखनी से मौज में आकर निरुद्देश्य ही कुछ छोटें उड़ गये हैं। ये छोटें फ्लेफ्यलीन के छोटों की तरह सर्वथा निर्दोष हैं, इसलिए मुझे इनके लिए कोई सफ़ाई नहीं देनी। फिर भी यदि इन से किसी का मन मंला होता है तो उसमें मैं अपने को दोषी न मान सकूँगा।

आचार्य शुक्ल और डॉक्टर आइ० ए० रिचर्ड्सः एक तुलनात्मक अध्ययन

कुछ दिन पहले जब विदेश के सौन्दर्य शास्त्र का छाया-प्रभाव हिन्दी पर पड़ा और उसके फल-स्वरूप यहाँ कविता को स्वतन्त्र रचना मानते हुए उसके विषय में एक काल्पनिक-वी चर्चा होने लगी, उस समय शुकुजी ने इस अतिचार के विरुद्ध गस्त्र प्रहण किया और अपने मत की दृष्टि के लिए विदेश के नवोत्थित आलांचक आइ. ए. रिचर्ड्स का गर्म उद्धरण पेश किया। रिचर्ड्स को भी अपने यहाँ कुछ ऐसा ही संघर्ष करना पड़ा था। परन्तु इन दोनों आलोचकों का विषय सर्वथा भिन्न था। रिचर्ड्स का डॉक्टर ब्रेडले जैसे समर्थ प्रतिपक्षी के विरुद्ध युद्ध होना था। शुकुजी के प्रतिपक्षी हिन्दा के नये उत्साही कवि-लेखक थे जो अपने पैर जमाने के लिए प्रथमदृष्टीत ज्ञान के बल पर सौन्दर्य-शास्त्र की शरण ले रहे थे। फिर भी शुकुजी को रिचर्ड्स की दृष्टि से थोड़ी-सी सामयिक सहायता मिली और उन्हें उस अंग आकर्षण की हुआ।

रिचर्ड्स का सीधा प्रभाव तो उन पर पड़ा नहीं क्योंकि उस समय तक शुकुजी की मानसिक आधार-भूमि पूर्णतः बन चुकी थी; फिर भी रिचर्ड्स के साथ शुकुजी का तुलनात्मक अध्ययन काफी मनोरञ्जक होगा, और इस तुलना में शुकुजी का अपना व्यक्तित्व भी काफी निरूपण आयेगा।

—कविता की परिभाषा—

सब से पहिले कविता की परिभाषा लें।

शुकुजी के अनुसार “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।……”

“जो कुछ ऊपर कहा गया उसके स्पष्ट है कि सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मक प्रकृति का सामञ्जस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम क्रोध, करुणा, घृणा, आदि मनोवेगों या मनोभावों पर सान

चटाकर उन्हें तीक्ष्ण करती है उसी प्रकार जगत के नानारूपों और व्यापारों के साथ उनका उचित सम्बन्ध स्थापित करने का उद्योग भी करती है।”

इस प्रकार शुक्लजी के अनुसार व्यक्ति और सृष्टि दो पृथक् सत्ताएँ हैं। इन दोनों सत्ताओं में पारस्परिक सम्बन्ध होना आवश्यक है, और यह सम्बन्ध भावना का होना चाहिए। कविता इसका साधन है।

यह वास्तव में शुक्लजी ने कविता के कर्तव्य-कर्म की व्याख्या की है कविता की नहीं, यह कविता का स्वरूप नहीं कविता का धर्म है। फिर भी इससे स्थापित होता है कि—

- (१) कविता में भावना का प्राधान्य है; और
- (२) कविता सत्य नहीं साधन है।

रिचर्ड्स का भी कहना है कि “वस्तु का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और सहत्व कुछ नहीं, हमें तो यह देखना है कि उसका कर्म क्या है? लोग काव्य और काव्यमय की बात करते हैं, पर वास्तव में उन्हें सोचना चाहिए मूर्त्त अनुभूतियों के विषय में क्योंकि वे ही कविता है।”

इस प्रकार उनके अनुसार भी कविता एक मूर्त्त अनुभूति है। अर्थात् कविता सत्य नहीं अनुभूति—साधन—है। यह अनुभूति किस की? लेखक की या पाठक की? मूल रूप में लेखक की, परन्तु व्यवहार रूप में पाठक की :

“कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है। ये अनुभूतियाँ एक निश्चित—मौलिक—अनुभूति से विभिन्न होने के कारण अनेक-रूप तो हैं, परन्तु उनके विभेद की एक सीमा है। यह निश्चित—मौलिक—अनुभूति है कविता रचते, समय की लेखक की अपनी अनुभूति।”

अर्थात्—

(अ) दोनों की परिभाषा में कविता को सत्य-रूप में नहीं, क्रिया-रूप में ग्रहण किया गया है। शुक्लजी ने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी उपयोगिता पर जोर देते हुए उसे साधन माना है, रिचर्ड्स ने कोई ऐसी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, यद्यपि उस ओर संकेत अवश्य किया है।

(आ) कविता भाव-प्रधान है। भाव को शुक्लजी मनोवेग—मन का विकार—मानते हैं। यह विकार बाह्य प्रभाव-जन्य है, अर्थात् व्यक्ति पर सृष्टि की प्रतिक्रिया है—इन्के आगे शुक्लजी मौन हैं। रिचर्ड्स वैज्ञानिक

हैं : वे और आगे जाते हैं और इन प्रतिक्रिया को स्नायवी संकृति तक घटाते हुए उसकी शत-प्रति-शत भौतिक व्याख्या करते हैं ।

(इ) कविता अनुभूति है, परन्तु यह अनुभूति जीवन से बाहर की अनुभूति नहीं जीवन-गत ही है । अर्थात् सौन्दर्यानुभूतिका कोई स्वतन्त्र या पृथक् अस्तित्व नहीं ।

—कविता और जीवन—

कला के लिए कला अथवा कविता के लिए कविता का सिद्धान्त उन्हें सहा नहीं है । इसलिए जहाँ तक ब्रेटले महोदय के इस सिद्धान्त का सम्बन्ध है कि—

“कला का रसास्वादन करने के लिए जीवन में कुछ भी हमें अपने साथ लाने की आवश्यकता नहीं है । उसके लिए न तो उसके व्यापारों या विचारों का ज्ञान और न उसके भावों से परिचय ही अपेक्षित है ।…… वह न तो इस संसार का एक अङ्ग है और न अनुकरण । वह तो स्वयं अपने ही में एक नंगार है—स्वतन्त्र, सम्पूर्ण और स्वायत्त ।”

—इसके विरोध में वे दोनों अक्षरशः एक स्वर है । कला या कविता इस जीवन से बाहर की कोई अनुभूति है, उसका इस लोक से सम्बन्ध नहीं—यह मत न शुक्लजी को जण-भर के लिए ग्राह्य है और न रिचर्ड्स को ।

इस का तात्पर्य यह है कि शुक्लजी और रिचर्ड्स दोनों काव्यानुभूति को साधारण मानते हैं । फिर भी थोड़ा अन्तर अवश्य है । शुक्लजी रिचर्ड्स की भाँति कविता को मूर्त अनुभूति मानते हुए उसे स्नायवी क्रिया तक घटाने के लिए तैयार नहीं हैं । उनकी आधार-भूमि भारत के रस-सिद्धान्त से परिपुष्ट है, अतः लांकोनर आनन्द को कम-से-कम बौद्धिक रूप में वे अवश्य स्वीकार करते हैं :

“कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है ।”

इस प्रकार शुक्लजी कविता की अलौकिकता को चीरकर बिल्कुल अलग नहीं फेंक देते । पर रिचर्ड्स उसको गणित के तथ्य की भाँति सूक्ष्माति-सूक्ष्म अणुओं में विभक्त करते हुए अन्तिम रूप तक पहुँचने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं ।

—कविता का उद्देश्य—

स्वभावतः कविता को दोनों उद्देश्य मानते हैं और उद्देश्य के विषय में भी दोनों एक मत हैं ।

शुक्लजी के अनुसार : “कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा कर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना जातियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का सञ्चार होता है । इस अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार, तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है ।”

इसी तरह रिचर्ड्स भी मानते हैं कि कविता का लक्ष्य है मानव संवेदनाओं का, न्यूनातिन्यून दमन करते हुए, समीकरण करना । संवेदनाओं का यह समीकरण ही शुक्लजी का अनुभूति-योग है, यही हृदय की मुक्तावस्था या रस-दशा है । शुक्लजी ने भारतीय दर्शन का रङ्ग चढाकर इस दशाका आत्म-लीनता या विश्वात्म-भाव से एकीकरण कर दिया है, रिचर्ड्स समीकरण से आगे नहीं जाते ।

—मूल्याङ्कन—

लक्ष्य का निश्चय-मूल्याङ्कन की ओर इङ्गित करता है । कविता की कसौटी क्या है ? शुक्लजी के मतसे सन् कविता के गुण इस प्रकार हैं:—

१—रागों या मनोवेगों का परिष्कार करते हुए उनका सृष्टि के साथ उचित सामञ्जस्य स्थापित करना एवं जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करना ।

२—कार्य में प्रवृत्त करना अर्थात् हमारे मनोवेगों को उच्छ्वसित करते हुए हमारे जीवन में एक नया जीवन डाल देना ।

३—मन को रमाने हुए स्वभाव-संशोधन तथा चरित्र-संशोधन करना । यह बात रागों के परिष्कार में आ जाती है ।

रिचर्ड्स महोदय की धारणाएँ भी बहुत भिन्न नहीं हैं । जीवन के मूल्यों का देश-काल से वनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करते हुए भी वे यह मानते हैं कि किमी वस्तु की मानव-भावना और इच्छा के परितोष करने की शक्ति ही उनके मूल्य की कमाँटी है । इस परितोष के लिए आवश्यक है मनोवृत्तियों की

अन्विति जो मनुष्य के जीवन का मत्त प्रयत्न रहा है। मनोवृत्तियाँ जितनी ही अधिक और महत्वपूर्ण होंगी उतना ही उस अन्विति का मूल्य होगा। इस प्रकार जीवन में सम-रसता लाने का प्रयत्न ही मानव-जीवन का शाश्वत कर्तव्य-कर्म है और यही उसके मूल्यांकन का भी मानदण्ड है। यह अन्विति : सम-रसता का प्रयत्न : अनजाने अवचेतन या अचेतन अवस्था में होती रहती है—प्रायः दूसरों के प्रभाववश, और इस प्रभाव का सर्वप्रमुख साधन है कला और साहित्य।

आप देखें कि इस अन्विति में और शुक्लजी के सिद्धान्त में—रागों या मनावेगों का परिष्कार करते हुए उनका सृष्टि के साथ उचित सामञ्जस्य करना—कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों के मूल्यांकन की कसौटी रागों अथवा संवेदनाओं का परिष्कार और उनका उचित सामञ्जस्य ही है। रिचर्ड्स की उक्ति में व्यक्ति की अपनी संवेदनाओं के उचित सामञ्जस्य अर्थात् आंतरिक सामञ्जस्य पर बल दिया गया है। शुक्लजी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सृष्टि के साथ उनके सामञ्जस्य की अर्थात् अंतर्वाह्य सामञ्जस्य की बात अधिक करते हैं।

परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि मूल सिद्धान्त की एकता होते हुए भी दोनों का प्रतिपादन काफी भिन्न है। और यह विभेद वास्तव में दृष्टि-कोण का विभेद है।

—दृष्टिकोण—

हमने देखा शुक्लजी और रिचर्ड्स दोनों का आर्डर : विधान में विश्वास है। परन्तु शुक्लजी का विधान जहाँ नैतिक है, रिचर्ड्स का एकदम वैज्ञानिक : मनोवैज्ञानिक। शुक्लजी सदाचार और सौंदर्य का अभिन्न सम्बन्ध मानते हैं : “बात यह है कि कविता सौंदर्य और सात्विकशीलता या कर्तव्य-परायणता में भेद नहीं देखना चाहती।……जो धर्म में शिव है काव्य में वही सुन्दर है।” रिचर्ड्स स्पष्ट घोषित करते हैं कि नीति-सिद्धान्त प्रायः हमारे मानसिक सामञ्जस्य में बाधक होते हैं और साथ ही जीवन के विकास में भी। परन्तु यदि नीति का स्वरूप विकासशील है और देशकाल के अनु-सार इस सामञ्जस्य में योग देता है तो नीति कला और साहित्य की साधक है। इस प्रकार शुक्लजी ने सुन्दर का शिव के साथ तादात्म्य कर दिया है; रिचर्ड्स

आचार्य शुक्ल और डाक्टर रिचर्ड्स

ने सत्य के साथ। शुक्लजी का आदर्श राम का आदर्श है : स्थिति-रक्षक का; रिचर्ड्स अन्वेषक हैं। इसीलिए दोनों कुछ दूर साथ चलकर पृथक् हो जाते हैं। शुक्लजी को निरपेक्ष मृत्यो में अटल विश्वास है—वे मर्यादावादी हैं। रिचर्ड्स एक सच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण की भाँति विकासवादी हैं। स्वभावतः शुक्लजी का सत्य स्थिर सत्य है, रिचर्ड्स का गत्यात्मक।

यह बात दोनों की आनन्द की परिभाषा से और स्पष्ट हो जाती है। शुक्लजी आनन्द-दशा या रम-दशा को मुक्तावस्था मानते हैं। परन्तु रिचर्ड्स आनन्द को एक स्वतन्त्र मानसिक अवस्था नहीं मानते। वे तो उसे क्रिया को ग्रहण करने का एक प्रकार मानते हैं—एक प्रतिक्रिया-मात्र मानते हैं। वे कहते हैं “ हम आनन्द का अनुभव नहीं करते, हम तो उस अनुभूति का ही अनुभव करते हैं जो आनन्द-दायिनी है।” इस प्रकार आनन्द संवेदना का कोई रूप नहीं है, वह तो उसका एक परिणाम है अर्थात् मानसिक वृत्तियों का सामञ्जस्य स्थापित करने में उसकी सफलता का परिणाम है। वे आनन्द को साध्य नहीं केवल एक सूचना-चिह्न मानते हैं। मुख्य वस्तु, उनके अनुसार है क्रिया। आनन्द केवल यही सूचित करता है कि यह क्रिया सफल हो रही है।

बस, शुक्लजी और रिचर्ड्स के दृष्टिकोण में गति का यही प्रमुख अन्तर है। शुक्लजी गति की एक सीमा मानते हैं। रिचर्ड्स जीवन को ही एक गति मानते हैं और गणितज्ञ की तरह आगे बढ़ते ही चले जाते हैं।

—शैली—

शैली दृष्टिकोण का ही प्रतिबिम्ब है। अतः रिचर्ड्स और शुक्लजी की आलोचना-शैली में उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही समता-असमता है। जहाँ तक दोनों की बौद्धिकता का सम्बन्ध है, उनकी शैलियों में भी विचारों का प्राधान्य, एवं गवेषणा और उसके परिणाम-स्वरूप घनता तथा गम्भीरता मिलेगी। दोनों अध्यापक हैं। अतः दोनों की शैली विश्लेषणात्मक है। पर शुक्लजी, जैसा मैंने निवेदन किया, मर्यादावादी थे और रिचर्ड्स हैं विकासवादी। इसलिये यह स्वाभाविक है कि शुक्लजी की शैली शास्त्रीय और रिचर्ड्स की वैज्ञानिक (मनोवैज्ञानिक) हो। शुक्लजी जहाँ बार-बार शास्त्र-परम्परा को पकड़ते हुए शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं वहाँ रिचर्ड्स आग्रह-पूर्वक उसका तिरस्कार। इसके अतिरिक्त एक और स्पष्ट अन्तर दोनों की शैली में मिलेगा। शुक्लजी की शैली में रस-मग्नता है, रिचर्ड्स की शैली में वैज्ञानिक

आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रिचर्ड्स

तथ्य-कथनमात्र । कारण यह है कि शुक्लजीने सुन्दर का शिव रूप लिया है इसलिए उनमें श्रद्धा की भावना अंत-प्रोत है । वे रम की निरपेक्ष सत्ता में विश्वास करते हैं । अतएव वे हमें स्थान-स्थान पर रसमग्न होते हुए दिखाई देते हैं । उनकी सहृदयता अद्वितीय थी, उनकी रसज्ञता इतनी तरल थी कि वे अचानक आने पर अवश्य बह जाते थे—

“निर्गुन कौन देस का वासी ?

मधुकर कहू समुझाय, मौह दै वूक्त साँच न हाँसी ।”

कसम है, हम ठीक-ठीक पृच्छती है, हाँसी नहीं, कि तुम्हारा निर्गुण कहीं का रहने वाला है :

कुछ विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्ठता—
कितनी बातें इस छोट-से वाक्य से टपकती हैं !

ऐसे उद्दरण रसान्वेपी पाठक को शुक्ल-साहित्य में अनेक मिल जायँगे— केवल धारण-चित्रों का ले उढ़ने वालों की बात हम नहीं कहते । यही रस-मग्नता उनकी वाणी का उच्छ्वसित कर देती है और विरोधी पाठक भी उसकी शक्ति में अभिभूत हुए विना नहीं रह सकता । प्रतिपादन की यह दुर्निवार शैली शुक्लजी की बहुत बड़ी विशेषता थी जो बुद्धि की दृढता और हृदय के रम से परिपुष्ट थी । इसके विपरीत रिचर्ड्स में यह श्रद्धा की भावना दुर्लभ है । अतः वे कहीं रसमग्न नहीं होते । रस-मग्नता शायद उनकी दृष्टि में आलोचना की दुर्बलता भी हो ।

—परिणाम—

उपर्युक्त विवेचन से यह परिणाम निकालना कठिन न होगा कि—

(१) शुक्लजी की अपेक्षा रिचर्ड्स अधिक मेधावी है । उनकी दृष्टि अपेक्षाकृत तीखी और विवेचन अधिक मौलिक होता है । रिचर्ड्स की वैज्ञानिक दृष्टि जिस सूक्ष्म सत्य को सफ़ाई से पकड़ लेती है, वह शुक्लजी की नैतिक दृष्टि के लिए कठिन होता है ।

(२) रिचर्ड्स का दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक है । उनका सत्य गत्यात्मक है, शुक्लजी का स्थिर । इसलिए विषमताओं का समन्वय जिस सरलता से रिचर्ड्स कर लेते हैं, उस सरलता से शुक्लजी नहीं । इसी कारण

शुक्लजी बहुत शीघ्र ही समय ने पीछे रह गये, रिचर्ड्स कभी नहीं रह सकते। वे टी० एस्० इलियट की कविताओं का भी आदर हृदय खोल कर करते हैं, शुक्लजी को प्रसाद के साथ समझौता करने में भी कठनाई पड़ी। कविता के लोकपक्ष ने उन्हें इतना पकड़ रखा था कि रम की एकांत साधना उन्हें मुश्किल से ही ग्राह्य हो सकती थी। इसी कारण गीति-काव्य के प्रति शुक्लजी का भाव सदा कठोर ही रहा।

(३) परन्तु सूक्ष्मता, व्यापकता और मौलिकता की तृप्ति शुक्लजी अपने विवेक, शक्ति और गाम्भीर्य के द्वारा पूरी कर लेते हैं। शुक्लजी प्राणवान् पुरुष थे : उनमें जीवन था, गति थी। यह गति संस्कार-वश आगे को अधिक नहीं बढ़ी, इसलिए भीतर को बढ़ती गयी और उसका परिणाम हुआ अतुल गाम्भीर्य और शक्ति। जो कुछ उन्होंने विस्तार में मँगा वह गहराई में और घनता में पा लिया। समर्थ व्यक्ति अगर आगे को नहीं बढ़ता तो भीतर तो उसे बढ़ना ही है, वह बाह्य विस्तार को छोड़ जड़ों को गहरा और मज़बूत करेगा—प्रेमचन्द और प्रसाद की तुलना इस अन्तर को स्पष्ट कर देगी। शुक्लजी समय के साथ आगे नहीं बढ़ सके। कोचे के अभिव्यञ्जनावाद और जर्मन दार्शनिकों के सौंदर्यशास्त्र की विशेषताओं को ग्रहण करने में वे असमर्थ रहे। परन्तु अपने रस-शास्त्र की शक्ति और सम्भावनाओं की वे निरन्तर छानवीन करते रहे और इसके परिणामस्वरूप भारतीय रस-शास्त्र का जो मनोवैज्ञानिक विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया, वह भारत के आलोचना-साहित्य को हिन्दी का अमूल्य उपहार है।

दूसरे, कविता के लोकोत्तर आनन्द का तिरस्कार न करके, उसकी मिस्ट्री को भी थोड़ा-बहुत स्वीकार करते हुए शुक्लजी ने अपने दृढ़ विवेक का परिचय दिया। इसके विपरीत रिचर्ड्स महोदय का विवेक अति के कारण अविवेक बन जाता है। इसका प्रमाण है 'कविता का विश्लेषण' परिच्छेद में दिया हुआ उनका रमास्वादन सम्बन्धी चित्र। इस चित्र के द्वारा कविता के विश्लेषण का प्रयत्न 'कला कला के लिए है' सिद्धान्त की अपेक्षा कहीं अधिक हास्यास्पद है।

(४) इसी कारण शुक्लजी की आलोचना में हमारे विश्वास को पकड़ने की क्षमता रिचर्ड्स की अपेक्षा कहीं अधिक है। शुक्लजी की जायसी, तुलसी, सूर, प्रसाद आदि की आलोचना में धिरोधी को भी विजित करने की क्षमता

आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रिचर्ड्स

हैं। रिचर्ड्स ने सिद्धांत-विवेचन ही अधिक किया है, परन्तु हमारी धारणा है कि वे काव्य-विशेष का विवेचन बहुत सफल शायद नहीं कर सकते। उनका एकाग्र प्रयत्न इसका साक्षी है। इसका स्पष्ट कारण है रसमग्न होने की शक्ति का अभाव।

(५) दोनों के दोष भी समान हैं। अपने मत का प्रतिपादन करते समय दोनों में एकांगिता, हठधर्मी और मताभिमान मिलता है जो विज्ञोभ उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रिचर्ड्स ने सत्य की अत्यधिक छानबीन के द्वारा और शुक्लजी ने शिव का बोझ ग्त्र कर सुन्दर के सहज रस-बोध में थोड़ी-बहुत बाधा भी उपस्थित की है।

अन्त में, ऐतिहासिक महत्व को मैं बहुत बड़ा गौरव नहीं मानता। पर यदि उस पर दृष्टिपात किया जाय तो रिचर्ड्स और शुक्लजी में कोई तुलना नहीं। यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि रिचर्ड्स का जिस इतिहास से सम्बन्ध है, वह हमारे इतिहास की अपेक्षा कहीं-अधिक विकसित है। अतः उस पर प्रभाव डालना साधारण गौरव नहीं, और यह गौरव उनको प्राप्त भी है—इलियट-जैसे प्रौढ आलोचक ने उन्हें प्रवर्तकों में स्थान दिया है। फिर भी शुक्लजी ने तो अपने युग को प्रभावित नहीं किया आच्छादित किया था।

वह देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो।
आच्छादित किम् हुए थी जो समग्र नभ को ॥

आलोचना की आलोचना

—१—

आधुनिक आलोचना का युग वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ आचार्य शुक्ल ने उसे लेजाकर स्थित कर दिया था। इस समय साहित्य के इस अङ्ग की यथोचित श्री वृद्धि हो रही है : उसकी धारा अनेकमुखी हो कर प्रवाहित हो रही है। एक प्रकार से यह युग ही आलोचना-प्रधान है। आज हृदय पर बुद्धि का शासन बढ रहा है : हमारा दृष्टिकोण दार्शनिक, नैतिक अथवा भाव-प्रधान न रह कर बहुतकुछ बौद्धिक होता जा रहा है। इसीलिए आज का सभी साहित्य—कविता भी—आलोचना-प्रधान है। ऐसी दशा में प्रवृत्तियों की निश्चित सीमाएँ बाँधना तो दुष्कर है, फिर भी कुछ-एक की ओर रुढ़ते किया जा सकता है।

सबसे पहिले तो हमें शास्त्रीय आलोचना पद्धति मिलती है। इसके प्रतिनिधि हैं पं० कृष्णशङ्कर शुक्ल, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, बाबू गुलाबराय, प्रो० रामकुमार वर्मा, श्री सत्येन्द्र और प्रो० शिलोमुख। ये सज्जन सभी उच्च-शिक्षा से सीधा सम्पर्क रखने वाले अध्यापक हैं। इनकी शैली में काव्य-वस्तु की अन्तर्वृत्तियों के विश्लेषण की प्रवृत्ति पायी जाती है। स्वभावतः यह वर्ग विश्लेषणात्मक आलोचना का पोषक है। ये आलोचक समालोचना को भावुकता की क्रोडा नहीं समझते : वे तो गम्भीर अध्ययन, विवेचन और स्पष्ट विश्लेषण को ही प्रधानता देते हैं। साहित्य के निश्चित-सिद्धान्तों में उनका अटल विश्वास है। साहित्यिक मान अटल हैं, उनकी व्याख्या का स्वरूप चाहे कितना ही भिन्न हो जाय—ऐसी इन विद्वानों की ध्रुव-धारणा है। इन सभी में प्राच्य और पाश्चात्य आलोचना-पद्धतियों का सम्मिश्रण मिलेगा। ये लोग शुक्लजी की रस-पद्धति के अनुन्वार रस, भाव, विभाव, अनुभाव आदि की विवेचना पाश्चात्य शैली से करते हैं। अर्थात् उनका विवेचन रूढि-रूप में न करके मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही करते हैं।

आलोचना की आलोचना

इनका सबसे बड़ा गुण न्याय-मङ्गल निष्पत्तता है। इनमें शुक्लजी की-सी गम्भीरता और घनता नहीं है, अतः उनकी शुष्कता और हठवादिता भी नहीं है। यह आलोचना कभी-कभी किताबी हो जाने से जीवन से दूर पड जाती है।

यही शास्त्रीय पद्धति कुछ स्वतन्त्र भावुक लेखकों में एक नवीन-रूप धारण कर लेती है। उपर्युक्त लेखकों का आधार और विवेचन दोनों ही साहित्यिक हैं, इनका आधार प्रधान रूप से दार्शनिक है; और विवेचना में चिन्ता, कल्पना और भावुकता तीनों का योग रहता है। अतः यह आलोचना बहुत अंशों तक सृजनात्मक है। इसमें वस्तु का तार्किक विश्लेषण नहीं होता, परन्तु काव्य के अन्तर में प्रवेश करने वाली एक नुकीली दृष्टि प्रायः मिलती है। साहित्य को ये विद्वान् एक चिरन्तन सत्य मानते हैं। जिसकी अन्तर्धारा युग-युग की आत्मा में होकर निरवच्छिन्न बहती है। युग-धर्म का प्रभाव केवल उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप पर ही पडता है, आत्मा का शुद्ध-बुद्ध रस प्रभावातीत है। इसलिए साहित्य का युग धर्म से सहज-सम्बन्ध मानते हुए भी ये उम्हको केवल युग-धर्म की सृष्टि नहीं मानते ये लोग जिस सिद्धान्त को लेकर चलते हैं वह अत्यन्त गहन, सूक्ष्म और मौलिक है। अतः उसके लिए अन्तर्वेशिनी तत्त्व-दृष्टि सर्वथा अनिवार्य है। साथ ही, जिस आधार पर ये आलोचक खड़ा होना चाहते हैं वह निश्चित रूप से दृढ होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना विवेचन स्वच्छ और स्पष्ट नहीं हो सकता—उसमें एक विचित्र उलझन और लपेट आ जाती है। श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का भाषण मेरे कथन का जीवित प्रमाण है। श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, और रामनाथ 'सुमन' की आलोचनाओं में मूलाधार की यह एकता स्पष्ट है।

इस आलोचना-पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि वह वस्तु से प्रायः स्वतन्त्र हो जाती है और स्वभावतः फ़ार्म का तिरस्कार करती है।

इसी प्रवृत्ति की सीधी प्रतिक्रिया हमें हिन्दी के उन आलोचकों में मिलती है जो साहित्य को युग की सृष्टि और आवश्यकता मानते हैं। इनका दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक (भौतिक) है। मार्क्स का यह सिद्धान्त कि मानव मस्तिष्क की प्रत्येक क्रिया की व्याख्या पदार्थ के अनुसार की जा सकती है, इनका मौलिक आधार है। ये जिस प्रकार व्यक्ति को समाज की सृष्टि और

आलोचना की आलोचना

उसका एक अविभाज्य अंग मानते हैं, इसी प्रकार माहिन्य को भी समाज-शास्त्र के मानदण्ड से परखते हैं। स्वभाव से, इनके दृष्टिकोण में सघन बौद्धिकता है; भावुकता—कम-से-कम भावावेश का पूर्णरूप में बहिष्कार है। विदेश के आधुनिक साहित्य और उसकी वर्तमान बुद्धि-पूजा का इन लोगों पर गहरा प्रभाव है, और ये आलोचक स्वयं उन प्रवृत्तियों का अच्छा ज्ञान रखते हैं। अभी इनका साहित्य परिणाम में बहुत क्षीण है। परन्तु वह कुछ ऐसी बौद्धिक शक्ति लेकर आया है कि लोग चौंक-से पडे हैं। हिन्दी में यह 'प्रगति' की ही चेतना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। अज्ञेय, रामविलास और शिवदानमिह चौहान के फुटकर लेख इस प्रकार की आलोचना का पुरस्कार हैं। इनकी आलोचना का दोष उनकी एकांगिता है। उदाहरण के लिए देखिये रामविलास शर्मा का शरच्चन्द्र पर लिखा हुआ लेख।

चौथी श्रेणी में—(यह श्रेणी 'तोष श्रेणी' नहीं है)—ये आलोचक आते हैं जिनको हम प्रभाववादी कह सकते हैं।

इन आलोचकों का ध्येय विश्लेषण या अन्तर्प्रवृत्तियों की गवेषणा नहीं होता। किसी ग्रन्थ अथवा कृति को पढकर इनके मन पर जैसा प्रभाव पडता है, उसको वैसा ही अङ्कित कर देना इनकी विशेषता है। यह आलोचना अपने मूल रूप में फैशनेबिल है और एक अत्यन्त संस्कृत रुचि और सूक्ष्म-कोमल पकड की अपेक्षा करती है; तभी लेखक की धारणाएँ विश्वास-योग्य और कान्तिमान हो सकती हैं, तभी उनका महत्त्व है। यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की आलोचना अपने सुन्दरतम रूप में भी गहन, साज़, एवं क्रमबद्ध नहीं हो सकती : पाठक की उत्सुकता को जागृत करने के अतिरिक्त उसके ज्ञान में विशेष परिवृद्धि नहीं कर सकती। साथ ही इसमें निष्कपट मत-प्रदर्शन ही सब कुछ है, अतः ईमानदारी की भी बड़ी ज़रूरत है। अनधिकारियों के हाथ में पडकर—और ऐसा आज प्रायः हो रहा है क्योंकि आलोचना की यह पद्धति सबसे सीधी और सरल है—यह शैली विचोभ और घृणा उत्पन्न करती है।

इस प्रसंग में केवल एक ही नाम उल्लेख्य है—प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, जो सिद्धान्त-रूप से तीसरे वर्ग के सहयोगी होने पर भी व्यवहार में एकान्त प्रभाववादी हैं।

आज हमारी आलोचना इन्हीं सरणियों में होकर बह रही है।

आलोचना की आलोचना

कुछ परिदित रिसर्च और साहित्य-शास्त्र के विवेचन में भी परिश्रम कर रहे हैं। डाक्टर बड़थवाल की निगुण काव्य-सन्बन्धी खोज और डाक्टर माताप्रसाद, डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र, श्री सद्गुरुशरण अवस्थी की तुलसी-विषयक खोजें अपना महत्त्व रखती हैं। पर ये आलोचक प्रौढ पाण्डित्य के भार को लिए हुए रस को धारा से कुछ दूर चले जाते हैं।

साहित्य-शास्त्र में भी नवीन और प्राचीन तथा पाश्चात्य एवं प्राच्य रीति-शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा-बहुत चल ही रहा है। सुधांशुजी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, और इलाचन्द्र जोशी ने ऐडलर के मनोविश्लेषण की व्याख्या की है। ये दोनों व्याख्याएँ अपने प्रारम्भिक रूप में ही हैं; लेखक अपने विषय को अधिक सुथरा नहीं बना सके।

इधर स्वर्गीय प्रसादजी और सुश्री महादेवी ने काव्य और कला की भारतीय दृष्टि से सर्वथा मौलिक विवेचना की है। डा० भगवानदास तथा बाबू गुलाबराय ने भारतीय रस-शास्त्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और सुधांशुजी ने जीवन की पृष्ठ-भूमि पर काव्य के तत्त्वों का स्पष्टीकरण। प्रेमचन्दजी ने भी साहित्य और उसके कथा-भाग पर अत्यन्त सुथरे विचार प्रकट किये हैं।

इस प्रकार आज हिन्दी का आलोचना-साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। उपर्युक्त प्रमुख लेखकों के अतिरिक्त हिन्दी में ऐसे कई उदीयमान आलोचक काम कर रहे हैं जिनका भविष्य अत्यन्त उज्वल प्रतीत होता है। गत चार-पाँच वर्षों में हिन्दी-पाठक की विवेचना-शक्ति और उसका निर्णय कितना विवेक-मम्मत् एवं बुद्धि-परक हो गया है इसका अनुमान 'साहित्य-सन्देश', 'विशाल-भारत', 'हंस' और 'वीणा' के साधारण-से-साधारण लेख को पढ़कर ही किया जा सकता है।

आज केवल एक खतरा है—बढ़ती हुई एकांगिता का, जो दूसरे पक्ष की ओर असहनशील होती चली जा रही है। वस्तुतः विभिन्नता जीवन-प्राचुर्य की द्योतक है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। आलोचक रसज्ञ-व्याख्याता है। रस को ग्रहण करना और अपनी शक्ति एवं मेधा के अनुसार दूसरों को सुलभ करना ही उसका कर्तव्य-कर्म है। फिर वह नियामक या नियन्ता होने का दम्भ क्यों करे ?

आधुनिक काव्य के आलोचक

पहला चरण

[“इनके—छायावादी कवियों के—भाव सूटे, इनकी भाषा सूठी, इनके छन्द सूटे, इनके अलङ्कार सूटे... . !”]—

आधुनिक काव्य का आरम्भ १९२२-१९२३ से समझना चाहिए— जब प्रसाद, पन्त और निराला की कविताएँ प्रभूत संख्या में प्रकाशित होकर हिन्दी जनता का ध्यान बरबस आकर्षित करने लग गई थीं। यह द्विवेदी-युग का अन्तिम चरण था। इस समय काव्य का अधिनायकत्व उन लोगों के हाथ में था जो दृढ-नैतिक एवं शास्त्रीय मानों को मूल्यांकन का साधन बनाए हुए थे। द्विवेदीजी स्वयं, पं० पद्मसिंह शर्मा और ला० भगवानदीन इनमें मुख्य थे। ये विद्वान् सामाजिक क्षेत्र में भारतीय नीति-शास्त्र को जिस दृढता से पकड़े हुए थे, काव्य-क्षेत्र में भारतीय साहित्य-शास्त्र का आधार भी इनका उतना ही दृढ था। अभी विदेशी रीति-नीति से इनका सम्पर्क नहीं था और जो था भी केवल प्रतिक्रिया के रूप में ही। अतएव अपने को पूरे बल से पकड़े रहने के कारण, साथ ही दृष्टि-क्षेत्र सीमित होने से, इन उस्तादों में अतर्क्य आत्मविश्वास आ गया था जिसका उपयोग वे कठोरता से करते थे। ऐसी परिस्थिति में अपनी हीनता से संकुचित छायावाद का जन्म हुआ।

छायावाद के अन्तर्वाह्य-निर्माण में विदेश का प्रभाव अति स्पष्ट था। अतः इस नवजात शिशु को दोगला समझकर नीति-विशारदों ने चारों ओर से उस पर प्रहार किये। बस, उसके जन्म, उसके शरीर, उसके रङ्ग-रूप, उसकी वसन-सजा को एकसाथ अवैध घोषित कर दिया गया। उस समय छायावाद का रूप अनिश्चित था। उसमें अति हो रही थी, यह सत्य है। परन्तु ये आत्म-विश्वासी विद्वान् उल्टे उस्त से उसकी हजामत बना रहे थे, इसमें भी सन्देह नहीं। अङ्गरेजी रोमांटिक कविता के—जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव छायावाद पर पड़ रहा था—स्वरूप, उसकी अनुभूति-अभिव्यक्ति एवं उसके महत्व से ये

आधुनिक काव्य के आलोचक

लोग अपरिचित थे; और पुराने साहित्य-शास्त्र के स्थूल नियमों द्वारा उसे परखने का अनुचित प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए पन्त को मधुर कोमल कला में, प्रमाद की गहरी जिज्ञासामयी अनुभूति में, अथवा निराला के निमुक्त कल्पना-प्रवाह में उन्हें कोई सौन्दर्य नहीं दिखाई दिया, यह आश्चर्य की बात नहीं।

इस युग में छायावाद की पीठ थपथपाने वाले आलोचक केवल मिश्र-बन्धु थे, जिनकी आलोचनात्मक दृष्टि चाहे जैसी अस्थिर रही हो पर व्यापक अवश्य थी। विदेशी साहित्य के अध्ययन से उनके मन में उदारता आ गई थी। इसी कारण वे नवीनता और विविधता का स्वागत करने की चमत्ता रखते थे। फिर भी आधुनिक काव्य की आलोचना का रूप अपने शैशव-काल में पूर्णतया भ्रान्त रहा।

दूसरा चरण

[“छायावाद की कविता में सबसे अधिक खटकने वाली बात उसके भावों की अप्रमादकता है। इस संसार के उस पार जो जीवन है उसका रहस्य जान लेना सबके लिए सुगम नहीं। पर इस कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं। समय के प्रभाव से जब यह प्रवाह संयत प्रणालियों में चलने लगेगा तब हिन्दी कविता का यह नवीन विकास बड़ा ही मनोरम होगा।”]—

इसके उपरान्त आचार्य शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दरदास और श्री पट्टमलाल पुष्पालाल बखशी ने आलोचना-क्षेत्र में पदार्पण किया। इस समय तक छायावाद अपनी जड़े जमा चुका था। उसका यौवन अपनी रङ्गीली से जगमगा उठा था : पल्लव, परिमल, आँसू प्रकाशित हो चुके थे। फिर भी अभी वह नव-शिक्षितों की ही वस्तु थी, पण्डितों की नहीं। पण्डितों का भाव उनके प्रति स्नाँवरी का ही था; और यह भावना सूर्तिमन्त हो उठी थी आचार्य शुक्ल में, जिन्होंने बहुत शीघ्र ही इस युग की आलोचनात्मक शक्तियों को अपने में केन्द्रित कर लिया था।

शुक्लजी की प्रतिभा अपरिमेय थी। उनकी दृष्टि में अद्भुत गहराई, पकड़ में राजब की मजबूती, और प्रतिपादन में अपूर्व प्रौढता थी। साथ ही उन्होंने पाश्चात्य एवं पौरस्त्य साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन किया था।

आधुनिक काव्य के आलोचक

अतः उन्होंने जो छायावाद पर प्रहार किये वे काफ़ी ममक-वृष्कर किये । छायावाद पर पड़े हुए बाह्य प्रभावों के विषय में वे एक दम निर्भ्रान्त थे । उन्होंने विदेश की रोमांटिक कविता, सौन्दर्य-शास्त्र, अभिव्यञ्जनावाद, और बङ्गला के रवीन्द्रनाथ के प्रभावों का अपने ढङ्ग से विवेचन किया । शुक्लजी ने स्वदेश-विदेश की आलोचना-पद्धतियों का मनन करने के उपरांत अपने काव्य-सिद्धान्त स्थिर किये थे, जिन पर वे अन्त तक अटल रहे । ये सिद्धान्त यद्यपि अब तक के सभी सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक और तर्क-मङ्गल थे, परन्तु इनका मानसिक आधार नैतिकता के ऊपर ही टिका हुआ था । काग़्य यह है कि शुक्लजी के व्यक्तित्व का निर्माण बहुत-कुछ सुधार-युग में हो चुका था, अतः उनके ये संस्कार विदेशी शिक्षा-दीक्षा के बीच भी जड़ पकड़े रहे । यहाँ यह स्वीकार करना उचित होगा कि नीति (शिव) का मनोविज्ञान (सत्य) एवं सौन्दर्य-शास्त्र (सुन्दर) के साथ जितना गामञ्जस्य सम्भव था, उतना शुक्लजी ने कुशलता से एक मर्मज्ञ आचार्य की भाँति किया । फिर भी छायावाद तो एकदम अनीति (?) की राह पर था : वह तो काव्य को काव्य के लिए मानता था ! अतः आचार्य मरते दम तक उससे समझौता न कर सके ।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी आनुषङ्गिक कारण थे—

(१) शुक्लजी काव्यानन्द को एक निश्चित, साधारण अनुभूति मानते थे । इसके विपरीत छायावाद सौन्दर्यानन्द को एक स्वतन्त्र एवं असाधारण अनुभूति मानता था ।

(२) शुक्लजी काव्य के क्षेत्र में भी सगुणोपासक थे । वे व्यक्त एवं मूर्त अनुभूति को ही महत्व देते थे । परन्तु छायावाद में अमूर्त एवं अर्धव्यक्त अनुभूतियों का विशेष मान था, उन्में अवचेतन की प्रधानता थी ।

(३) शुक्लजी का दृष्टिकोण एकान्त बौद्धिक और विवेक-सम्मत था । छायावाद बौद्धिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, इसमें रहस्य और अद्भुत की जिज्ञासा थी जो कुछ अंशों में अवश्य विवेकशीलता की समझ से बाहर थी ।

(४) शुक्लजी काव्य-शक्ति के पूर्ण विकस्य के लिए जीवन-काव्य को ही उपयुक्त मानते थे; छायावाद स्फुट-गीतियों का भण्डार था ।

(५) छायावाद की अभिव्यञ्जना में भी असाधारणता, विशेष कर लक्षणा का दुरुपयोग, देखकर वे चिढ़ गये थे ।

आधुनिक काव्य के आलोचक

याद में मनन का प्रमाण-पत्र मिलने के उपरान्त आचार्य की दृष्टि तो बदली परन्तु दृष्टिकोण नहीं बदला। अतः छायावाद के कवियों की प्रशंसा भी उन्होंने अपने मिद्वांतों के ही अनुसार की। उन्होंने उनकी अनुभूति की अपेक्षा अभिव्यक्ति को ही अधिक दाद दी—ठीक जैसा मूर के साथ किया है। यही उनका विश्वास था, यही उनकी शक्ति थी।

शक्ति सर्वाङ्गीण नहीं होती : वह सर्वत्र ही अपना एकसा प्रभाव नहीं दिखा सकती। इस रूप में उसका देखना भी भूल है, उसकी तो घनता देखिये। आज यही बात न मोचकर हम लोग घनीभूत-पाण्डित्य उस आचार्य को 'रिप वॉन विकिल' आदि उपाधियां प्रदान कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दे रहे हैं। अन्यत्र रूप में चाहे शुक्लजी ने आधुनिक काव्य का मागविरोध किया हो, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में उनका प्रभाव स्वस्थ ही रहा। निराज्ञा और प्रसाद जैसे शक्ति-स्रोतों में निश्चिन्त इस छायावाद-प्रवाह को उचित गति और स्थिर बंग देने के लिए आचार्य शुक्ल जैसे चट्टान की ही आवश्यकता थी।

बाबू श्यामसुन्दरदास में समझौते की प्रवृत्ति आरम्भ से ही रही है। इसका कारण है उनका अपेक्षाकृत विस्तृत कार्य-क्षेत्र। बाबूसाहब ने कृपा-पूर्वक इन कवियों का उल्लेख अपने इतिहास में किया और बहुत ही शिष्ट एवं विवेकयुक्त शब्दों में अपना आक्षेप भी व्यक्त किया :

“छायावाद की कविता में सबसे खटकने वाली बात उसके भावों की अप्रामादकता है। इस संसार के उम्र पार जो जीवन है उसका रहस्य जान-लेना सबके लिये सुगम नहीं है। दार्शनिक मिद्वांतों की अनुभूति भी सब का काम नहीं।”

बाबूसाहब का यह दृष्टिकोण उस समय के भ्रान्त दृष्टिकोण का दर्पण है। सचमुच उस समय तक आलोचक छायावाद और रहस्यवाद के बीच अन्तर स्पष्ट नहीं कर सके थे। उन्हें यह भी निश्चित नहीं था कि दोनों में अन्तर है भी या नहीं। प्रायः छायावाद को रहस्यवाद से एक रूप करते हुए वे लोग उसको विकृत रूप में देख रहे थे। हरिऔधजी लिखित 'नीहार' की भूमिका इसका प्रमाण है। साथ ही कवि स्वयं भी रहस्यवादी आवरण का मोह-पूर्वक धारण करना चाहते थे। सचमुच यह भ्रम बहुत दूर तक चला है। अभी कुछ दिन पूर्व ही अपने एक रहस्यवादी मित्र को यह कहते हुए सुनकर मैं दंग रह

गया कि आपको कैसे मालूम कि हमारे जीवन में साधना नहीं है ? ऐसी दशा में उस समय के विद्वान्, जो काल-सीमाओं से आवद्ध थे, यदि इन रेखाओं को स्पष्ट न कर सके तो क्या आश्चर्य !

इन्हीं दिनों बख्शीजी भी साहित्य-क्षेत्र के मध्य में आसीन थे । बख्शीजी का विदेशी साहित्य का व्यापक अध्ययन था । वैसे तो यह विशेषता पिछले दो विद्वानों में भी थी, परन्तु उनकी अपेक्षा बख्शीजी एक कदम और आगे बढ़ गये थे । उन्होंने विदेशी साहित्य की कल्चर को भी ग्रहण कर लिया था । इस कारण उनकी दृष्टि उदार थी, उसमें स्तौवरी नहीं रह गई थी । उन्होंने छायावाद के काव्य-गुण को पहचानते हुए ही उसका आदर किया, उसे आश्रय-मात्र नहीं दिया । परन्तु छायावाद और रहस्यवाद के अन्तर का स्वरूप बख्शीजी भी व्यक्त न कर सके, यद्यपि उसके अस्तित्व के विषय में इन्हे कोई भ्रम नहीं था ।

इस प्रकार दूसरे चरण में भी छायावाद की रूपरेखा स्पष्ट न हो सकी उसका मूल्यांकन तो दूर रहा । इस समय तक केवल एक ही लेख ऐसा लिखा गया था जिसका महत्व आज भी अक्षुण्ण है । यह थी स्वयं कवि पंत की लिखी हुई 'पल्लव' की भूमिका, जिसमें छायावाद के चालू उपादनों की—शब्द, व्याकरण, छन्द आदि की सुलझी हुई मौलिक व्याख्या थी । हिन्दी का आलोचक शब्दों की केवल अर्थ-व्यञ्जना से ही परिचित था । पंतजी ने हिन्दी में पहली बार उनकी स्वर-व्यञ्जना के रहस्यों का विवेचन करते हुए सौंदर्यालोचन में मौलिक श्री-वृद्धि की । छायावाद की कला के विवेचन में यह भूमिका सदैव ही आलोचकों की पथ-प्रदर्शिका रही है । अन्तरात्मा का विश्लेषण अब भी अछूता था ।

तीसरा चरण

[“इस (छायावाद) को हम पं० रामचन्द्र शुक्लजी के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली-विशेष नहीं मान सकेंगे । इसमें नूतन सांस्कृतिक मनोभावनाओं का उद्गम है और एक स्वतन्त्र दर्शन की नियोजना भी । पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्टतः पृथक् अस्तित्व और गहराई है ।”]

छायावाद अब एक व्यापक प्रभाव था । उसका जाड़ हरिऔध और

आधुनिक काव्य के आलोचक

मैथिलीशरण के मर पर चढ़कर बोल रहा था। अब उसे आलोचकों के कृपा-कटाक्ष को अपेक्षा नहीं थी। अब तो आलोचक स्वयं उसी के सहारे अपनी शक्ति आत्माने को अभिलाषा करते थे। प्रसाद और पंत की सर्व-मान्यता अस्पृश्य थी—प्रसाद की, उनकी कृष्ण अनुभूति भाव-विलास के कारण; और पंत की, उनकी सूक्ष्म-कोमल माधुरी एवं कला-विलास के कारण। महादेवी ने गीति-शैली को अपना लिया था। अनसुधे लोक-गीतों के ढाँचे में नवीन भावना और नवीन रूप-रङ्ग भरकर उन्होंने हिन्दी-संसार को मोह-मुग्ध कर लिया था। निराला का स्थान इस समय तक संदिग्ध था। उनकी अबाध प्रतिभा एवं एकान्त विरोधी स्वर अभी लोगों के हृदय में नहीं बैठ सके थे—यद्यपि कुछ लोग आतङ्कित अवश्य हो गए थे।

तभी श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का शुभागमन हुआ। हिन्दी का यह पहला आलोचक था जिन्होंने निर्भीक और निर्भ्रान्त होकर छायावाद के महत्त्व को स्वीकृत और अधिष्ठित किया। वाजपेयीजी ने छायावाद का पृथक् रूप देखा और प्रसाद एवं निराला की आलोचना करते हुए उसकी मानसिक भूमि का विश्लेषण किया। वाजपेयीजी गम्भीर आलोचक हैं। उन्होंने गहरे में जाकर अन्ततत्त्वों का ग्रहण करने का प्रयत्न किया; और उनके परिश्रम के फल-स्वरूप—यद्यपि बहुत बाद में—कुछ स्थायी तत्व भी प्राप्त हुए :

(१) आधुनिक छायावादी दृश्यमान मानव-जीवन को ही लक्ष्य मानकर उनकी अलौकिकता की भाँकी देखते हैं। रहस्यवाद के दो रूप हैं : एक परोक्ष (सूक्ष्म) रहस्यवाद, दूसरा प्राकृतिक (अपरोक्ष) रहस्यवाद। आज का रहस्यवाद प्रायः दूसरे प्रकार का ही है।

(२) छायावाद की मौन्दर्य-कल्पनायें प्रधानतः अशरीरी हैं।

परन्तु इनके विवेचन में एक दोष था। इन्होंने छायावाद के ऊपर दार्शनिक आवरण इतना अधिक चढ़ा दिया कि न तो वह स्वयं ही अपना आशय चित्कुल स्पष्ट कर सके और न छायावाद ही उम्को वहन कर सका। इसका कारण यह था कि इन्होंने छायावाद की अधिकांश मूल-प्रवृत्तियों का उद्गम प्रसादजी की तरह भारतीय दर्शन को ही माना, विदेशी रोमांटिक स्कूल और इंग्लिश युग की सामाजिक कुण्ठाओं का—विशेषकर सेक्स-सम्बन्धी कुण्ठाओं का—प्रभाव यह उचित मात्रा में स्वीकार न कर सके। इसके अतिरिक्त कला-पक्ष में इन्हें जैसे कुछ कहने को ही नहीं था।

आधुनिक काव्य के आलोचक

इनके कुछ समय बाद ही अपनी भावुकता के भार से दबे हुए शान्ति-प्रिय आये। यह सीधे कवि-लोक से आ रहे थे, कुण्ठित परिस्थितियों ने इनकी वृत्तियों को एकदम अन्तर्मुखी कर दिया था। अतः इनकी प्रभाव-प्राहिणी शक्ति अत्यधिक तीव्र और उसके परिणाम-स्वरूप उनकी भाव-प्रतिक्रियाएँ सूक्ष्म और नुकीली हो गई थी। छायावाद के अनुभूति-पक्ष का इन्होंने मार्मिक विवेचन किया और बहुत-कुछ इनकी ही कृपा से सबसे पहले हिन्दी वाले छायावाद की उर्मिल भावनाओं एवं सौन्दर्य-चित्रों का समझ सके। किसी लेखक ने—शायद आचार्य जानकीवल्लभ ने—इनकी आलोचना को गीतमयी कहा है। मैं समझता हूँ, उसका विवेचन इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। वस, यही उनकी शक्ति है और यही सीमा। लिरिकल होने के कारण शान्ति-प्रियजी की भावनाएँ तरल है : यह उनकी शक्ति है। उनके विचार भी उतने ही तरल है : यह उनकी सीमा है। इसलिए शान्तिप्रियजी आधुनिक युग के काव्य, विशेषकर छायावाद के रस का आस्वादन तो करा सके लेकिन उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं कर सके।

उपयुक्त दोनों विद्वानों की आलोचना रोमांटिक आलोचना थी। हिन्दी में अभी वह समय नहीं आया था कि लोग रोमांटिक कविता के साथ रोमांटिक आलोचना को भी समझ और पढ़ सकें। कविता के विषय में तो उनकी परम्परागत धारणा पराजय स्वीकार कर चुकी थी। परन्तु समालोचना भी कविता की भाँति दुरूह हो यह वे एकदम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अतएव छायावादी आलोचना या उडती आलोचना कहकर पण्डित-समाज उसकी उपेक्षा कर रहा था।

इसी समय कुछ आगे-पीछे शास्त्रज्ञ पण्डितों की एक टोली भी इसी ओर मुड़ी। इनमें पण्डित हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाबराय और पण्डित कृष्णाशङ्कर शुक्ल मुख्य थे। हज़ारीप्रसादजी एकदम क्लासिकल विद्वान् हैं। उनका संस्कृत-साहित्य का अध्ययन गहन और विस्तृत है। साथ ही उनको शान्ति-निकेतन के साहित्यिक वातावरण में रहकर अपने पाण्डित्य का संस्कार करने का अवसर भी मिला है। अतएव प्राचीन और नवीन दोनों के उचित संयोग से द्विवेदीजी की आलोचना की आधार-भूमि अत्यन्त दृढ़ हो गई है। आज से छः सात वर्ष पूर्व इन्होंने 'विशालभारत' में नवीन काव्य-ग्रन्थों की आलोचना करते हुए आधुनिक काव्य का विवेचन किया था। यह विवेचन परिमाण में

आधुनिक काव्य के आलोचक

यद्यपि अन्यन्त अपर्याप्त था, परन्तु पिछले दोनों आलोचकों की अपेक्षा पुष्ट एवं सुथरा था। साथ ही शास्त्रीय होने के कारण हिन्दी-पाठकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। लोग मोचने लगे : छायावाद शास्त्र-सम्मत भी है।

वास्तव में द्विवेदीजी की प्रतिभा का विकसन बाद में हुआ और उनका क्षेत्र भी कुछ बदल गया। अतएव आधुनिक हिन्दी-काव्य पर उनका आभार अपेक्षाकृत कम है।

तभी बाबू गुलाबराय ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। बाबूजी हिन्दी के पुराने विद्वान् हैं—एकदम उत्तर-द्विवेदी-कालीन ! वे उम्र समय से बहुत पहले ही दर्शन, निबन्ध एवं रस-शास्त्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। अतः उनके चक्रव्यो को लोगों ने श्रद्धा से पढ़ा। बाबूजी ने छायावाद के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करने में यथेष्ट योग दिया। उनका—शायद इन्दौर साहित्य-सम्मेलन में पढ़ा हुआ—‘हिन्दी कविता में रहस्यवाद’ शीर्षक लेख आधुनिक काव्य के विचार-पक्ष का प्रौढ समर्थन था। आधुनिक कवियों की अनन्त और असीम विषयक विज्ञान की वह एक अच्छी नफाई थी। उसके कुछ दिन बाद फिर उन्होंने अपने सुबोध इतिहास में नवीन कविता-धारा की तुलना और विस्तृत व्याख्या उपस्थित की जो अपना पृथक् अस्तित्व रखती है।

आधुनिक काव्य की पूर्ण प्रतिष्ठा तब हुई जब कृष्णशङ्कर शुक्ल ने अपने इतिहास में उसका अत्यन्त महदयता-पूर्वक विवेचन किया। यह ठीक है कि कृष्णशङ्करजी ने तो छायावाद का रूप ही स्पष्ट कर पाये हैं और न नवीन कविता की अन्य चिन्ता-धाराओं का ही सम्यक् विश्लेषण कर सके हैं। प्रवृत्तियों का विश्लेषण उनके इतिहास की सबसे बड़ी त्रुटि है। परन्तु चिर-उपेक्षित आधुनिक कवियों की प्रतिभा को स्वीकार करने वाले शुक्ल-स्कूल के यह पहले विद्वान् थे। पृथक् रूप में प्रसाद, पन्त और निराला की कविता की उन्होंने शास्त्रीय ढङ्ग पर विस्तृत आलोचना की और इसमें सन्देह नहीं कि परिदल-समाज में इन्हे आदर प्राप्त कराने का श्रेय बहुत-कुछ कृष्णशङ्करजी को ही है।

इस प्रकार तीसरे चरण में एक बड़ी मंजिल तय हुई। आधुनिक काव्य पर काफी सोचा और समझा गया। नन्ददुलारे वाजपेयी ने उसके मानस-पक्ष का, बाबू गुलाबराय ने विचार-पक्ष का और शान्तिप्रिय द्विवेदी ने हृदय-पक्ष का सुन्दर और प्रौढ विवेचन किया। कला-पक्ष भी उपेक्षित न रहा।

आधुनिक काव्य के आलोचक

प्रतिनिधि कलाकार पंत की सौन्दर्य-दृष्टि का विश्लेषण हुआ। साथ ही, सत्येन्द्रजी ने गुप्तजी की कला का सूक्ष्म विवेचन किया और श्रीयुत सुधांशु ने नई कविता की अभिव्यञ्जना-पद्धति की कोच्चे के आधार पर व्याख्या की।

संक्षेप में आलोचना के तीसरे चरण का उत्तराधिकार यह है :

(१) हिन्दी में रोमांटिक आलोचना का जन्म हुआ। अब तक अधिकतर वस्तुगत विवेचन का प्राधान्य था। अब भावगत विवेचन भी आरम्भ हुआ और आलोचना स्पष्ट रूप में सृजनात्मक अतपुत्र सरस होने लगी।

(२) युग-युग के अंतर में बहती हुई चिरन्तन जीवन-धारा से साहित्य का सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसकी इसी रूप में व्याख्या की गई।

(३) अनुभूतियों का विश्लेषण होने लगा। अवचेतन और अर्धचेतन की भी अथाशक्ति छानबीन होने लगी।

(४) कला का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आरम्भ हुआ। अभिव्यञ्जना और अनुभूति का सीधा सम्बन्ध समझा गया।

चौथा चरण

[“संक्षेप में, पूँजीवादी समाज की वास्तविकता ने इन छायावादी कवियों को इतना अहंवादी, आत्मापेक्षी, समाज-विरोधी और व्यक्तिवादी बना दिया है कि वे अपने असन्तोष का अस्त्र भी फेंक चुके हैं। उनका मैं, उनकी अन्तर्प्रेरणायें, सामूहिक व्यक्तित्व का मैं या समाज के द्वारा ग्रहण की गई अन्तर्प्रेरणायें नहीं रहीं।.....”

खेद केवल इस बात का है कि जीवन और स्वतन्त्रता की आवश्यकता की चेतना के अभाव ने उनकी चिर-अधीरता और चिर-असन्तुष्टि का दुरुपयोग कर, उनमें अपने जीवन की निरर्थकता में साँकता का आभास प्रदान करने वाली निरर्थक कला के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर दी है।”]

१९३७-३८ से छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई। यहाँ से हमारा चौथा चरण आरम्भ होता है।

इस प्रतिक्रिया के साहित्यिक और सामाजिक कारण थे। साहित्यिक कारण था छायावादी अनुभूतियों की तरल सूक्ष्मताएँ, जिनके परिणाम-स्वरूप उममें रक्त-मांस की कमी हो रही थी। सामाजिक कारण था जीवन में

आध्यात्मिक और सूक्ष्म-संस्कृत के विरुद्ध भौतिक और स्थूल-प्राकृत का आह्वान, अर्थात् गाँधीवाद को समाजवाद का चैलेञ्ज । इस आह्वान की अभिव्यक्ति हुई प्रगतिवाद ।

प्रगतिवाद अपने स्वरूप में ही आलोचनात्मक है : इसका दृष्टिकोण शैक्षिक है । अतएव इसको जन्म से पूर्व ही आलोचना का वरद-हस्त मिला गया । छायावाद जहाँ अपनी हीनता से मफ़ाई देता हुआ—शान्तिप्रिय द्विवेदी की तरफ—आया था वहाँ प्रगतिवाद श्रेष्ठता के गर्व से उन्मत्त प्रचलित विश्वासों को फटकारता हुआ आया । फिर भी यह निर्विवाद है कि प्रगतिवाद आज की जीवित शक्ति है, यद्यपि इसका स्वरूप अभी स्थिर होना है । आज की प्रगति-कविता नवमं अधिक कवि पन्त की ऋणी है, जिनके व्यक्तित्व के द्वारा उसे गौरव मिला । आलोचना के क्षेत्र में भी उनका आभार गहन है । नवमं पूर्व उनके ही 'रूपाभ' से लिखे सम्पादकीयों ने भौतिक एवं स्थूल की उपादेयता को सुनिश्चित गाम्भीर्य के साथ व्यक्त किया और साहित्यिक मानों में नवमं की माँग के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता पर श्ल दिया । इसके अतिरिक्त उनकी 'युगवाणी' और 'जाम्बू' की अनेक कविताएँ स्वयं प्रगति की प्रौढ विवेचना हैं ।

'रूपाभ' के साथ ही 'हंस' ने बलपूर्वक प्रगति का आँचल पकड़ा । 'हंस' को स्वर्गीय प्रेमचन्दजी अपने अन्तिम दिनों में बहुत-कुछ प्रगतिशील सामग्री दे गये थे । 'हंस' ने उसे परिश्रम में मँजोये रखा और धीरे-धीरे अपने स्टैण्डर्ड को मज़बूत किया ।

हिन्दी में प्रगतिशीलता की पुकार होते ही वह अपना निश्चित दृष्टिकोण लेकर सामने आ गया । अनेक लेखकों ने उसमें प्रगति की आवाज़ उठाई और लेखों की ऋडी लगाई । परन्तु प्रारम्भिक प्रयत्न होने के कारण उनमें उत्साह और भाव-बल तो था, परन्तु विश्लेषण का एकदम अभाव था । अभी तक वे लेखक प्रगति की कविता को राष्ट्रीय कविता से पृथक् कर के नहीं देख सके थे । यही कारण है कि उस समय प्रगति की परिधि में मैथिली बावू भी आ जाते थे, जब कि आज वे घोर प्रतिक्रियावादी समझे जाते हैं । अतएव इन लेखकों के द्वारा प्रगति की रूप-रेखा तो न बन पाई परन्तु उसका प्रचार अवश्य हुआ, जिसके लिए वह सबसे अधिक आभारी है प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त की । इनकी नवीन-प्रिय संस्कृत रुचि और निष्कपट उत्साह ने प्रगति

आधुनिक काव्य के आलोचक

को यथेष्ट सम्मान दिया, और इनकी कृपा में कुछ हाथ-पैर मारते हुए दक्खि बाहर प्रकाश में भी आये। फिर भी प्रगति की सीमाएँ निर्धारित करने वाले पहले आलोचक हैं शिवदानसिंह चौहान।

ऐसा मालूम पड़ता है कि चौहानजी ने काफी दिनों तक चुपचाप विदेशी प्रगति-साहित्य का, विशेषकर उसके आलोचना-भाग का, अध्ययन करने के उपरान्त हिन्दी में लिखना आरम्भ किया। इसलिए इनके प्रारम्भिक वक्तव्यों में ही निश्चय और विश्वास मिला। इन्होंने ही सबसे पहले प्रगति के तत्त्वों का विश्लेषण कर उसकी सामाजिक चेतना एवं दार्शनिक आधार को स्पष्ट करते हुए उनका भौतिक व्याख्यान किया। शिवदानसिंहजी का साहित्य परिमाण में अत्यन्त स्वल्प है, इनके लेखों का प्रकाश-स्तम्भ कहना वर्गोत्साह में आकर हिन्दी के आलोचना-साहित्य का अपमान करना है। एक तो इनकी व्याख्या विदेशी साहित्य से परिचित व्यक्ति के लिए पूर्णतः नवीन नहीं है, दूसरे उसमें अभी वस्तु के विश्लेषण के साथ सिद्धान्त का आरोप भी काफी है, और तीसरे वह एकदम एकांगी है। परन्तु यह मानना अनिवार्य है कि उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर एवं विश्वास अतर्क्य है। साथ ही प्रगतिवर्ग के अन्य आलोचकों की अपेक्षा उनमें कहीं अधिक विवेक और उदारता है जो उनके आत्म-विश्वास की द्योतक है।

आलोचना में मार्क्स के दृष्टिकोण को इन से कुछ पूर्व अज्ञेय और रामविलास शर्मा ग्रहण कर चुके थे। इन दोनों में एक बात समान है। वह यह कि ये क्रान्ति के समान ही परम्परा के भी भक्त हैं। अज्ञेय के लेखों का संग्रह 'त्रिशंकु', जिसमें उन्होंने भौतिक आधार पर ही आधुनिक कला और साहित्य का विवेचन किया है, आज तीन-चार वर्षों से प्रेस के कक्ष में सुरक्षित है। अज्ञेय में सूक्ष्मता के साथ शक्ति भी है। इनका यह दोष है कि कभी-कभी ये टेकनीक के मोहवश या कुछ बहुत गहरी और नयी बात कहने के प्रयत्न में अपनी ही निविडता में उलझ जाते हैं। रामविलास की आलोचना उनके व्यक्तित्व के समान ही दृढ़, खरी और कुछ खड़ी भी होती है। आज उनके जो लेख निकल रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी प्रवृत्ति विश्लेषण की जटिलताओं में न पडकर, जैनेन्द्रजी की शब्दावली में, दो-दूक बात कहने की ओर होती जा रही है। वास्तव में तो अपने व्यक्ति-वाद के कारण अभी प्रगति की सीमा-रेखा पर ही खड़े हैं, परन्तु रामविलास ने अब प्रगतिवाद का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया है।

आधुनिक काव्य के आलोचक

इन लोगों के द्वारा प्रगतिवाद का प्रतिपादन और छायावाद का विरोध उग्र रूप में हो रहा है ।

छायावाद के विरुद्ध किये गये आक्षेपों का समाधान सुश्री महादेवी वर्मा ने अपनी भूमिकाओं और 'चितन के क्षणों में' द्वारा किया है, जिनमें साहित्य के अनानुगत सिद्धान्तों के आलोक में आधुनिक-काव्य की गति-विधि का विश्वस्व रूप में परखा गया है । आज पल-पल परिवर्तिक मानों के चक्कर में गंवा हुआ साहित्य का विद्यार्थी उनके द्वारा वाञ्छित स्थिरता प्राप्त कर सकता है । आलोक-स्तम्भ आज इन्हे कहा जा सकता है ।

हमारे चौथे चरण का अभी पहला निक्षेप है । परन्तु, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, प्रगति का मूल ही आलोचनात्मक है । अतएव इन दो-तीन वर्षों में ही उसके प्रभाववश हिन्दी-आलोचना में स्फूर्ति आ गई है । प्रगतिवाद की सबसे बड़ी देन है मार्क्स का दृष्टिकोण । साहित्य की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन स्वयं मनोरंजक है—उसके द्वारा साहित्य की अन्त-वृत्तियों पर एक नवीन प्रकाश पड़ता है । प्रगति का दूसरा शुभ प्रभाव यह हुआ है कि आलोचना में बौद्धिकता की शक्ति आ गई है, जिससे विश्लेषण का गौरव बढ़ने लगा है । विश्लेषण में अभी प्रायः मार्क्स की ही सहायता ली जा रही है, फ्रायड की अन्तर्प्रवेशिनी दृष्टि अभी हिन्दी को नहीं मिली । परन्तु कुछ आलोचक उदात्त प्रवृत्तियों वाले अवश्य हैं, और हमारा विश्वास है कि मार्क्स और फ्रायड का संयुक्त, त्रिविध युक्त—क्योंकि बिना इसके भयङ्कर छीछालेदार की सम्भावना है—उपयोग हिन्दी साहित्य के सूक्ष्मतम तत्वों को प्रकाश में ले आयेगा ।

वाणी के न्याय-मन्दिर में

स्थान

काव्य-लोक जिनका प्रचलित नाम ब्रह्मलोक भी है

पात्र

ज्ञानशङ्कर	प्रेमाश्रम का नायक	वादी
प्रेमचन्द	प्रेमाश्रम के रचयिता	प्रतिवादी
मनोहर	प्रेमाश्रम का पात्र	
भगवती वीणापाणि	काव्य-लोक की अधिष्ठात्री	न्यायालयाध्यक्षा
न्याय-मन्त्री,	महाप्रतिहार	आदि

रङ्ग संकेत

[काव्य-लोक में विचार-सभा का मण्डप, प्राचीन भारतीय शैली का बना हुआ। मण्डप के मूर्धन्ध में एक रत्न-जटित मराल-सिंहासन जिस पर शश्वसना, भगवती वीणा-पाणि विराजमान हैं। वीणा-पाणि चिर-यौवना सुन्दरी हैं। उनका मुख-मण्डल प्रशान्त आनन्द से दीप्त है और अङ्गों में जैसे काव्य का रस घनीभूत हो गया है।

उनसे कुछ ही हटकर वाम पार्श्व में काव्य-लोक के न्यायमन्त्री की स्वर्ण-आसन्दी है। न्यायमन्त्री परिपक्व अवस्था के व्यक्ति हैं। उनकी रस-स्निग्ध दृष्टि में बुद्धि का आलोक है।

उनसे लगभग पाँच हाथ की दूरी पर दो चाँदी की आसन्दियाँ पड़ी हुई हैं। एक पर मूर्खों में हँसते हुए उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द विराजमान हैं, दूसरी पर मुद्रा में क्रोध लिए हुए ज्ञानशंकर।

सभा-मण्डप में चारों ओर आसन्दियों की पंक्तियाँ सजी हुई हैं, जिन पर असंख्य दर्शक-समाज बैठा हुआ निर्निमेष नेत्रों से इस अद्भुत विचार-दृश्य को देख रहा है।

[× × × ×]

ग़ाणी के न्याय-मन्दिर में

कुमाराभाय—राजराजेश्वरी भगवती वीणापाणि की जय हो ! कल्याणी के विचारालय में मर्त्यलोक-निवासी ज्ञानशङ्कर ने श्री श्री परमादरणीय महाप्रतिभ पृत-दृष्टि उपन्यास-महारथी श्री प्रेमचन्द्र के विरुद्ध कतिपय गम्भीर अभियोग उपस्थित किए हैं । आज उन्हीं पर विचार करने का दिन है । आशा हो तो वादी ज्ञानशङ्कर को श्रीचरणों में स्वयं प्रार्थना करने का अवसर दिया जाय ।

वीणापाणि—वादी अपना अभियोग उपस्थित करे ।

ज्ञानशङ्कर—राज-राजेश्वरी परमपट्ट-महिषी भगवती वीणापाणि की जय हो ! भगवती, मैं श्री प्रेमचन्द्र का भाव-जात हूँ । इसके लिए मुझे उनका कृतज्ञ होना चाहिए, परन्तु उन्होंने जो जन्म में ही लीरे विरुद्ध अत्याचार, अन्याय और पक्षपात किया है उसके कारण मैं जीवन-भर अनेक यातनाओं का—निंदा, पातक और अयफलताओं का भागी रहा । उन्होंने मेरे स्त्री, पुत्र, भाई, प्रजा सभी को मेरे विरुद्ध प्रोत्साहित किया और अन्त में मुझे आत्महत्या जैसे महाभियाप को भोगने के लिए बाध्य किया । अब मैं अपने अभियोगों को क्रमानुसार उपस्थित करता हूँ ।

उपन्यास-मन्त्राद् का सबसे बड़ा दोष यह है कि वे यथार्थवादी कलाकार होने का दम्भ करते हुए भी भयङ्कर आदर्शवादी—अथवा यों कहे कि आदर्श-भीरु—हैं । विश्व के अन्य महान् स्रष्टाओं की भाँति उनका जीवन के तथ्य पर अधिकार नहीं है, वे तथ्य-दर्शन का पूरी तरह नहीं समझते । सभी तो वे सम्पूर्ण जीवन के साथ, उसकी समस्त विषमताओं के साथ समझौता करने में असमर्थ रहे हैं; और इसी कारण उनका दृष्टिकोण आदर्श-वादी अतएव एकांगी है । वे स्पष्ट रूप से एक ऐसे आदर्श-विधान में अन्ध आस्था रखते हैं जो पूर्णतः अव्यावहारिक और असङ्गत है । राजनीति के क्षेत्र में तो कम-से-कम जिसकी विफलता आज प्रत्यक्षतः सिद्ध हो चुकी है ।

इस काल्पनिक स्वप्नदर्शी विधान के पीछे प्रेमचन्द्रजी पग-पग पर कला का तिरस्कार करते हैं, वे बार-बार कलाकार के उच्च गौरव को भूलकर प्रचार के निम्न धरातल पर उतर आते हैं और एक सामान्य मञ्चवीर की तरह प्रॉपैगैण्डा करने लगते हैं । उन्होंने प्रेमाश्रम में एक ऐसी कठपुतली की सृष्टि की है जो सोलहो आने उनके इशारों पर नाचे । यह कठपुतली है प्रेमशङ्कर, जो गांधीवादी आदर्श—त्याग और अहिंसा का निर्जीव प्रतीक-मात्र है । इस

व्यक्ति से उपन्यासकार को इतना मोह है कि उसके चरित्र को उज्ज्वल रूप में उपस्थित करने के लिए ही उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को काले रङ्ग से भर दिया है। उन्होंने मुझ-जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व का वैपश्य के लिए ही उपयोग किया है। मेरे चरित्र की श्यामता प्रेमशङ्कर के व्यक्तित्व को उज्ज्वलतर रूप में प्रस्तुत करे यही मानों मेरा उपयोग है। इतना ही नहीं, उन्होंने नायक के गौरव को भी मुझ से छीनने का प्रयत्न किया है। प्रेमाश्रम का कथा-विकास साची है कि उसके सम्पूर्ण जीवन-क्षेत्र को मेरा ही महान् व्यक्तित्व आच्छादित किये हुए है। मैं ही उसकी प्रमुख घटनाओं का सूत्रधार हूँ। परन्तु अन्त में जाकर मात्र तौर से उपन्यासकार की नीयत दिग्गड गई है और बीच में ही मेरा गला घोटकर उमने प्रेमशङ्कर-जैसे दुर्बल व्यक्ति को नायक पद पर आसीन कर दिया है। उपन्यासकार मेरे प्रति इतना निराधार द्वेष का दोषी है।

मेरा दूसरा अभियोग, जो किसी अंश तक पहले अभियोग से ही सम्बन्ध है, यह है कि उपन्यासकार नीतिवादी है। वह स्थूल नीति-विधान में इतना अधिक विश्वास करता है कि मानव-चरित्र को समझने में भूल कर जाता है। साथ ही उसकी नीति भी आज पुरानी पड गई है। देश-काल के अनुकूल उममें शक्ति नहीं है। वह आज भी कर्म के सत-असत् होने की कसौटी उसके परिणाम को न मानकर हिंसा-अहिंसा को मानता है। आन्मार्थ आज भी उसकी दृष्टि में भयङ्कर पाप है, आज भी वह सारे समाज को त्याग और तपस्या का पाठ पढाने का साहस करता है। इसका परिणाम यह है कि वह फूँक-फूँककर पैर रखनेवाले नीति-वादियों को ही गौरव का भागी सम्भक्तता है; मुझ-जैसे जीवट के आदमी के चरित्र-बल को समझने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। अतएव उमने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए मेरा पग-पग पर अपमान किया है।

मेरा तीसरा अभियोग यह है कि कलाकार के उच्चासन के लोभी ये महाशय मनोविज्ञान के इस युग में भी काव्य-न्याय में विश्वास करते मालूम पडते हैं; परन्तु न्याय की भी इनकी परिभाषा अत्यन्त संकुचित और एकांगी है। इनको अपने विचारों के प्रति अनुचित पक्षपात है। ये इतने असहिष्णु हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनमें सहमत नहीं है तो वह निश्चय ही उनकी दृष्टि में घोर पापी और इस कारण दण्डनीय है। इसीलिए जिस किसी को भी वे अपने सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने में असमर्थ रहते हैं उसी पर इनके न्याय-दण्ड का निर्मम प्रहार होता है। अपने जीवनादर्श महात्मा गांधी की भाँति

ये भी पुनर्लियां से चलना चाहते हैं, स्वतन्त्र विचारशील सबल व्यक्तित्वों को सहन नहीं कर सकते। उपन्यास के सभी व्यक्तियों को इन्होंने उचित या अनुचित रूप से अपनी नीति का मानने के लिए विवश किया है। मेरा और मनोहर का बर्णन अपराध था कि हमने उनकी हृदय क्लीव नीति का विरोध किया। वन, इन्हींलिए हमको कठिन दण्ड भोगना पड़ा।

मेरा चौथा अभियोग यह है कि श्री प्रेमचन्द महादेव ने द्वेष से अन्धे हो कर मेरे चरित्राचन में जिस शैली का अनुकरण किया है, वह जितनी अनुचित है उतनी ही प्रत्याभाषिक भी। उनका उद्देश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या अस्वाभाविक नीति से मुझ का नीचा दिखाया जाय। इसके लिए वे बार-बार मेरे चरित्र का कालिमा का खूब गहरा रंग से लोगों के सम्मुख रखते हैं। ऐसा करते हुए उनके मन भी ध्यान नहीं रहता कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं। इन्हीं लिए नरे चरित्र-चित्रण से विरोधी तर्कों का अस्वाभाविक मिश्रण है। कारण यह है कि गांधीवादी होने के कारण प्रेमचन्दजी मानवात्मा की गहनतम परिवर्तता पर विश्वास करते हैं, दूसरी ओर सिद्धान्त-विरोधी होने व कारण सब उनका ही हृदय मेरे प्रति निर्मल नहीं है। उनको मेरे व्यक्तित्व से प्रेम है, इन्हींलिए सिद्धान्त की भाँक में बार-बार मेरे चरित्र का शुभ्र पहलू दिखाने को प्रयत्न करते हुए भी उनकी लेखनी उनके हृदय की प्रेरणा से तुरन्त उसके कलुष को ही प्रिथित कर उठती है। लेखक ने कहीं भी मेरे हृदय की कोसल धुनियों का उभरने नहीं दिया। इतना ही नहीं वे सदैव मेरे प्रयत्नों के साथ खिलवाड़ भी करते रहे हैं। सफलता को उन्होंने मेरे जीवन की मृग-तृष्णा बना दिया है। मैं अपने चरित्र और बुद्धिबल के सहारे जीवन-संघर्ष में विजय प्राप्त करता हूँ, परन्तु दुर्दैव की भाँति पीछे पड़ा हुआ यह मेरा भाग्य-विधाता हाँडों के छूते-छूत ही प्याला छीन कर फेंक देता है। मुझ को विफल करने की धुन में वह प्रायः यह भी भूल जाता कि ऐसा स्वाभाविक भी है या नहीं—परिस्थितियों की गति उसके अनुकूल भी है या नहीं, इसकी उपन्यास-सम्राट् को चिन्ता ही नहीं रहती।

मेरा अन्तिम और सबसे-बड़ा अभियोग यह है कि इन्होंने मुझे बरबस आत्महत्या के वृणित अभिशाप का भागी बनाया, जो मेरे प्राणवान् व्यक्तित्व के सर्वथा प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति असीम अनुराग है। जीवन के उपभोग के लिए मेरे मन में सदैव अदम्य उत्साह रहा है। मैंने

बाराणी के न्याय-मन्दिर में

एक पुरुषार्थी की भाँति जीवन की विषमताओं का पदाक्रान्त किया है। जीवन में एक बार भी मैंने उनके सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया। वय इमीलिए मेरे जन्मदाता ने मुझे जाकर गङ्गा में डुबो दिया, क्योंकि मैं उनकी इच्छा का दास नहीं बन सका ? अनेक प्रकार के उचित अनुचित उपायों का अवलम्बन करने के बाद भी जब वे हार गए तो अन्त में उन्होंने मेरे ऊपर अपने उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उनका अन्तिम साधन है। जब कभी वे अपने किसी भाव-जात को बश में नहीं कर सकते तो वे उसका गला घाँट देते हैं। उन्होंने यह पाप सदैव और सर्वत्र किया है। मैं अपने पक्ष में अनेक साक्षियाँ उपस्थित कर सकता हूँ। पर यहाँ केवल मनोहर की ही साक्षी काफ़ी होगी। मनोहर जीवन-भर मेरा घोर शत्रु रहा। परन्तु वह भी मेरी तरह जीवट का आदमी है, और इसीलिए एक ही दण्ड का समभागी होने के कारण मुझे विश्वास है कि वह मेरे पक्ष का समर्थन करेगा।

इन्हीं अतिचारों को दृष्टि में रखते हुए अन्त में मैं श्रीयुत प्रेमचन्द्रजी को अन्याय, पक्षपात, मान-हानि और हत्या का अपराधी ठहराता हूँ; और न्याय, मानवता एवं कला के नाम पर हंस-वाहिनी जगदम्बा वीणापाणि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ नीर-चीर न्याय का पालन करते हुए इन स्वयं-भू उपन्यास-सम्राट् का स्रष्टा-कलाकारों के इस पुनीत लोक से निर्वासित कर मञ्जवीर प्रचारकों और उपदेशकों की अधोभूमि में भेज दिया जाय, जिससे मेरे रक्त के बदले में इनका जरा-मरण के भय से मुक्त शशःशरीर एकदम नष्ट हो जाय।

×

×

×

भगवती वीणापाणि—महाप्रतिहार को आदेश होता है कि वह मनोहर को साक्षी-रूपमें उपस्थित करें।

महाप्रतिहार मस्तक झुकाये नम्रतापूर्वक बाहर जाता है और मनोहरके पीछे-पीछे उसे विनीत गम्भीर मुद्रामें उपस्थित होता है।

मनोहर—माता शारदा की जय हो !

वीणापाणि—मनोहर ! तुम्हारा वादी ज्ञानशङ्कर और प्रतिवादी श्रीयुत प्रेमचन्द्र से परिचय है ?

मनोहर—हाँ भगवती ! एक मेरे मालिक दूसरे मेरे जन्म दाता हैं।

वीणा के न्याय-दन्दिर में

वीणापाणि—शपथ करा कि बचलोक के इस न्यायालय को एक भी असत्य शब्दसे कलुषित न करोगे ।

मनोहर—माँ, मैं मानवता की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि भगवती के सामने मुँहमें एक बात भी गूठ नहीं निकालूँगा ।

वीणापाणि—यच्छा तुम वादी और प्रतिवादीके पारस्परिक सम्बन्धों के विषयमें क्या जानते हो ?

मनोहर—भगवती, मेरी ही तरह वादीके भी प्रतिवादी ही जन्मदाता हैं । जिन्दगी-भर मैंने बाबू जानशहरमें लड़ाई लटी, पर मैं इस बात के लिए सचाईका गला कैसे घाटूँ ! मैंने उनकी नीतिका विरोध किया, पर उनके पुर-माथ का मैं हमेशा कायल रहा । उन-जैसा आदमी मैंने जिन्दगी-भरमें दूसरा नहीं देखा—जनम-भर वे विपदाओं से लड़ते रहे । मुन्नीजी ने आगे-पीछेसे उनपर वार किये, पर वह मेरा मेरा अपनीही धुनमें सरत रहा ।

वीणापाणि—तुम्हें भी प्रतिवादीके विरोधमें कोई अभियोग उपस्थित करना है ?

मनोहर—कैसे बताऊँ माँ, शरम लगती है । अपने माई-बापके खिलाफ कैसे जयान वालूँ, पर सच्ची बात कहने को तो सौगन्ध खाचुका हूँ—तुममें क्या छिपाऊँ ? मुन्नीजीका जीवटके आदमियोंमें कुछ वैर है । वे चाहते हैं कि हर-एक आदमी उनकी ही तरह डल्लू बनारह । मैं जबतक उनकी बात मानता रहा वे मुझसे सुशे रहे । पर जब मैं महारियाकी बेहज्जती देख आपे-से-बाहर होगया तो उन्होंने मेरेही हाथों से जेल से मेरा गला घुटवा दिया ।

वीणापाणि—प्रतिवादीके पास इन श्रियाओंका क्या उत्तर है ?

प्रेमचन्दजी—कल्याणकी जाय हो ! अगर अपराध क्षमा हो तो मैं कचहरीकी आमफ्रहम भाषामें अपना इज़हार दूँ । मुझे कृत्रिम भाषा बोलनेका अभ्यास नहीं है ।

वीणापाणि—प्रतिवादीकां आज्ञा होती है कि जिस प्रकारकी भाषा का चाहे उपयांग करे । परन्तु किसी सांस्कृतिक भाषाको कृत्रिम कहना उस संस्कृति के प्रति अपराध करना है । अतएव पहले उसे न्यायालयसे इस अपराध की क्षमा माँगनी चाहिए ।

प्रेमचन्द जी—मेरा आशय यह नहीं था। फिर भी मैं अपने लफ्ज़ोंको वापस लेता हूँ।

वीणापाणी—प्रतिवादी अपना वक्तव्य प्रारम्भ करे।

प्रेमचन्दजी—कल्याणी ! मेरे खिलाफ़ पाँच इल्ज़ाम लगाए गये हैं।

साधारणतः मुझे उनको सुनकर तकलीफ़ होती, लेकिन चूँकि मैं मानव-चरित्रका ज्ञाता हूँ इसलिए बाबू ज्ञानशङ्कर की मनोवृत्ति समझने में मुझे कोई सुशिकल नहीं हारही। खैर मैं इनका एक-एक करके जवाब देता हूँ।

मेरे खिलाफ़ पहला जुर्म यह है कि मैं यथार्थवाद का दम्भ भरते हुए भी आदर्श-भीरू हूँ। मेरा तथ्य-दर्शनपर कोई अधिकार नहीं इसलिए मैं अपनी आदर्श-नीतिका प्राँपैगैण्डा करता हूँ।

जहाँतक मुझे याद है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यथार्थवादी या आदर्शवादी हूँ, और न मेरी निगाहमें इन लफ्ज़ोंका कोई विशेष मूल्य है। मेरे पास आँखे और दिमाग़ दोनो है—आँखों से मैं जीवनकी वास्तविकता को देखता हूँ, दिमाग़ से न सिर्फ़ उनके विषय में चिन्तन और मनन ही करता बल्कि उनका समाधान करनेका प्रयत्न भी करता हूँ। लिहाजा मेरे साहित्य में यथार्थ और आदर्श दोनो गले में बाहे डालकर चलते हैं। मैंने यथार्थ में जो विषमताएँ देखीं उनपर विवेक पूर्वक मनन किया, और उनका जो समाधान मुझे मिला वही मेरा आदर्श बनगया। इसलिए मेरा आदर्श यथार्थकी आधार-भूमिपर ही खड़ा हुआ है, वह कोरी कल्पना या भावुकता की सृष्टि नहीं है।

जीवन के प्रवाह में आँखे मूँदकर वहजाना कहाँ की बुद्धिमानी है ! ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह उसका हृदय के साथ-साथ उपभोग करे और जीवन की गुत्थियों को सुलझाता हुआ अपना मार्ग प्रशस्त करे। साहित्य की सार्थकता भी ठीक यही है। मेरा अपना दृष्टिकोण सदैव यही रखा है और मैंने बिना किसी संकोच के अपने साहित्य में इसका तर्जुमा किया है। मैं आधुनिक जीवन की विषमताओं का एकमात्र समाधान त्याग और प्रेम समझता हूँ। आज का भौतिक जीवन प्रवृत्ति के अतिचार से तडप उठा है। उसमें निवृत्ति के लिए गुञ्जायश नहीं है। इसीलिए वह संतुलन खो बैठा है। आज त्याग और प्रेम ही उसे फिर से स्थापित कर सकते हैं। प्रेमशंकर

के जीवन में यही संतुलन पाया जाता है। इसीलिए वह विजयी हुआ है। और ज्ञानशंकर भौतिक सुख की लालसा में अन्धे हो कर इसी को खो बैठे हैं। इसीलिए वे जिन्दगी-भर बाज़ी हारते रहे हैं। यह उनकी नादानी है कि वे अपने को प्रमशंकर से ज्यादा जीवट का आदमी समझते हैं। जीवन का मोह ही तो पुरुषार्थ नहीं है—उसके लिए संयम और आत्मबल की ज़रूरत है।

दूसरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर यह है कि मैं नीतिवादी हूँ और मेरी नीति पुरानी पड़ गई है।

जैसा मैंने अभी अज़ किया मैं नीति में विश्वास करता हूँ—विषमताओं का समाधान नीति ही तो है। लेकिन नीति और रुढ़ि में फ़र्क है। नीति जीवन की विषमताओं के समाधान का ही दूसरा नाम है। इस से ही हमारा जीवन चलता है। हाँ उसे रुढ़ि-बद्ध कर लेना दरअसल भूल है। लेकिन यह सोचना कि समाज का जीवन बिना मॉरल्स के कायम रह सकता है, उससे भी बड़ी भूल होगी। मैंने अपनी दृष्टि हमेशा वर्तमान की समस्याओं और उनके समाधान पर ही रक्खी है। मैंने भारत के स्वर्ण-युग के सपने कभी नहीं देखे, हमेशा वर्तमान की समस्याओं से ही ताकत आजमाई है। लिहाज़ा मेरी नीति विवेक पर ही अवलम्बित है। और इसीलिए उसमें न परम्परा की दुहाई है न धर्म-शास्त्रों की।

ज्ञानशंकर की तरह मेरा भी भौतिक जीवन पर अखण्ड विश्वास है। फ़र्क सिर्फ़ यह है कि बाबू ज्ञानशंकर आग-से-आग बुझाना चाहते हैं, मैं पानी के छींटों को काम में लाना चाहता हूँ। बस यही मेरा कसूर है।

अब तीसरा इल्ज़ाम सुनिये। सुहई को शिकायत है कि मैं काव्य-न्याय में विश्वास करता हूँ।

इसका जवाब यह है कि जहाँ तक काव्य-न्याय के स्थूल रूप से सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि ऐसी हिमाकत मैं कभी नहीं करता। अगर ऐसा होता तो गायत्री की आत्महत्या क्यों होती। लेकिन सूक्ष्म रूप में मेरा यह निश्चित मत है कि सम्पूर्ण विश्व-विधान के पीछे, उसके अणु-अणु में विधाता का न्याय काम कर रहा है। साहित्य जीवन का चित्र है। अतएव इस न्याय की सत्ता साहित्य में भी मान्य होनी चाहिए। न्याय का अर्थ है नियम। और प्रकृति का यह नियम है कि जो जीवन-प्रद

वाणी के न्याय-मन्दिर में

है वह सत् है क्योंकि जीवन सत् है, और जो जीवन का वातक है वह असत् है। इसीलिए प्रेम सत् है; हिंसा असत् है। प्रेम स्थायी रहेगा, हिंसा का नाश हो जायगा। मैं जीवन और साहित्य दोनों में इस न्याय का कायल हूँ।

आगे मुद्दई कहता है कि मेरे चरित्रांकन में पूर्वापर विरोध है। एक ओर गांधीवादी होने के नाते मैं मानव-हृदय की स्वाभाविक पत्रितता पर एतकाद करता हूँ, दूसरी ओर खुद मेरा ही दिल मुद्दई की तरफ से ग्राह्य नहीं है। लिहाज़ा मैंने उसकी खूबियों की तरफ इशारा करते हुए भी उनको उभरने का मौका नहीं दिया, और न उसे कभी अपने उद्देश्यों में कामयाब ही होने दिया।

मुझे अफसोस है कि मुद्दई को अपने बावत इतना मुग़ालता है। वह अपनी खामियों को नहीं पहिचानता। यह मैं भी मानता हूँ कि उसमें खूबियाँ हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ इतना ज्यादा है कि वह उसकी खूबियों को उभरने का मौका नहीं देता। और रही कामयाब न होने की बात तो उसके लिए भी बाबू ज्ञानशंकर खुद ही जिम्मेवार हैं। उनमें बुद्धि-बल है, पुरुषार्थ है, जीवन के लिए प्रेम है, लेकिन आत्म-बल नहीं है। इसलिए वे मौके पर अक्सर अपने हाथ से ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। राय कमलानन्द के सामने वह एक धमकी में ही सब कुछ उगल बैठे। दरअसल उन-जैसा स्वार्थी आदमी आत्मबल लाएगा कहाँ से ?

आखिरी इलज़ाम और भी संगीन है। बाबूजी फर्माते हैं कि मैंने उन का जवरन गला घोट दिया। उन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। वे खुद मरना नहीं चाहते थे।

मेरा खयाल था कि इसके लिए वादी मेरा अहसान मानेगा, लेकिन देखता हूँ कि उसने उल्टा मेरे ऊपर दावा कर दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिन इमारत को उन्होंने इतनी मेहनत से बना कर खड़ा किया उसको एक पल में ढहते देख कर वे खुदकुशी के अलावा और क्या कर सकते थे ? मैं समझता हूँ कि उस वक्त उनकी मृत्यु ही उनके लिए वरदान थी।

वस मुझे अपनी सफ़ाई में और कुछ अर्ज़ नहीं करना है

बीणापाणि—न्याय-मन्त्री की आदेश होता है कि वे अभियोग की सार्थकता पर प्रकाश डालें।

न्याय मन्त्री—भगवती की जय हो ! मैंने अत्यन्त ध्यानपूर्वक वादी और प्रतिवादी की युक्तियों को सुना।

अभियोगों का विश्लेषण करने पर मैं इय निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में उनकी संख्या पाँच है—पर एक-एक अभियोग के अन्तर्गत कुछ और भी छुंटे-मोटे अभियोगों की और संकेत भी है—परन्तु वास्तव में वे सभी पहले एक अभियोग की ही परिधि में आ जाते हैं। प्रतिवादी के विरुद्ध अभियोग यही है कि उसका तथ्य-दर्शन पर पूर्ण अधिकार नहीं है। वह जीवन के तथ्य को पूर्णतः नहीं गलत कर सका। वह जीवन के समग्र रूप से उसकी समस्त विभीषिकाओं के साथ समझौता नहीं कर पाया। इसीलिए वह यथार्थ में सन्तोष न कर सकेन्द्र आदर्श की उपासना करता रहा है। यथार्थ में सन्तोष न करना वास्तव में यथार्थ को समझने में त्रुटि करना है। जिसको यथार्थ के रहस्य का अनुभव हो जाता है वह आदर्श की चिन्ता नहीं करता—वह तो जीवन के अन्तिम क्षणों को गलत कर लेता है। ऐसा ही तथ्य-दर्शी कवि मनीषी कहलाता है। गोपबन्धुजी जीवन की इतनी गहराई में जाकर नहीं देख सके। वादी का प्रतिशोष इसी बिन्दु पर आकर केन्द्रित होता है। उसने अपने प्रति जिन प्रवाचकों का वर्णन किया है वे सभी अस्युक्तिपूर्ण होते हुए भी सर्वथा निराश्रय नहीं हैं, क्योंकि उसने अपने पहले ही वाक्य में उनके सबसे दुर्बल अंग पर चोट की है। इसका उत्तर उनके पास कोई नहीं है।

बीणापाणि—उपस्थित सभ्य समाज ! हमने वादी प्रतिवादी एवं न्यायमन्त्री तीनों के वक्तव्यों पर मनन किया। हम न्यायमन्त्री के इस अभिमत से कि प्रतिवादी के पास पहिले और केन्द्रिय अभियोग का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है, पूर्णतया सहमत हैं।

वास्तव में वे जीवन-तथ्य को समग्र रूप में ग्रहण नहीं कर पाये। उन्हें उसकी वास्तविकता से पूर्ण सहयोग नहीं है। वे उसकी विषमताओं को स्वस्थ रूप में ग्रहण करने में असमर्थ हैं। अतएव कहीं-कहीं वे वास्तव में वादी के प्रति अपराध कर बैठे हैं।

वाणी के न्याय-मन्दिर में

निदान हमारा न्याय-विचार हमें बाध्य करता है कि प्रतिवादी को उचित दण्ड दिया जाय। हमारा आदेश है कि आज से श्रीयुत प्रेमचन्दजी स्रष्टा कलाकारों की प्रथम श्रेणी को छोड़ कर द्वितीय श्रेणी में आसन प्राप्त करें।

आज की परिषद् समाप्त की जाती है।

सब उठकर समवेत स्वर में गाते हैं—

जय हो !

जय वीणापाणीSS !

जय शब्दमूर्ति कल्याणीSS !

जय हो !

—पर्दा गिरता है

दीप-शिखा

इस युग में 'दीप-शिखा' का प्रकाशन एक घटना है। महादेवीजी के ही शब्द उधार लेकर हम कहेंगे कि 'जीवन और मरण के इन तूफानी दिनों में रची हुई यह कविता ठीक ऐसी है जैसे भस्मा और प्रलय के बीच में स्थित मन्दिर में जलने वाली निष्कम्प दीप-शिखा।'

इस पुस्तक का महत्व एक और दृष्टि से भी है। आज छः-सात वर्षों के बाद महादेवीजी के स्नाथना-मन्दिर का द्वार खुला है और करुणा के स्नेह में जलती हुई इस दीपक की लौ को अब भी अपने एकाकीपन से तन्मय और विश्वास में मुच्छरानती हुई देखकर हिन्दी के विद्यार्थी का सशङ्क मन उत्फुल्ल हो उठा है।

दीप-शिखा में ५१ गीत हैं, और प्रत्येक गीत का अर्थवाही एक चित्र है। इन चित्रों का कला की दृष्टि से क्या मूल्य है, यह कहने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ; परन्तु इस प्रकार का चित्रित गीत-प्रकाशन हिन्दी के लिए एकदम नयी चीज़ है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गीत कवयित्री की अपनी ही हस्त-लिपि में मुद्रित है। इस मुद्रण से जहाँ नवीनता तो सचसुच और भी बढ़ गई है, वहाँ लिपि के सुन्दर न हाने से पुस्तक की स्वच्छता में क्षति भी अवश्य हो गई है।

हिन्दी में—विश्व के लगभग सभी साहित्यों में—गीत-परम्परा आदि-काल से ही चली आती है। या यो कहिए कि कविता का मूल रूप ही गीत है। गीत के इतिहास पर दृष्टि डालने से उसके दो प्रयोजन मिलते हैं:—

(१) आत्म-निवेदन और (२) मनोरञ्जन।

इनमें आत्म-निवेदन अधिक मौलिक है। उसको प्रयोजन के अतिरिक्त प्रेरणा भी कहना उचित है। परन्तु मनोरञ्जन भी कम प्राचीन नहीं है। आखेट-प्रिय आदिम पुरुष के वियोग में उसकी गृहिणी आदिम नारी ने आज से न-जाने कितने युग पूर्व अपने एकाकी मन और गृह-कर्म से भारी शरीर को हल्का करने के लिए गीत का आविष्कार किया था। 'कामायनी' के पाठकों

को याद होगा कि मनु के मृगयार्थ वन में चलने जाने पर श्रद्धा का हाथ तकली से और मन अनायास गीत की कडी से उलझ जाता था ।

इस अवस्था में आकर गीत के दोनों प्रयोजनों का समन्वय हो जाता है । धीरे-धीरे ये ही दो प्रयोजन अनेक रूपों में बिखरते गये । आत्म-निवेदन पार्थिव और अपार्थिव अवलम्बनों के अनुसार लौकिक और अलौकिक विरह-मिलन की कविता में फूट उठा; मनोरंजन उत्सव और पर्वों के गीतों में; और कहीं-कहीं ये दोनों ही मिलकर एक हो गए ।

इस प्रकार गीत मानव-मन के हर्ष-विषाद का सहज वाहक है, जो अब तक अपनी परिभाषा को अच्युत बनाये हुए है । महादेवी जी ने भी इसी से मिलती-जुलती गीत की परिभाषा की है—

“गीत का चिरन्तन विषय रागात्मिका वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगा ।.. साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।”

दीप-शिखा के गीतों में आत्म-निवेदन की प्रेरणा है, मनोरंजन स्पष्टतः ही उनका प्रयोजन नहीं है । परन्तु वह आत्मनिवेदन किस प्रकार का है, यह प्रश्न सरल नहीं है । साधारण रूप से यह कह देना कि इनमें अज्ञात के प्रति विरह-निवेदन है या रहस्योन्मुख प्रेम की अभिव्यक्ति है अथवा लौकिक धरातल पर कवि की अपनी अतृप्त वासना की प्रेरणा है—प्रश्न को और भी जटिल बना देना है । इस आत्म-निवेदन की प्रकृति को समझने के लिये तो कवि के व्यक्तित्व के विश्लेषण का सहारा लेना पड़ेगा ।

दीप-शिखा के गीतों का अध्ययन करने पर हमारे मन में तीन प्राथमिक धारणाएँ बनती हैं—

(१) दीप-शिखा कवि के अपने मन का प्रतीक है ।

(२) दीप-शिखा में फ़ारसी की शमशकी तरह ऐन्द्रिय वासना की टाहक ज्वाला नहीं है, वरन् करुणा की स्निग्ध लौ है जो मधुर-मधुर जलती हुई पृथ्वी के कण-कण के लिए आलोक वितरित करती है ।

दीप-शिखा

(३) और इस जलने के पीछे किसी अज्ञात प्रिय का संकेत है जो उसे अमीम बल और अकम्प विश्वास प्रदान करता है ।

महादेवी के काव्य में इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों को व्याख्या में हिन्दी-आलोचकों ने सारा अध्यात्म एवं वेदान्त समाप्त कर दिया है । उनकी यह व्याख्या महादेवी को परमार्थी योगी की पदवी पर भले ही प्रतिष्ठित करे, परन्तु उनके काव्य की आत्मा अर्थात् उनकी अनुभूति के स्वरूप को समझने में अगुमात्र भी महायक नहीं होती ।

इस विषय में मैं पहिले ही निवेदन करदूँ कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है । काव्य का सम्बन्ध मानव-मन से है, और मन में किसी प्रकार की अपार्थिवता नहीं है । भारतीय दर्शन ने भी उसे सूक्ष्मेन्द्रिय ही माना है । हमारे साहित्य-शास्त्र में भी जहाँ काव्य की अनुभूति-अभिव्यक्ति का विवेचन है, पार्थिव जीवन के ही स्थायी-संचारियों का वर्णन है और मन की अलौकिकता भी अन्त में लौकिक ही ठहरती है । यह बात नहीं कि मुझे अध्यात्मक की सत्ता मान्य नहीं । मैं मानता हूँ कि एक और चित्तवृत्ति के संघर्ष और निरोध से और दूसरी ओर उसकी एकाग्रता के अभ्यास से आत्म-चिन्तन और रहस्यानुभूति सम्भव है—और कम-से-कम कवीर की रहस्यानुभूति कल्पना की क्रीड़ा अथवा धार्मिक दम्भ कभी नहीं थी । परन्तु बुद्धि के इस युग में, जैसा कि महादेवीजी ने स्वयं अपनी भूमिका में स्वीकार किया है, इस प्रकार की रहस्यानुभूति कम-से-कम एक नवीन शिक्षा-दीक्षा में पोषित बुद्धि-जीवी के लिए सम्भव नहीं । एक बार व्यक्तिगत चर्चा करते समय भी जब मैंने अपना यह मन्तव्य उनके सम्मुख रखा तो उन्होंने स्पष्ट रूप में इसकी सत्यता स्वीकार की थी । अतएव दीप-शिखा के गीतों की अनुभूति पार्थिव माने बिना काम नहीं चल सकता । उसका विश्लेषण करने पर तीन तत्व हम को मिलते हैं :

(१) जलने की भावना, (२) विश्व के प्रति गीला-करुणा-भाव, और (३) अज्ञात प्रिय का संकेत ।

इन में से तीसरे भाव के मूल में तो स्पष्टतः काम का स्पन्दन है ही; जलने की भावना में असन्तोष और अतृप्ति-भावना भी अनिवार्य है । इन दोनों को, अगर संयुक्त कर दें तो पहला कारण और दूसरा कार्य हो जाता है । और वास्तव में सभी ललित-कलाओं के—विशेषतः काव्य के और उससे भी

अधिक प्रणय-काव्य के—मूल में अतृप्त काम की प्रेरणा मानने में आपत्ति के लिए स्थान नहीं है ।

महादेवीजी का एकाकी जीवन उनके काव्य में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है । किसी अभाव ने ही उनके जीवन को एकाकिनी बरसात बना दिया है, सुख और दुलार के आधिक्य ने नहीं । अतिशय सुख और दुलार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न दुःख का आकर्षण यामा और दीप-शिखा की सृष्टि नहीं कर सकता । परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल शारीरिक अर्थ में ग्रहण करना महादेवीजी के संस्कृत एवं संयत व्यक्तित्व के प्रति अपराध होगा । क्योंकि, और नहीं तो स्वभाव से ही पुरुष और स्त्री कवियों के लिखे हुए प्रणय-गीतों में उनकी प्रकृति के अनुसार अन्तर मिलना अनिवार्य है । पुरुष कवि का प्रणय-निवेदन अधिक व्यक्त, अतएव ऐन्द्रिय एवं रोमानी होगा । स्त्री का प्रणय-निवेदन संयत, अतएव गार्हस्थिक होगा । पुरुष में रोमांस की उन्मुक्तता होगी, नारी में स्थायित्व का बन्धन । अतएव स्वीकृत रूप से लौकिक तल पर स्त्री-कवि का प्रणय एकमात्र स्वकीया का घरेलू प्रणय ही हो सकता है । स्त्री अपनी प्रकृति के कारण और बहुत-कुछ अंशों में सामाजिक रीति-नीति के कारण न तो असंयत उद्गारों को ही व्यक्त कर सकती है और न स्वकीया की सौमित्रि-रेखा से बाहर ही जा सकती है । प्राचीन लोक-गीतों की गायिकाओं से लेकर सर्व-श्री होमवती, 'उषा', 'चकोरी' आदि आधुनिक हिन्दी-कवयित्रियों तक यह बात अनिवार्य रूप से मिलेगी । जहाँ-कहीं भी लौकिक प्रणय की स्वीकृति है, वहाँ स्वकीया-भाव ही है । मीरा के तो अपार्थिव प्रेम में भी स्वकीया-भाव का आग्रह मिलता है ।

स्वकीया की भावना को छोड़कर तो स्त्री के पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है—अपार्थिव प्रणय अथवा अज्ञात के प्रति प्रणय-निवेदन । यह प्रणय-निवेदन मूलतः पार्थिव प्रेम पर आश्रित होते हुए भी तत्त्वतः उससे भिन्न होता है । अर्थात् इसमें ऐन्द्रियता सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होती हुई अतीन्द्रियता-सी प्रतीत होने लगती है, यानी उसका संस्कार हो जाता है । परन्तु यह निश्चित है कि इस प्रणय-निवेदन में जो स्पन्दन होगा, वह प्रच्छन्न रूप से उसी आरम्भिक प्रेम का ही होगा ।

सन्त कवियों तथा सगुण भक्तों ने अपनी अभुक्त वासनाओं को एक ओर तो भगवान के चरणों पर उँढेलकर और दूसरी ओर सचराचर में वितरित कर

दीप-शिखा

उनका संस्कार किया था। वह विश्वास और साधना का युग था। भगवान की प्रतीति तब आज की अपेक्षा अधिक सरल थी। आज का कवि भगवान से नाता जोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है। उसके लिए मानव-जाति से प्रीति बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है। इसलिए आज वासना के संस्कार की यही पद्धति व्यवहार्य है। महादेवीजी के जीवन में सन्तों की आत्मसाधना देखना तो उपहास्य होगा; परन्तु अपनी वासना का परिष्कार करने के लिए उन्होंने साधना की है और अब भी कर रही है, इसको अस्वीकार करना अनुचित होगा। उन्होंने बड़ी लगन से आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया है। अपने आस-पास के प्राणियों के साथ परिवार-सम्बन्ध जोड़ा है। पीड़ित वर्ग की सक्रिय सेवा में आनन्द लिया है। मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी समय आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन और मनन में बीतता है। अतएव उनके गीतों में जाँ रहस्य-संकेत मिलते हैं वे पूर्णतः स्वानुभूत मत्स्य न होते हुए भी एक-दम आयावाद-युग के कवि-समय-मात्र भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तो अध्ययन के सहारे ही कवि को उनमें थोड़ा-बहुत परिचय आवश्यक है।

यहाँ बात क्रण-क्रण के प्रति निरवरोधी हुई उनकी स्नेह-विगलित करुणा के लिए भी कही जा सकती है। बुद्ध के प्रति समत्व और दर्शन के अध्ययन का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से पटा है—‘इन गीतों ने पराविद्या की अपा-थिवता ली, वेदान्त के अध्ययन को आयासात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबका कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव-प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका।’

इस प्रकार दीप-शिखा के गीतों में जिन तत्त्वों की ओर निर्देश किया गया है, वे तीनों एक-दूसरे से कार्य-कारण-सम्बन्ध में बँधे हुए हैं और कवि के अपने जीवन के सम्बन्ध से भी उनका पूरी तरह व्याख्यान हो जाता है।

यहाँ तक तो हुआ दीप-शिखा की प्रेरक अनुभूति का विश्लेषण, जो उसके गीतों को समझने में सहायक हो सकता है। परन्तु उनका मूल्यांकन करने के लिए अनुभूति की प्रकृति नहीं, उसकी शक्ति का विवेचन करना होगा। यानी अब हमें यह देखना है कि दीप-शिखा को जिस अनुभूति से प्रेरणा मिली है, उसमें कितनी तीव्रता है।

दीप-शिखा

इस दृष्टि से हमें निराश होना पड़ेगा । कारण स्पष्ट है । इस अनुभूति के मूल में जो काम का स्पन्दन है, उसके ऊपर कवि ने चिन्तन और कल्पना के इतने आवरण चढा रखे हैं कि स्वभावतः उसकी तीव्रता दब गई है और उसको टटोलने पर बहुत नीचे गहरे में एक हल्की-सी धडकन मिलती है । साथ ही अनुभूति को पुञ्जीभूत होने का भी अवसर नहीं मिला । उसका वितरण प्रयत्न-पूर्वक किया गया है, इसलिए वह तीव्र न रहकर हल्की-हल्की बिखर गई है । स्पष्ट शब्दों में, इन गीतों में लोक गीतों की जैसी मांस की उष्ण गन्ध प्रायः निःशेष हो गई है । दूसरी ओर बुद्धिजीवी महादेवीजी में सन्त वा भक्त कवियोका-सा विश्वास और समर्पण भी सम्भव नहीं हो सका । इसलिए उनके हृदय में अज्ञात के प्रति भी जिज्ञासा ही उत्पन्न हो सकी है, पीढा नहीं । कुल मिलाकर यह कहना होगा कि दीप-शिखा की प्रेरक अनुभूति छाँह-सी सूक्ष्म और मौम-सी मृदुल तो है; परन्तु हूक-सी तीव्र नहीं । एक स्थान पर स्वयं कवयित्री ने ही अपने गीत की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है—

खोजता तुमको कहाँ से आ गया आलोक सपना
चौक खोले पङ्क ! तुमने याद आया कौन अपना
कुहर में तुम उड चले किस छाँह को पहचान ।

स्वभावतः छाँह को पहचान कर कुहर में उडने वाले इन गीतों में विस्मय भरे मधुर संकेत तो स्थान-स्थान पर मिलेंगे; परन्तु लपककर हृदय को पकड़ने वाली पंक्तियाँ दुर्लभ ही हैं ।

मधुर संकेतों के कुछ उदाहरण लीजिए—

(१) तम ने वर्ती को जाना है,

वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अञ्जल पहचाना है
चिर-बन्धन में बाँध मुझे घुलने का वर दे जाना

(२) सुधि विद्युत् की तूली लेकर

मृदु व्योम फलक-सा उर उन्मन

मैं घोल अश्रु में ज्वाला-कण

चिर-मुक्त तुम्हीं को जीवन के बन्धन हित विकल दिखा जाती ।

दीप-शिखा

नीहार से लेकर दीप-शिखा तक आते-आते महादेवीजी की अनुभूति ने सूक्ष्मता और स्थिरता में जितनी वृद्धि की है, तीव्रता में उतनी क्षति भी भोगी है। इयका अर्थ यही है कि महादेवीजी का मन क्रमशः व्यक्तिगत पीड़ा को लोक व्यापी बनाता हुआ दुःख-सुख का सामञ्जस्य स्थापित करता रहा है। यह सामञ्जस्य सर्व-प्रथम हमें नारजा में मिलता है; परन्तु फिर भी उसमें व्यक्ति की पुकार दुर्बल नहीं पड़ी। सान्ध्य-गीत में आकर जिस अनुपात में पीड़ा का अव्यक्तीकरण हुआ है, उसी अनुपात से उसमें अनुभूति की तीव्रता भी कम हो गई है। दीप-शिखा इन्हीं दिशा में एक अगला कदम है। सान्ध्य-गीत में जहाँ दुःख और सुख का सामञ्जस्य पूर्ण हुआ था, वहाँ दीप-शिखा में दुःख अपना दर्शन खोकर सुख को समर्पण कर बैठा है। पीड़ा की ज्वाला यहाँ दीप-शिखा में नहीं है, जो पृथ्वी के कण-कण को आलोक वितरित कर अपना घुल जाना ही वरदान मानती है। इस प्रकार दीपशिखा की अनुभूति में एक तो रज के प्रति समत्व और दूसरे विश्वासमय अबन्ध गति—ये दो नवीन तरंग मिलते हैं जिनके लिए हमारे युग-जीवन की प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी हैं।

महादेवीजी के गीतों में कला का मृत्यु अच्युत है। भाषा के रङ्गों को हल्के-हल्के स्पर्श में मिलाते हुए मृदुल-तरल चित्र आँक देना उनकी कला की विशेषता है। पन्त की कला में जडाव और कड़ाई है, फलतः उनके चित्रों की रेखाएँ पैनी होती हैं। महादेवी की कला में रङ्ग-धुली तरलता है, जैसी कि, पंखुडियों पर पड़ी हुई आँस में होती है।

सान्ध्य-गीत में मन्थ्या की पृष्ठभूमि होने के कारण उसके चित्रों में रङ्गों का वैभव अधिक था; परन्तु दीप-शिखा के गीतों में उसके चित्रों की ही तरह केवल दो रङ्ग हैं—हल्का नीला और सफ़ेद। जहाँ कहीं अधिक रङ्गों का प्रयोग भी है, वहाँ ये सभी रङ्ग इस प्रकार मिला दिए गए हैं कि किसी की स्वतन्त्र सत्ता न रहे—इसीलिए तो इन चित्रों में पारद के मोतियों-जैसी कोमलता आ गई है :

रात-सी नीरव व्यथा, तम-सी अगम मेरी कहानी
फेरते हैं दृग सुनहले आँसुओं का क्षणिक पानी
श्याम कर देगी इसे छू प्रात की मुस्कान !

महादेवीजी के गीतों में प्रयुक्त चित्र-नामग्री अत्यन्त परिमित है। इसलिए नीरजा के बाद से ही महादेवीजी के आलोचक को उनसे पुनरावृत्ति की शिकायत है। और यह शिकायत जितनी उचित है उतनी ही सकारण भी। एक कारण तो यही है कि कवि की अनुभूति का क्षेत्र ही सीमित है। दूसरा कारण यह है कि उसने सान्ध्य-गीत और दीप-शिखा के गीतों को एक निश्चित पृष्ठभूमि दी है—सान्ध्य-गीत को सन्ध्या की, दीप-शिखा को रात्रि की। यह सच है कि दीप-शिखा तक पहुँचते-पहुँचते नीरजा और सान्ध्य-गीत की पुनरावृत्तियों से ऊँचा हुआ पाठक एकवार तो सचमुच झुँकला उठता है—वे ही दीपक और बादल के छाया-चित्रों के टुकड़े नाना प्रकार के आकार और वेश धारण कर उनके काव्य के आधार-फलक पर उड़ते-तैरते दिखाई देते हैं। बादल के चित्रों से तो कवि को बेहद मोह है। परन्तु झुँकलाहट उतर जाने पर यदि वह धैर्य-पूर्वक सूक्ष्म-दृष्टि से देखेगा तो उसे सूक्ष्म अवयवों की तरह-तरह की बारीकियाँ मिलेगी। जैसे—

तैर तम-जल में जिन्होंने ज्योति के बुद्बुद् जगाए,
वे सजीले स्वर तुम्हारे त्रितिज-सीमा बाँध आये |
हँस उठा कव्य अरुण शतदल-सा ज्वलित दिनमान।

गीत की अपनी टेकनीक होती है। वह अपने जन्म से ही वन्य-कण्ठों में पला है। इसलिए उसकी गति और लय में—यहाँ तक कि उसकी शब्दावली में भी—वन्य संस्कार वर्तमान रहते हैं। यह असम्भव है कि एक सफल कलाकार कला-गीतों की रचना करते हुए इन वन्य गीतों की पंक्तियों को अनायास ही न गुनगुना उठे। सचमुच पाठक के संस्कार भी बिना इन स्पर्शों के गीत को गीत मानने के लिए तैयार नहीं होते। महादेवीजी इस ओर प्रारम्भ से ही सचेत रही हैं। दीप-शिखा की भूमिका में उन्होंने लोक-गीतों का प्रभाव स्वीकार भी किया है। नीरजा के कुछ गीतों की लय और शब्दावली में इस प्रकार के मधुर और सुखर संस्कार मिलते हैं। 'पथ देख बितादी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं' या 'सुखर पिक हौले बोल, हठीले हौले-हौले बोल'—जैसी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए पाठक के मन में लोक-गीतोंकी समानान्तर पंक्तियाँ आप से आप दौड़ जाती हैं। दीप-शिखा में भी 'मैं न यह पथ जानती री' या 'कहाँ से आए बादल काले'—जैसी पंक्तियों में कुछ ऐसा ही सौन्दर्य है, यद्यपि उतना नहीं जितना नीरजा के गीतों में है।

दीप-शिखा

इस प्रकार प्रचलित लोक-गीतों को वन्य गति-लय में अमूल्य काव्य-सामग्री भरकर महादेवीजी ने खटी-बोली की कवितामें गीत के माध्यमको अमर कर दिया है ।

गीतके आन्तरिक रूपका विश्लेषण यदि किया जाय तो वह कुछ इस प्रकार होगा :

कभी अनायास ही कवि के मन में कोई बात चमक जाती है और चिन्तन की हल्की-हल्की लौच ने गल-गल कर वह एक पंक्ति के रूपमें ढल जाती है । यही गीत की पहली पंक्ति है जो प्रायः चिन्तन का परिणाम होती है । इसके उपरान्त कवि उसमें सम्बद्ध अन्य धूमिल भावनाओं का रूप देने का प्रयत्न करता है और गीत के अगले पदों की सृष्टि होती है । वस, इसी सृजन-प्रक्रिया में एक साथ कवि की मूल अनुभूति व्यक्त होकर शब्दों की पकड़ में आजाती है और सारा गीत चमक उठता है । अनुभूति-प्राण गीतोंके सृजनका यही इतिहास है । बचन के कुछ सार-दीप्त गीत इसके माली हैं । परन्तु दीप-शिखा के अधिकांश गीतोंमें अनुभूति की तीव्रता के अभाव से ऐसा नहीं होपाया । उनमें चिन्तन के प्राधान्य के कारण पहली पंक्ति के संवेत ही अधिक स्पष्ट होते हैं ।

दीप-शिखा की भूमिकाका महत्व उसके गीतों से कम नहीं है । उसके विषय में विस्तार चर्चा फिर कभी की जायगी । इस समय तो यही कहना पर्याप्त होगा कि आधुनिक तथाकथित प्रगतिशील या समाजवादी आलोचना की दृष्टिकोण में काव्य के सादर सत्यों के सहारे इस भूमिका से छायावाद की भव्य व्याख्या की गई है जिसका स्थान हिन्दी आलोचना के इतिहास में अमर रहेगा ।

महादेवी की आलोचक दृष्टि

जैसा मैंने एक और स्थानपर भी कहा है, महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध अमिश्रित रूप मिलता है। छायावाद की अंतर्मुखी अनुभूति, अशरीरी प्रेम जो वाह्य-तृप्ति न पाकर अमांसल मौदर्यकी सृष्टि करता है, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पर्श, रहस्य-चिन्तन (अनुभूति नहीं), कृतितली के पंखों और फूलों की पंखड़ियों से झाँकती हुई कला, और इन सबके ऊपर स्वप्न-सा पुरा हुआ एक वायवी वातावरण—ये सभी तत्व जिसमें घुले मिलते हैं, वह है महादेवीकी कविता। महादेवीने छायावादको पढा नहीं है, अनुभव किया है। अतएव साहित्यका विद्यार्थी उनकी विवेचना का आसवचन के समान ही आदर करेगा

आज एकसाथ ही महादेवीजी की लेखनी से उद्भूत विवेचनात्मक गद्य यथेष्ट रूप में हमारे सामने उपस्थित है। यामा, दीपशिखा और आधुनिक कवि की विस्तृत भूमिकायें, पत्रिकाओं में प्रकाशित 'चिन्तनके क्षणोमें' और अब पुस्तकाकार प्राप्त उनके कतिपय लेख काव्यके सनातन सत्यो का जितना स्वच्छ उद्घाटन करते हैं, उतना ही आधुनिक साहित्य की गतिविधिका निरूपण भी।

साहित्य-दर्शन

महादेवी के साहित्य-दर्शन का आधार है भारतीय आदर्शवाद, जो जीवन और जगत्में एक सत्यकी अखण्ड सत्ता मानता है। जगत्के खण्ड-खण्डमें अखण्डता प्राप्त करलेना ही सत्य है और उसकी विषमताओं में सामञ्जस्य देखना ही सौन्दर्य है। महादेवी इन्हीं दो तथ्योंको साहित्यके साध्य और साधन मानती हैं।

“.....सत्य काव्यका साध्य और सौन्दर्य उसका साधन है। एक अपनी एकतामें असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त, इसीसे साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूपसे साध्यकी विस्मयभरी अखण्ड स्थिति तक पहुँचने का क्रम आनन्दकी लहरपर लहर उठाता हुआ चलता है।”

महादेवी की आलोचक दृष्टि

स्पष्ट शब्दों में, इसका अर्थ यह हुआ कि सौन्दर्य का सम्बन्ध रूप से होने के कारण वह हमारे निकट है, हमारा उससे स्नेह-परिचय है। रूपों की परिचित अनेकता की 'भावना' करता हुआ साहित्यकार जब क्रमशः उनकी मौलिक एकता की ओर व्रतता है तो उसे एक विशिष्ट सामञ्जस्य-दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही सामञ्जस्य-दृष्टि साहित्य की मूल प्रेरणा है और, स्वभावतः आनन्दरूपा है, क्योंकि आनन्द का अर्थ भी तो हमारी अन्तर्वृत्तियों का सामञ्जस्य ही है। 'रसो वै सः' को मानने वाला भारतीय साहित्यशास्त्र मूलतः इसी आनन्दरूप सामञ्जस्य या अखण्डता पर आधृत है। इसी से वह एक ओर आधारणीकरण के मौलिक तत्व तक पहुँच सका और दूसरी ओर क्रोध, शोक, जुगुप्सा और भय आदि में भी सात्विक आनन्द की उपलब्धि कर सका।

यहीं आकर साहित्य की उपयोगिता का भी प्रश्न हल हो जाता है। जिसका माध्यम सत्य है, माधन सौन्दर्य है और प्रक्रिया आनन्दरूप, उस साहित्य की उपयोगिता जीवन की चरम उपयोगिता है। परन्तु उसका माध्यम स्थूल विधि-निषेध न हो कर आन्तरिक सामञ्जस्य ही है। इस प्रकार साहित्य एक ओर सिद्धान्तों का व्यवसाय होने से बच जाना है, दूसरी ओर सस्ता मनोरञ्जन होने से। इस रूप में स्वभावतः ही महादेवी साहित्य को एक शाश्वत सत्य मानती हैं। अनेकता में एकता ढूँढने वाली उनकी दृष्टि जीवन और साहित्य के सनातन सिद्धान्तों और मूल्यों को लेकर चलती है, जो परिवर्तनों के बीच भी अच्युत रहते हैं।

“यह सत्य है कि संस्कृति की बाह्य रूप-रेखा बदलती रहती है, परन्तु मूल-तत्त्वों का बदल जाना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वह विशेष भूखण्ड और उसे चारों ओर से घेर लेने वाला विशेष वायुमण्डल ही न हटा लिया जाय।”

अतएव यह स्पष्ट है कि महादेवी कविता को गणित के अंकों में घटित होने वाला एक तथ्य-मात्र न मान कर, मूल रूप में रहस्यानुभूति ही मानती हैं। उपर्युक्त उद्धरण में एकता की स्थिति को विस्मय-भरी कहने का यही तात्पर्य है। एक स्थान पर उन्होंने अपना मन्तव्य असंदिग्ध शब्दों में व्यक्त ही किया है—

“व्यापक अर्थ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या

प्रत्येक सामञ्जस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है। यदि एक सौन्दर्य-ग्रंथ या सामञ्जस्य-खण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सौन्दर्य का द्वार नहीं खोल देता तो हमारे अन्तर्गत का उल्लास से आलोकित हो उठना सम्भव नहीं।”

वास्तव में कविता के ही नहीं जीवन के विषय में भी उनकी यही रहस्यात्मक भावना है। “मनुष्य चाहे प्रकृति के जब उपादानों का संघात विशेष माना जावे और चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत, परन्तु किसी भी अवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए गणित के अंको के समान एक निश्चित सिद्धान्त ढे सकें।” इसलिए उनका दृष्टिकोण विदेश के भूतवादी दार्शनिकों के दृष्टिकोण से जो जीवन को काम या केवल अर्थ पर केन्द्रित मान कर चलते हैं, मूलतः भिन्न है ! उनकी दृष्टि समन्वयवादी है जो काम और अर्थ के आंशिक महत्व को तो मुक्त कण्ठ से स्वीकार करती है परन्तु जीवन को समग्रतः इनकी ही इकाइयों में घटाना स्वीकार नहीं करती। भौतिक यथार्थवाद को वे पूर्णतः स्वीकार तो करती हैं, परन्तु निरपेक्ष रूप में नहीं, आध्यात्मिक आदर्श के साथ। जीवन की खण्ड खण्ड विविधता ही भौतिक यथार्थ है, अखण्ड एकता ही आध्यात्मिक आदर्श। पहिला पदार्थ या अर्थ-काम के घटकों में आँका जा सकता है, दूसरा अनुभूति का ही विषय होने के कारण निश्चय ही थोड़ा-बहुत रहस्यमय है।” इसी-लिये एक ओर महादेवीजी साहित्य के व्याख्यान में भौतिक वातावरण को उचित महत्व देती हैं, दूसरी ओर वह सामञ्जस्य या एकता की आध्यात्मिक कसौटी का उपयोग करती हैं।

इसी प्रकार वे काव्यानन्द को भी ऐन्द्रिय संवेदनों से न हूँद कर प्राण-चेतना के उस सूक्ष्म धरातल पर हूँदती हैं जहाँ बुद्धि और चित्त, ज्ञान और अनुभूति का पूर्ण सामञ्जस्य हो जाता है, जो चिन्तन का धरातल है, जहाँ भट्टनायक या अभिनव के शब्दों से सतोगुण, तमस् और रजस् पर विजयी होता है। यहाँ आकर उनकी स्थिति एक ओर अति-बुद्धिवादी और दूसरी ओर अति-रसवादी साहित्यकारों से भिन्न हो जाती है।

सामञ्जस्य की यह दृष्टि, दूसरे शब्दों में संतुलन और संयम की दृष्टि है जिसमें किसी भी प्रकार के अतिचार को, जीवन-प्रवाह के उन असाधारण क्षणों को जहाँ संतुलन और संयम तट के मृत्तिका खण्डों की तरह बह जाते

महादेवी की आलोचक दृष्टि

हैं, स्थान नहीं। यह दृष्टि या तो जीवन के साधारण धरातल पर ही रुक जाती है और या फिर एकदम पूर्ण स्थिति—वाल्मीकि, व्यास, शेक्सपियर पर ही रुकती है। इसलिए यह अमृत-दृष्टि वायरन जैसे विषपायियों के प्रति, जो सामञ्जस्य और संतुलन की अवस्था तक नहीं पहुँच पाये हैं, सदैव कितनी क्रूर रही है। एक ओर सामञ्जस्य-द्रष्टा रवीन्द्र माईकेल को क्षमा नहीं कर पाये थे, और दूसरी ओर सामञ्जस्य-द्रष्टा महादेवी उग्र या अंचल को क्षमा नहीं कर सकतीं। इनकी शक्ति को ये लोग आत्म-घातिनी शक्ति कह कर छोड़ देंगे। परन्तु क्या यह उचित है? सत्य यह है कि यह सामञ्जस्य नैतिक बन्धनों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका, इसलिये एक स्थान पर जाकर उसमें भेद-बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। महादेवी के साहित्यिक मान नैतिकता के बाँध में काफी दबे हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। और इसमें उनका स्त्रीत्व बाधक हुआ है, जो मर्यादा से बाहर जीवन की सुक्ति खोजने का अभ्यासी नहीं है। और, वास्तव में अभी महादेवीजी की दृष्टि पूर्ण सामञ्जस्य की अधिकारिणी भी नहीं हो पायी। क्योंकि उसमें पुरुषत्व से भिन्न नारीत्व की इतनी प्रखर चेतना वर्तमान है कि वह पुरुष को आततायी प्रतिद्वन्द्वी के अतिरिक्त और कुछ कठिनाई से ही समझ पाती है। महादेवी जैसे उन्नत व्यक्तित्व में यह भाव अदृश्य किसी ग्रन्थि की ही अभिव्यक्ति है जो अभी उलझी रह गई है।

सामयिक समस्या

इन मिळान्तों का उपयोग उन्होंने आधुनिक हिन्दी-साहित्य के विवेचन में किया है और यहाँ हमें महादेवीजी का सक्रिय आलोचक रूप मिलता है। छायावाद और प्रगतिवाद से सम्बद्ध लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रसङ्गों पर उन्होंने सम्यक् प्रकाश डाला है जो संक्रान्ति की इस कुहरवेला में फैली हुई अनेक भ्रान्तियों को दूर कर देता है। इन प्रसङ्गों में से मुख्यतम प्रसङ्ग छायावाद की लेकर आइये बहस की जाय—

छायावाद

मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है। स्वच्छन्द घूमते-घूमते थक कर वह अपने-लिए सहस्र बन्धनों का आविष्कार कर डालता है

महादेवी की आलोचक दृष्टि

और फिर बन्धनों से ऊब कर उनको तीडने में मारी शक्तियाँ लगा देता है।”

“छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ है। उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्यकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा।”

“स्वच्छन्द छन्द में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है।”

“छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है जो मूर्त्त और अमूर्त्त विश्व को मिला कर पूर्णता पाना है।”

“बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावन किया, हृदय की भाव्य-भूमि पर उसने प्रकृति में विखरी हुई सौन्दर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की, और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को मिला कर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार सँभाल सकी।”

“छायावाद करुणा की छाया में सौन्दर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही है।”

इस प्रकार महादेवीजी के अनुसार—

१. छायावाद की मूलचेतना है सर्ववाद और इसकी भाव-भूमि है मुख्यतः प्रकृति, क्योंकि सर्ववाद की व्यञ्जना का मुख्य माध्यम वही है।

२. इस सामान्य चेतना पर कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःख की चेतना का गहरा प्रभाव है। वास्तव में सिद्धान्त में समष्टिवादी होती हुई भी यह चेतना व्यवहार में व्यष्टिवादी ही है।

३. सर्ववाद निसर्गतः ही करुणा को जन्म देता है, अतएव जन्म से ही छायावाद पर करुणा की छाया है।

४. उसका उद्गम-स्थान हमारी प्राण चेतना का वह सूक्ष्म धरातल है जहाँ बुद्धि और चित्त का संयोग होता है। अर्थात् छायावाद चिन्तन के क्षणों की उद्भूति है। अतएव वह स्वभावतः ही अन्तर्मुखी कविता है।

५. छायावाद में मूर्त्त और अमूर्त्त के सामञ्जस्य की पूर्णता है।

महादेवी की आलोचक दृष्टि

उपर्युक्त विवेचन मेरी अपनी धारणाओं के इतना निकट है कि इसमें विशेष आपत्ति के लिए स्थान नहीं है। फिर भी ऐसा अवश्य लगता है कि महादेवीजी ने छायावाद की तन्वी कविता पर दर्शन का बोझ कुछ अधिक लाद दिया है। अपने मूल-रूप में छायावाद द्विवेदी-युग की स्थूल प्रवृत्तियों के विरोध में जर्ग हुई जीवन के प्रति एक रोमानी प्रतिक्रिया थी—स्थूल उपयोगिता के स्थान पर जिसमें एक रहस्योन्मुखी भावुकता थी। सामयिक परिस्थितियों के अनुरोध में जीवन से रस और मांस ग्रहण न कर सकने के कारण वह एक तो वाञ्छित शक्ति का सञ्चय नहीं कर पायी, दूसरे एकान्त अन्तर्मुखी हो गई। इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक दमन और अतृप्तियों का बहुत बड़ा योग है, इसको कैसे भुलाया जा सकता है ?

महादेवीजी ने कविता की तात्विक परिभाषा में छायावाद को कुछ ऐसा फिट कर दिया है कि वह कविता के परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही लगता है—यह स्वभावतः असत्य है। छायावाद की अपनी सीमाएँ हैं। उसकी कविताओं में जितनी सूक्ष्मता है उतनी शक्ति नहीं, जितनी सुकुमारता है उतनी तीव्रता नहीं, जितना अरूप-चिन्तन है उतना मांसल रस नहीं आ सका—इसका निषेध कैसे किया जा सकता है ! हमारे दो प्रतिनिधि कवि पन्त और महादेवी जीवन में पूरी तरह उतर ही नहीं पाये। जब जीवन की भूख तडपती थी तब तो वे परिस्थितिवश उसे झुठलाते रहे, और जब भूख मन्द पड गई तब वे जीवन में उतरे—पर इस समय उसका संस्कार करने के अतिरिक्त इनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रहा। संस्कार में रस तभी आता है जब उसके द्वारा खोलती हुई वासनाओं से संवर्ष कर उन पर विजय प्राप्त की जाती है। प्रसाद और निराला में स्थान-स्थान पर वह भूख हुँकार उठी है, और वहीं वे महान् काव्य की सृष्टि कर सके हैं।

आलोचना शक्ति

महादेवीजी की आलोचना-शैली चिन्तन की शैली है, जिसमें विचार और अनुभूति का संयोग है। वह जैसे बौद्धिक तथ्यों को पचा-पचाकर हमारे समक्ष रखती हैं। निदान बौद्धिक तीक्ष्णता तो उनके विवेचन में इतनी नहीं मिलती, परन्तु संश्लेषण सर्वत्र मिलता है। कहीं भी किसी प्रकार की उलझन नहीं है। यह दूसरी बात है कि पाठक को उसे तत्काल ग्रहण कर लेने में कठिनाई हो। क्योंकि उसका तो कारण है—यह कि विचार की अपेक्षा चिन्तन

को ग्रहण करने में देर लगती है। शुक्लजी की शास्त्रीय गवेषणा से सर्वथा भिन्नरूपीयह शैली प्रसाद और पन्त की ठोस बौद्धिक विवेचना की अपेक्षा टैगोर की लचीली काव्य-चिन्तना के अधिक समीप है।

एक दूसरी विशेषता जो महादेवी की आलोचना में मिलती है वह है ऐतिहासिक एक-सूत्रता जो सामञ्जस्य को जीवन का और साहित्य का मूलाधार मानकर चलने वाले आलोचक के लिए स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए एक ओर उन्होंने छायावाद की प्रकृति-भावना का वेदों से आरम्भ होने वाली प्रकृति-भावना की भारतीय परम्परा के साथ बड़ी सुन्दरता के साथ सम्बन्ध-निरूपण किया है; दूसरी ओर आधुनिक काव्य-प्रवृत्तियों का समाज की आर्थिक परम्पराओं के साथ। इसलिए उनकी आलोचना प्रायः एकाङ्गी नहीं हुई। उसमें अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्तियों का संतुलन है, और जीवन की विस्तृत भूमिका पर रखकर भी साहित्य को उसके अतिप्रत्यक्ष प्रश्नों से बचाए रखने का विवेक और सुरुचि है।

सारतः महादेवी के ये निबन्ध काव्य के शाश्वत सिद्धान्तों के अमर व्याख्यान हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवण्डर में भटका हुआ जिज्ञासु इन्हें आलोक स्तम्भ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है।

‘त्यागपत्र’ और ‘नारी’

प्रेमचन्द्रजी के सभी उपन्यास हिन्दी के मूर्धन्य पर आसीन होने योग्य नहीं हैं। ‘गोदान’ उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। उसके अतिरिक्त ‘गबन’, ‘सेवासदन’, ‘रङ्गभूमि’ आदि में भी बहुत-कुछ है जो अमर रहेगा। हिन्दी में इनमें टकर लेने वाले उपन्यास बहुत नहीं प्रकाशित हुए। जो हुए वे उँगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे ‘त्यागपत्र’, ‘नारी’, ‘चित्रलेखा’, ‘शेखर’ इत्यादि :

समय और सुविधा को देखते हुए यहाँ में श्री जैनेन्द्रकुमार के ‘त्यागपत्र’ और श्री सियारामशरण गुप्त के ‘नारी’ उपन्यासों को लूँगा। ये दोनों उपन्यास मुझे काफ़ी प्रिय हैं। इनमें कुछ इस प्रकार की समता और विषमता है जो तुलनात्मक अध्ययन को रोचक और उपयोगी बना देती है।

त्यागपत्र और नारी दोनों ही में एक नारा की कहानी है। त्यागपत्र एकमात्र मृणाल की व्यक्तिगत कहानी है, और नारी जमुना की। मृणाल और जमुना दोनों के ही व्याक्तृत्वों के मूल में अतृप्ति है। दोनों ही हमारे सन्मुख एक अभुक्त वासना लिये आती हैं। मृणाल के तो जीवन का ही आरम्भ इस अतृप्ति से होता है। उसके माता-पिता नहीं हैं। भाई का स्नेह उनके स्नेह की कमी को भर नहीं पाता। उसको स्नेह की भल्लक एक दूसरे व्यक्ति से मिलती है। पर मिलने के साथ ही वह एक तीखा घाव छोड़कर सदा के लिए मिट जाती है। भावज की कठोर ताड़ना उस अभाव की अग्नि को और भी भड़काती है, और अन्त में उसका बेमेल विवाह एवं पति की यन्त्रणाएँ इस जीवन-व्यापी अतृप्ति में पूर्ण आहुति बन जाती हैं। इस प्रकार वासना पूर्णतः अभुक्त और अतृप्त रहकर उसके जीवन में एक अद्भुत गति और शक्ति का सञ्चरण करती है। जीवन के मध्याह्न तक तो उसे इस वासना के संस्कार का उचित माध्यम नहीं मिल पाता, और वह एक उदास तीव्रता लिये झुलसती और झुलसाती—जीवन को मानो चीरती हुई—भटकती रहती है। बीच में वह पातिव्रत की बात करती है, अपने पति के साथ

त्यागपत्र और नारी

समझौते का प्रयत्न करती है, एक अत्यन्त निकृष्ट व्यक्ति—कोयले वाले—के साथ ममता का खेल करती है, पत्नी-धर्म के निर्वाह का दावा करती है। पर यह सब कुछ जैसे एक तीखा व्यंग्य है। सचमुच चारों ओर से नकार प्राप्त कर मृणाल का जीवन ही एक तीव्र व्यंग्य बन गया है।

जमुना का व्यक्तित्व व्यंगमय नहीं है। कारण यह है कि उसमें आरम्भ से ही निषेध और स्वीकृति का मिश्रण रहा है। उसको चारों ओर से नकार ही नहीं मिला। आरम्भ में पति का मुक्त प्रणयज्ञान, उसके चले जाने पर श्वसुर का स्निग्ध वात्सल्य, और उनके मरने के बाद हल्ली के स्नेह में उसे जीवन की मधुर स्वीकृति भी मिली है। इसके साथ ही बाद में पति की उपेक्षा में, गाँव वालों के—विशेषकर चौधरी के—कटु-व्यवहार में उसे तिरस्कार भी मिला है। परन्तु कुल मिलाकर वास्तव में यह नकार उस स्वीकृति से कहीं हल्का बैठता है। इसीलिए जमुना कई बार विचलित होकर भी विश्वास नहीं खो पाती, जीवन की स्वीकृति का अपमान नहीं कर पाती। जीवन की चरम परिणति में भी—जब वह पति का ध्यान छोड़ एक दूसरे व्यक्ति को ग्रहण करने का निश्चय कर लेती है—वह जीवन को स्वीकार ही करती है, उसका निषेध नहीं करती। उसके जीवन में अतृप्ति है। उसकी वासना प्रणय के अभाव में अतृप्त और अभुक्त रहती है। परन्तु उसके साथ ही उसको व्यक्त और तुष्ट करने का साधन भी तो पुत्र-रूप में उसके पास है। वह गृहिणी है। गृहस्थ-जीवन की मर्यादा का भी, जिसके समतल थामले में हल्ली-जैसा सुन्दर पौधा पनप रहा है, उसकी वासना पर अधिकार है। इसलिए उसके व्यक्तित्व में मृणाल की-सी तीव्रता और गति नहीं रह गई; परन्तु विश्वास की प्रशान्त गम्भीरता उसमें है। मृणाल यदि लैम्प की प्रखर लौ है जिसमें प्रकाश के साथ विषाक्त धुआँ भी है तो जमुना घृत का स्निग्ध दीपक है जिसमें प्रकाश चाहे हल्का हो पर धुआँ बिल्कुल नहीं है।

इन दोनों पात्रों के व्यक्तित्वों के अनुसार ही दोनों उपन्यासों के मूल प्रश्नों में भी साम्य है।

इन दोनों रचयिताओं की विचारधारा की एक दिशा है। दोनों ही दार्शनिक या सामाजिक शब्दावली में गाँधी-नीति में, और मनोविश्लेषण की शब्दावली में आत्म-पीडनमें विश्वास करते हैं। दोनों ही एक स्वरमें कह उठते हैं—

“सचमुच जो शास्त्रसे नहीं मिलता वह ज्ञान आत्मव्यथा में मिल-जाता है।”—त्यागपत्र

त्यागपत्र और नारी

“लोग ऊपर-ऊपर देखते हैं कि इसे दुख है। किसीको दुखही दुख हो तो वह जिन्दा कैसे रहे ? आज तो पूरा उपाय करने की सोचली है। आनन्द इसमें भी है।”—नारी

और अधिक स्पष्ट किया जाय तो वास्तव में इस दृष्टिकोण का निर्माण अहिंसा के आधारपर काम की स्वीकृति के द्वारा हुआ है।

दोनों उपन्यासों में आत्म-व्यथा में जीवनकी शक्ति का मूल स्रोत माना गया है। कष्ट के कारणों से घृणा न करते हुए, कष्ट को अनिवार्यता से त्रास न न्याकर, उसमें आनन्द की भावना करना अहिंसा है; और अहिंसा यह सिखाती है कि अभुक्त वासना का वितरण करनाही उसकी सफलता है। मृणाल अन्त में जाकर इसी उपचार को ग्रहण करने में अपनी सुक्ति समझती है। जमुना में यह भावना प्रारम्भ से ही वर्तमान है। परन्तु दोनों के दृष्टि-कोणों में एक अन्तर है—नारी की विचार धारा में समाज-नीति की मर्यादा का रक्षण है, परन्तु त्यागपत्र में यह बात नहीं है। जमुना के सृष्टाने इस बात का ध्यान रखा है कि दूसरे व्यक्ति को ग्रहण करनेमें भी वह समाज-नीति का उल्लङ्घन न कर पाये। जमुना जिन वर्ग की नारी है, उसमें पुनर्विवाह या दूसरा घर बसा लेना जायज़ है। इसके विपरीत त्यागपत्र में सामाजिक मानकोंकी अन्तिम स्वीकृति नहीं है। पति के हाँसे हुए भी मृणाल अपने प्रति मद्दव्यतहार करने वाले व्यक्ति को शरीर-नमस्पर्श कर बैठती है। और उत्तजना में आकर नहीं, ठण्डे सस्तिष्क से। जैनेन्द्रजी नीति की चहारदीवारी को तोड़ जीवन में प्रवेश करना शायद आत्म-कल्याण के लिए उचित समझते हैं, परन्तु सियारामशरण जी समाज की मर्यादा-भङ्ग करना श्रेयस्कर नहीं मानते।

दोनों उपन्यासों के मूल प्रश्नों को ऋजु-शैली से समझिए—

सबसे पहले दो नारियाँ अपने जीवन का संघर्ष लेकर हमारे सामने आती हैं और हमारे मन में प्रश्न उठता है कि नारी-जीवन की मुक्ति किससे है—विवाह की मर्यादामें, या प्रवृत्ति के उपभोग में ? प्रत्यक्ष रूपमें यही धारणा होती है सियारामशरणजी प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए भी विवाह की मर्यादा के पक्ष में हैं और जैनेन्द्रजी समाज-मर्यादाका आदर करते हुए भी प्रवृत्ति के ही समर्थक हैं। पर यह तो हमारे अध्ययनकी पहली मंज़िल है। त्यागपत्र और नारी का मूल प्रश्न अभी हमारे हाथ नहीं आया। अभी और आगे चलना है और उसके लिए हमें मृणाल और जमुना के व्यक्तित्वों के पार देखना पड़ेगा

त्यागपत्र और नारी

क्योंकि त्यागपत्र और नारी स्पष्टतः ही सामाजिक समस्या के उपन्यास नहीं है। उनका—विशेषकर त्यागपत्र का—सम्बन्ध मानव जीवन के मौलिक प्रश्न से है : जीवन की मुक्ति क्या है ?

त्यागपत्र के साथ यह विशपता लगा देने का अर्थ यह है कि नारी में पाठककी दृष्टि उसके सामाजिक समस्या वाले पहलु पर अपेक्षाकृत अधिक ठहरती है : मृणाल की अपेक्षा जमुना समाज की इकाई ज़्यादा है, उसके जीवन में सामाजिक समस्या भी थोड़ा-बहुत महत्त्व तो रखती ही हैं। लेकिन फिर भी यह पहिली मंज़िल तो आप को पार करनी ही होगी, तभी आप इन उपन्यासों की अन्तर्धारा में प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ आकर मृणाल और जमुना उपलब्ध बन जाते हैं—समाज तथा पुरुष और नारी के आवरणों को पारकर जैसे ये दोनों शुद्ध व्यक्ति रह जाते हैं और जीवन का समाधान ढूँढने में व्यस्त दिखाई देते हैं। विधान या प्रवृत्ति ?—यह इनका मूल प्रश्न है और यही सामाजिक मानव का चिरन्तन प्रश्न भी है।

जैसा मैंने ऊपर कहा, जैनेन्द्रजी विधान का साधारण रूपमें आदर करते हुए भी अन्तिम परिणतिपर पहुँच कर उसका निषेध कर देते हैं। सर एम० दयाल का त्यागपत्र पर सही करना स्पष्ट रूपमें जैनेन्द्रजी का विधान के निषेध पर सही करना है। वह महसूस करते हैं : “कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं क्यों ? सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि ग़लत है। समाज ग़लत है…… इसमें तर्क नहीं है, सङ्गति नहीं है, कुछ नहीं है। इससे ज़रूर कुछ होना होगा, ज़रूर कुछ करना होगा।”

आगे एक प्रश्न उठता है—‘पर क्या…आ ?’ यहाँ आकर अधिकांश संक्रान्ति-काल के विचारकों की भाँति वे घबराकर रुक जाते हैं। परन्तु उनकी आस्था, जिसका पोषण गाँधी-नीति के प्रभाव में हुआ है, उनकी मदद करती है; और वे अहिंसा या तपस्या में जीवन का समाधान मान लेते हैं—यद्यपि वह पूर्णतः उसके घट में उतर जाता है, इसमें मुझे सन्देह है। उनके पास एक यही उत्तर है और यही उत्तर सियारामशरणजी के पास भी है। दोनों का प्रश्न एक है, उत्तर भी एक है, परन्तु क्रिया भिन्न है।

सियारामशरण जी को जीवन-विधान की गड़बड़ का इतना तीखा अनुभव नहीं होता, लेकिन वे उस पर सन्देह अवश्य करते हैं। उसको तोड़ने का लोभ भी उनको कम नहीं होता है—क़रीब-क़रीब तोड़ ही देते हैं—लेकिन

त्यागपत्र और नारी

अन्त में उन्हें उम्मीकी और लौटना पड़ता है। वे मानो इस प्रकार सोचते हो— पीड़ा जीवन में अनिवार्य है, उन्हीं में आनन्द की भावना कर लेना जीवन का समाधान प्राप्त कर लेना है; और प्रवृत्ति के बन्धन की पीड़ा ही सच्ची पीड़ा है।

इस प्रकार आत्म-पीडन की क्लिष्टता में विश्वास रखने वाले ये लम्बक दो विभिन्न क्रियाओं द्वारा जीवन का समाधान ढूँढ निकालते हैं— जैनेन्द्रजी विधान से युद्ध करते हुए और सियारामशरणजी प्रवृत्ति से लड़ते हुए।

दृष्टिकोण का यही अन्तर दोनों व्यक्तियों के अन्तर को स्पष्ट कर देता है। प्रवृत्ति के समर्थक जैनेन्द्रजी का अहं स्वभावतः ही अधिक बलिष्ठ और तीव्र होता चाहिए। उन्हीं विधान में आस्था रखने वाले सियारामशरणजी में अधिक आत्म-निषेध होता उतना ही स्वभावात्मिक है। दोनों व्यक्तियों का जीवनदर्श एक है—पूर्ण अहिंसा की स्थिति प्राप्त कर लेना, अर्थात् अपने अहं को पूर्णतः धुन्ना देना। इस माध्य के लिए सियारामशरणजी की साधना अधिक दार्ष्टिक है, नैतिक दमन का अभ्यास उनको अधिक है, और उनका अहं मचमुच महत्त्व काही हुआ चुका है। अहिंसा बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व का अहं दल चुका है। इसके विपरीत जैनेन्द्र का अहं अब भी इतना बजरा और पैना है कि उन्हीं सदगी, दिनभरता और तरलता को चीरता हुआ चरण-क्षण मामने आ जाता है। इन्हींलिए अपने प्राण्य के लिए उनको सियारामशरण की अपेक्षा अधिक संघर्ष करना पड़ता है। उनके जीवन में संघर्ष अधिक है, ठीक उतना ही अधिक जितना मृणाल के जीवन में जलुना की अपेक्षा। सियारामशरणजी में उदय का अंश अधिक है, वे अधिक आस्तिक हैं। जैनेन्द्रजी में बुद्धि की तीव्रता है, अतएव उनके मन में सन्देह का संघर्ष अधिक है। इन्हींलिए जैनेन्द्र अधिक व्यक्तिवादी हैं—सियारामशरणजी में सामाजिकता की भावना अधिक है। सियारामशरणजी के लिए अहिंसा का आदर्श कुछ सीमा तक प्राप्त भी है, परन्तु जैनेन्द्रजी के लिए अभी वह एक प्राण्य-मात्र है। उनकी जागरूक मेधा और उससे भी अधिक जागरूक अहङ्कार स्वाभाव से ही अहिंसा के आत्म-निषेध के प्रतिकूल हैं। इसीलिए उनको उसके प्रति आग्रह अधिक है। यही कारण है कि उनके उपन्यास में संघर्ष तीव्र और मशक्त है।

मेरी अपनी धारणा यह है कि साहित्य की शक्ति और तीव्रता उसके स्रष्टा के अहं की शक्ति और तीव्रता के अनुसार ही होती है। दुर्बल अहं,

अथवा किसी भी कारण से दवा हुआ अहं, यहाँ तक कि घुला हुआ अहं भी, आर्द्रता की ही सृष्टि कर पाता है, शक्ति की नहीं। निदान त्यागपत्र में जहाँ तीव्रता है वहाँ नारी में आर्द्रता है।

शैली में भी दोनों को वही सन्बन्ध है जो उनके व्यक्तित्व में—यानी त्यागपत्र की शैली में तीखापन और वक्रता है, नारी की शैली में कोमलता और सरलता है। त्यागपत्र की कहानी जैसे दिल और दिमागको चीरती हुई आगे बढ़ती है, और नारी की कहानी को सुनकर जैसे पीड़ा मधुर-मधुर घुल उठती है। त्यागपत्र की शैली में कठोर निर्ममता है, उसके कुछ चरणों की निर्ममता तो असह्य है। अगर आपको सामने कोई व्यक्ति मुँह की रङ्गत को बिगाड़ता हुआ तकलीफ के साथ जहर पीता हो तो आप कैसा महसूस करेंगे ? और अगर यही व्यक्ति बिना किसी प्रकार के भाव-परिवर्तन के गम्भीरता के साथ ज़हर को गट-गट कर जाय, तो आपको कैसा लगेगा ? मृणाल की कुछ आत्म-यन्त्रणाएँ ऐसी ही हैं। इसके विपरीत नारी की शैली में घेरलू स्निग्धता है। जमुना आत्म-व्यथा में विश्वास करती हुई भी अपने प्रति स्निग्ध और करुण है। अतएव नारी की कहानी में कोमल-स्निग्ध गति है। उसमें हृदय को स्पर्श करने वाले स्थल अनेक हैं, हृदय को चीरने वाले स्थल नहीं हैं। नारी की यह करुण कहानी हल्ली के बाल-सुलभ क्रिया-व्यापारों से मन बहलाती हुई धीरे-धीरे आगे बढ़ती है—यहाँ तक कि कहीं-कहीं इसकी गति मन्द पड़ जाती है और पाठक सोचता है कि हल्ली के ये खेल और मुकदमे कुछ कम होते तो अच्छा था, क्योंकि कहीं-कहीं वे कहानी को उलझा लेते हैं। नारी की कहानी का यह दोष उसके प्रभाव में बाधक होता है।

इन दोनों कहानियों की गठन में एक-एक स्थल ऐसा मिलता है जहाँ पाठक का मन रुककर उसकी स्वाभाविकता पर सन्देह कर उठता है।

त्यागपत्र में जब मृणाल पति के घर से निकल कर एक कोयले वाले को ग्रहण कर लेती है तो शायद अनेक पाठकों की भाँति मेरा मन भी पूछ उठता है—क्या एक शिक्षिता मध्य-वर्गीय बाला के लिए यह स्वाभाविक है ? क्या वह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती थी, जैसा कि उसने बाद में कुछ दिन के लिए किया ? और अगर उसे किसी पुरुष के सहारे की ही आवश्यकता थी तो क्या कोयले वाले की अपेक्षा अच्छे चुनाव की गुंजाइश नहीं थी ? यह सन्देह एक बार ज़रूर उठता है। लेकिन इसका समाधान

त्याग-पत्र और नारी

प्राप्त कर लेना भी सम्भवतः पाठक के लिए असम्भव नहीं है। मृणाल के व्यक्तित्व में बुद्धि और संवेदना की प्रखरता के कारण एक असाधारणता है। अतएव एक साधारण मध्यवर्ग की युवती को दृष्टि में रखकर उसका व्यवहार की समीक्षा करना गलत होगा। जीवन में नकार पाकर उसका स्वभाव से ही संवेदनाशील मन अतिमग्न संवेदनाशील हो गया है। वस, उस आखिरी धक्के से वह एकबार कुछ समय के लिए समग्रतः डूब जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता—उस पर अहसान करने वाला पहला पुरुष यही आगमना से कुछ समय के लिए तां उसके जीवन में प्रवेश कर ही सकता है। बटे-बटे कर्म-पत्तियों की स्त्रियाँ फकीरों के साथ भाग जाती हैं! और मृणाल के साथ तो यह स्थिति सान्त्विक विचलता के अतिरिक्त चैलेञ्ज का परिणाम भी हो सकती है! मरुत के पाठक को इस प्रकार के पात्रों को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होगी।

नारी में भी एक स्थूल संवेदप्रद है। ज्यों ही जमुना की कहानी अन्तिम स्थिति पर पहुँचती है, हठी का एक साथी हीरा, सिरु हल्ली से बदला लेने के लिए, जमुना के पति को एक ऐसा पत्र लिख देता है कि सारा खल धिगट जाता है। यह पत्र इतना कौशलपूर्ण है कि इसको हीरा-जैसा छोटा बालक तभी लिख सकता था जब सियारामशरणजी इवारत बोलते गये होते। माना कि यह घटना जमुना के व्यक्तित्व-विकास में प्रत्यक्ष-रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु कथा के विकास में इसका महत्व असंदिग्ध है। इसकी दृष्टि कथा-शिल्प की एक दृष्टि है। इसका समाधान मुझे बहुत मोचने पर भी नहीं मिल पाया।

यहाँ आकर जैनेन्द्रजी और सियारामशरणजी की शैली का एक और अन्तर स्पष्ट हो जाता है—जैनेन्द्रजी अपनी शैली के प्रति जागरूक हैं; प्रभाव को तीव्र करने के लिए उन्होंने सचेत होकर कोशिश की है। उन्होंने इंग्लिश संवेदना के सापेक्ष रूप में सर एम० दयाल की सृष्टि की है। वह प्रभाव को तीव्र करते जाते हैं और पारा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। अन्त में मृणाल की मृत्यु पर, जैसे ताप के सीमा पार कर जाने से यन्त्र टूट जाता है, सर एम० दयाल जली से स्तीक्रा दे देते हैं। यह उपन्यास-शिल्पी का अद्भुत कौशल है। इसीलिए जब कभी जैनेन्द्रजी सादगी में आकर टेकनीक या शिल्प से सर्वथा अवोध होने की बात करने लगते हैं तो हँसी आ जाती है।

त्याग-पत्र और नारी

उधर सियारामशरणजी का लक्ष्य—कम-से-कम नारी में—एक सीधी-सच्ची करुण-स्निग्ध कहानी ही रहा है। उन्होंने जागरूक होकर प्रभाव को तीव्र करने का प्रयत्न नहीं किया, या किया है तो इतने हल्के हाथों से कि वह लक्षित नहीं होता। उदाहरण के लिए आप वह स्थल ले सकते हैं जहाँ एक दूसरा व्यक्ति जमुना के जीवन में प्रवेश करता है और जमुना उसे समर्पण कर देती है। यह सब ऐसे होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। पाठक के मन में जमुना के जीवन का यह महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार सरक जाता है कि वह बिलकुल नहीं चौकता। इसके विपरीत आप मृणाल का समर्पण लीजिए। उसमें कितना व्यंग्य है, कितनी कचोट है, कितनी तीव्रता है। उसके जीवन का यह तथ्य पाठक के मन को चीरता हुआ, उसकी वृत्तियों को झनझनाता हुआ, प्रवेश करता है।

त्यागपत्र का कौशल अपनी विदग्धता के बल पर अपने मेधावी शिल्पी की दुहाई देता है, और नारी का कौशल अपने को छिपाकर अपने स्नेहार्द्र शिल्पी की सिकारिश करता है।

अज्ञेय और शेखर

शेखर का दूसरा भाग अभी कुछ दिन हुए, तीन-चार वर्ष के अन्तराय के उपरान्त, प्रकाशित हुआ है। यद्यपि पहिले और दूसरे भागों में शेखर सम्पूर्ण नहीं है—अभी कुछ और भी है जो सामने आयेगा—और वास्तव में तभी हमारा दृष्टिकोण भी निश्चित एवं स्थिर हो सकेगा—फिर भी तीसरे (और शायद चौथे भी ?—) भाग का अभाव शेखर की गरिमा और मौन्दर्य का प्रमाण करने में विशेष बाधक नहीं होता।

शेखर हिन्दी के उन गौरव-ग्रन्थों में से है जो प्रत्येक जागरूक आलोचक का आह्वान कर कहते हैं—“आर्या, हमारे सहारे अपनी शक्ति की परीक्षा करो।” और यद्यपि उनमें इतना-कुछ है जो मन और मस्तिष्क को उद्वेलित करता है कि उसे पढ़कर मौन हो जाना, अगर वह लेखक की आत्मा से सायुज्य स्थापित कर लेना नहीं है तो, निश्चय ही साहित्यिक चेतना के दौर्बल्य का संकेत है।

शेखर एक शक्ति-पूर्ण व्यक्ति का अपने जीवन का प्रत्यालोकन है। और चूंकि इस व्यक्ति को शीघ्र ही फाँसी पा जाने का लगभग निश्चय-सा है, इसलिए इस प्रत्यालोकन में एक अनिवार्य तीव्रता आ गई है, जिसके कारण अपने जीवन के आर-पार देख लेना उसे सहज-सम्भव हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मृत्यु का साक्षात्कार हठयोग की एक सफल क्रिया है जो मनुष्य को प्रायः अन्तर्भेदी दृष्टि प्रदान कर देती है। यह दृष्टि केवल साधन-शक्ति—केवल देखने वाली शक्ति नहीं होती। इसका एक आत्म-रूप भी होता है, जो देखत-नही देखता है। उसे ही लेखक ने विज्ञान कहा है। पहिले दो भागों में इस विज्ञान की झिलमिली ही झिलमिली है—पूर्ण दर्शन शायद तीसरे में होगा—इसलिए हम इसे अभी छोड़ देते हैं। इसके द्वारा जो देखा गया वही हमारा आलोच्य है। अस्तु !

शेखर के पहिले भाग में एक संक्षिप्त परन्तु अत्यन्त मूल्यवान् भूमिका दी हुई है। उसके तीन चरण हैं। पहिले में शेखर के सृजन-क्षणों की व्याख्या

है। दूसरे में हिन्दी के नासमझ पाठक उसे कही लेखक की आत्म-जीवनी न समझ बैठें इस बात का सतर्क और सप्रमाण—आधुनिक अंग्रेजी साहित्यकार इलियट के साक्ष्य के साथ—प्रतिषेध है। और तीसरे में शेखर के प्लान की ओर संकेत है। इनमें पहिला और तीसरा भाग जितना सत्य और सटीक है, दूसरा भाग उतना ही झूठ लगता है—लगता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे अधिक समर्थ शब्दावली का प्रयोग कर नहीं सकता हूँ। आप एकबार फिर भूमिका के इस द्वितीय चरण को पढ़िए; और मुझे विश्वास है कि आप भी यह आसानी से पकड़ पाएँगे कि उस में एक ऐसा आदमी झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहा है जिसे उसका अभ्यास नहीं है। इसीलिए उसकी तर्क-पद्धति में असङ्गति है, उसके वाक्यों में उल्लङ्घन है, जैसे कोई सत्य का गला घोट रहा हो और वह छटपटा रहा हो। इलियट के क्लासिकल आदर्श की दुहाई इतने जोर से देने के पूर्व अज्ञेय ने एक बात नहीं सोची कि रूढ़िवादी विचार-धारा के कवि इलियट और रूढ़ि को किसी भी रूप में सत्य न मानने वाले शेखर के स्रष्टा में कम-से-कम जीवन-दर्शन का कोई साम्य नहीं है। फिर कोई भी व्यक्ति अपने सभी कवचों के बावजूद भी इतना अज्ञेय नहीं बन सकता कि दूसरे उसके विषय में सर्वथा अंधकार में ही रहें और अपनी आँखों से न देखकर जो वह कह दे उसे मान लें। हमारी यह धारणा है कि शेखर और अज्ञेय में भोक्ता और कलाकार का अन्तर मानना दोनों के प्रति अन्याय करना है। अतएव हम यह मानकर चलते हैं कि शेखर अज्ञेय के अपने ही जीवन का प्रत्यालोकन है और उसकी घटनाएँ जीवन के प्रति सच्ची हैं—जो नहीं हैं वे जबरदस्ती तोड़ी-मोड़ी और गढ़ी हुई साफ़ नज़र आ जाती हैं।

शेखर के पढ़ने के उपरान्त पाठक के मन पर दो प्रभाव पड़ते हैं। एक अभिभूत करने वाली शक्ति का और दूसरा गहरी करुणा का। गहरी से मेरा अभिप्राय यह है कि इसकी करुणा सतह पर नहीं है। अतएव उसमें तुरन्त ही हृदय को काटने वाली करुणा नहीं मिलती, दूर पहुँच कर गहरे में कचोटने वाली करुणा ही मिलती है। परन्तु ये दोनों तत्त्व पृथक् नहीं हैं—इनमें पूर्वापर कार्य-कारण सम्बन्ध स्पष्ट है—अर्थात् यह शक्ति ही अन्त में अपनी एकान्तता में करुणा बन जाती है।

शेखर की शक्ति उसके अदम्य अहङ्कार की शक्ति है जो अभ्रभेदी त्रिशूल की तरह ऊपर को बढ़ रही है। शेखर की जितनी घटनाएँ हैं वे जैसे

एक माला के मनके हैं जिन का सुमेरु है उसका अहं । उसने पाना ही जाना है देना नहीं । इस विषय में आप बस उसकी एक उक्ति ही सुन लीजिए— “मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति-पूजक चाहिए । मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर में देखूँ, मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे । यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिएँ, पर उन्हें मैं स्वयं बना सकता हूँ । मुझे चाहिए आदर्श वा उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता । अपने लिए ईश्वर-रचना मेरे बस में है, लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी—वह नहीं...” आरम्भ से ही उसने अहङ्कार को इतने समग्ररूप में स्वीकृत कर लिया है कि वह अपने सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों से उसके पोषण की माँग करता है । पुरुषों से वह आदर माँगता है, स्त्रियों से प्यार । और वे जैसे जैसे उसकी इस माँग को पूरा करते हैं उसी के अनुसार उनकी उनके प्रति प्रतिक्रिया होती है । पिता की कठोरता को भी उसने जो एक भव्य-रूप दिया है, उसका भी एकमात्र कारण यही है कि उनकी अपनी गौरव-भावना और कठोरता के नीचे ऐसा कुछ उसे अवश्य मिल जाता है जो बड़े अभिमान में उनके अहं को टुलराता है । माँ को उसके प्रति स्नेह नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता । परन्तु वे बेचारी उसकी यह माँग पूरी करने में असमर्थ नहीं । इसलिए उसने जीवन-भर उन्हें क्षमा नहीं किया । इस विषय में वह इतना निर्मम है कि माँ को घृणा का पहला पाठ पढ़ाने का श्रेय भी वह नहीं दे सकता । उसके जीवन में कई स्त्रियाँ थोड़े-थोड़े समय के लिए आती हैं । पहिले उसकी बड़ी बहन सरस्वती, फिर शीला, फिर शारदा । रुग्णा शान्ति का भी नाम लिया जा सकता है । ये सभी उसे प्यार देती ही हैं । जो कुछ पाती हैं वह अधिक-से-अधिक एक हत्का-सा आत्म-द्रव ही होता है : उसमें वह सम्पूर्ण आत्म-प्रणति नहीं होती, वह आत्मोत्सर्ग नहीं होता जिसे प्यार का पूरा नाम दिया जा सके ।

अब दो व्यक्ति रह जाते हैं जिनके प्रति वह प्रणत होता है—एक बाबा मदनसिंह, दूसरी शशि । यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या बाबा मदनसिंह के प्रति भी वह आत्म-प्रणति का अनुभव नहीं करता, और क्या शशि के प्रति भी उसकी भावना आत्मोत्सर्ग नहीं है ? बाबा मदनसिंह का यातना-पूत व्यक्तित्व उसको मुका देता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु आप थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो आप को स्पष्ट हो जायगा कि बाबा की विनय में और उनके सूत्रों में बराबर उसके अहं को खाद्य मिलता रहा है । अपने

को झुका कर तोड़ देने वाले इस व्यक्ति के सूत्रों में शेखर को अपने अहंवाद का जो समर्थन मिला वह अन्यत्र दुर्लभ था ।

अब शशि को लीजिए । जिस शशि के लिए वह इतना संघर्ष करता है, इतने कष्ट सहता है, जिसके उपचार में वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, जिसके प्रति उसका सम्पूर्ण अन्तर्वाह्य तुषारधवल गिरि-शृंग की तरह पिघल उठता है, क्या उसके प्रति वह आत्मा का उत्सर्ग नहीं करता ? वास्तव में शशि-शेखर का अंतिम प्रसङ्ग रस से इतना भोगा हुआ है कि यहाँ तो 'हाँ !' कह देने का लोभ हो उठता है । परन्तु यहाँ भी शेखर के स्वयं अपने शब्द उद्धृत कर हम अपनी धारणा को ही पुष्ट करेंगे ।

“तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढाया जाकर तेज़ होता रहा है, जिस पर मँज-मँज कर मैं कुछ बना हूँ जो संसार के आगे खड़ा होने में लज्जित नहीं है ।... तुम जीवित नहीं हो । मेरे, शेखर के, बनने में ही तुम टूट गई हो—शायद स्वयं शेखर के हाथों ही टूट गई हो ।” आप देखिए, शशि का अस्तित्व शेखर के लिए है, शेखर का शशि के लिए नहीं ! अपने भव्यतम क्षणों में भी शेखर नहीं भूल पाता कि उसका और शशि का सम्बन्ध तलवार और सान का सम्बन्ध है । सान का अस्तित्व तलवार के लिए है—इसलिए शशि ही शेखर के लिए जीती है, उसी के लिए मर जाती है । इतना बलिष्ठ अहं-इससे कम खाद्य पाकर क्या सन्तुष्ट होता !

शेखर और उसके स्रष्टा को एकरूप देखने वाला पाठक यहाँ आकर इस घटना पर चौंक सकता है । परन्तु यह एक सतर्क क्रिया है । यहाँ अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक अज्ञेय ने इलियट के सिद्धान्त को अपनाते हुए अपने आत्म से पलायन क्रिया है । उसकी ज़रूरत और तकलीफ़ आसानी से समझी जा सकती है—आत्म-कथा लिखने में पूर्ण सत्य का निर्वाह शायद कोई गांधी ही कर पाता हो !

इतना सर्व-ग्राही अहं निश्चय ही अपनी नग्नता में एकान्त और एकान्तता में करुण होगा—यह एक सहज परिणाम है; इसी लिए तो मैंने कहा कि शेखर की महत्ता और दीनता में अभिन्न सम्बन्ध है । मैंने आरम्भ में ही कहा था कि शेखर जीवन का एक अध्ययन है । परन्तु यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज या युग का जीवन नहीं है । मेरा यह मत अज्ञेय की अपनी स्थापना से भिन्न है । वे कहते हैं कि शेखर एक व्यक्ति का अभिन्नतम

अज्ञेय और शेखर

निजी दस्तावेज़ होने के साथ युग-संघर्ष का भी प्रतिबिम्ब है। उनका आग्रह है कि उसमें उनका समाज और उनका युग बोलता है। निस्संदेह शेखर में उसके स्रष्टा के समाज और युग की जाति-वैषम्य, हिंसा-अहिंसा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति आदि गम्भीर समस्याओं का विश्लेषण अत्यन्त सूक्ष्म-गहन है। परन्तु उसमें समाज और युग नहीं बोलते, शेखर—अज्ञेय ही बोलता है। यह सभी समाज के प्रवहमान जीवन का अंग नहीं है, शेखर की चेतना—उसके चिन्तन का ही अंग है। यह विवेचन सामाजिक जीवन के आलोडन में नहीं निकला, शेखर की अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का ही समीकरण है। और स्पष्ट शब्दों में, इन प्रश्नों का विवेचन जीवित नहीं है, केवल विचारित है। इस लिए वह विश्लेषण पर समाप्त हो जाता है—संश्लेषण और समाधान पर नहीं पहुँच पाता। मैं अपनी पुष्टि के लिए एक बार फिर शेखर के ही शब्दों की शरण लेता हूँ—“जो व्यक्ति के लिए ऊँची-रो-ऊँची चोटी तक ऊबड़-खाबड़ पनाहगढ़ी दिखाने को तय्यार है, किन्तु समाष्टि के लिए थोड़ी-सी दूर तक भी प्रशस्त पथ बतलाने के लिए रुक नहीं सकता।” पूछा जा सकता है कि आन्दोलन व्यक्ति के लिए ही शेखर क्या देता है? तो वास्तव में, जैसा मैंने आरम्भ में ही कह दिया है, अभी उसकी देन सूर्तरूप में, एक बंधे हुए सन्देश के रूप में, सामने नहीं आई। हो सकता है तीसरे भाग में आए—और बहुत मुमकिन है न भी आए। क्योंकि अज्ञेय स्वयं ऐसा कुछ पा सके हैं, इसमें ही क्या संदेह है—उनके प्रयोग अभी तो चल ही रहे हैं।

फिर भी शेखर की आत्म-अनुभूति बड़ी तीव्र और सच्ची है। और उसकी बुद्धि इतनी ही खरह है। इसलिए अपने अनुभूत सत्य को बुद्धि के द्वारा अन्वित करके सूत्र रूप में उपस्थित कर देना उसके लिए अत्यन्त सहज हुआ है। और, शेखर हम जीवन के चिर-सौलिक प्रश्न अहं से सम्बद्ध कुछ आत्मानुभूत सूत्र देता है।

“दुःख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता है।”

“किसी के विरुद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है—किसी के लिए लड़ना भी जरूरी है।”

पहिला सूत्र शशि ने दिया है, दूसरा उसी के आलोक में शेखर ने प्राप्त किया है। सन्देश के नाम पर शेखर के दो भागों में इतना ही है।

अज्ञेय और शेखर

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शेखर का अपना कोई जीवन-दर्शन नहीं है—तात्त्विक धरातल पर वह कार्य-कारणवाद को काफ़ी मज़बूती से पकड़े बैठा है। जीवन-और जगत के सभी तथ्यों की कार्य-कारण-परम्परा में उसका अखण्ड विश्वास है। यह मूलतः उसे अपने अहंवाद और फिर आधुनिक विज्ञान विशेषतः मनोविश्लेषण-विज्ञान की देन है। कार्य-कारणवाद एक अभावात्मक दर्शन है। वह जीवन का विश्लेषण करके छोड़ देता है, संश्लेषण तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए भारत में बहुत गहिले से और विदेश में भी काफ़ी दिनों से उसका विरोध होता रहा है। इसी कारण शेखर तत्व के धरातल पर नास्तिक है और समाज के धरातल पर निरुद्देश्य क्रांतिकारी, जो एतादृशन्व मात्र को उलटने के लिए सर टकरा रहा है। यह कार्य-कारणवाद शेखर के जीवन को कुछ दे पाया या नहीं—[और वास्तव में 'नहीं' कहना सर्वथा मिथ्या होगा क्योंकि वह शेखर के सुख का कारण तो नही रहा परन्तु शक्ति का कारण अवश्य रह है]—परन्तु उसकी कला को उसने एक अमूल्य निधि भेंट की है।

यह है उसकी बौद्धिक तटस्थता जो अपनी निर्ममता के कारण विश्लेषण के क्षेत्र में अद्वितीय है। मनोगुम्फो की तर्कों में इतना गहरा घुसने वाला कलाकार हिन्दी उपन्यास ने दूसरा पैदा नहीं किया। आप कहीं पर देख लीजिए, लेखक की दृष्टि जैसे तथ्य के भीतर घुसती ही चली जाती है—भीतर बहुत भीतर, जहाँ उसका कारण छिपा बैठा है। उससे पहिले वह नहीं रुकती, नहीं रुक सकती। बस, फिर पर्त के पर्त खुलते चले जाते हैं। यह तटस्थता शेखर को काफ़ी ईमानदार बना देती है—दूसरो के प्रति भी और अपने प्रति भी। दूसरो के विश्लेषण में तो उसकी दृष्टि वस्तुगत ही है; अपने प्रति भी वह काफ़ी हद तक वस्तुगत ही है। इतने भयङ्कर अहंवाद और उस पर आश्रित आत्म-प्रश्रय के बावजूद उसने चित्रण में दूर तक वस्तुगत दृष्टि को स्थिर रखा है, यह कलाकार की बहुत बड़ी विजय है।

यहाँ अपनी बात को ज़रा और स्पष्ट करना होगा। अहंवाद व आत्म-प्रश्रय और वस्तुगत-दृष्टि क्या ये दोनो परस्पर विरोधी नहीं हैं? जो आत्म-प्रश्रय का अभ्यस्त है वह अपना वस्तुगत चित्रण कैसे कर सकता है? परन्तु बात ऐसी नहीं है। अहंवाद तो शेखर के लिए एक सत्य है, एक अनिवार्य तथ्य है, जिसे वह पूर्णरूप से स्वीकार कर चलता है। परन्तु उसको स्वीकार करने के बाद,

अज्ञेय और शेखर

उसको अनिवार्य तथ्य मान लेने के उपरान्त, वह जैसे उसके प्रति तटस्थ होने का पूरा प्रयत्न करता है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वह अवश्य ही या तो उससे पीड़ित होकर उसकी भर्त्सना करता या उसमें गौरव की अनुभूति करता। परन्तु वह इन दोनों भावगत या आत्मगत प्रतिक्रियाओं को काफ़ी हद तक अज्ञात हुआ अपने विप्लवण को बौद्धिक एवं वैज्ञानिक बनाए रखने में सफल हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि उसके रङ्ग प्रायः चटकीले नहीं हुए।

अतएव कम-से-कम जहाँ तक अज्ञेय का सम्बन्ध है वहाँ तक शेखर की वस्तुगत दृष्टि काफ़ी स्थिर रही है। आत्मगत भावना है तो उसमें अनिवार्यतः ही, परन्तु वह बड़ी प्रच्छन्न और सूक्ष्म-तरल है। उदाहरण के लिए आरम्भिक भावना में शेखर को स्पष्ट ही बहुत कुछ काट-छाँट करनी पड़ी है। उसमें एक भी घटना ऐसी नहीं दी गई जो उसकी बुद्धता की धोतक हो। परन्तु इतनी आत्मगत भावना का अधिकार तो गान्धिय-मृजन के लिए अनिवार्यतः देना ही पड़ेगा। आत्मभाव के इसी सूक्ष्म संयमन के कारण ही शेखर की अंकन-कला हिन्दी की एक विभूति बन गई है। वह अण्ठी कारीगरी और नक्काशी में एकदम पूरी है।

आप कल्पना कीजिए मृत्यु के साक्षात्कार से दीर्घ एक पारदर्शी क्षण। उसमें सहज रूप से जीवन का प्रत्यालोकन। धीरे-धीरे जीवन की घटनाएँ उठती हुई चली आती हैं। पहिले वे जिनका व्यक्ति के अन्तरतम पर सब से गहरा प्रभाव है : जो उसके निर्माण के मूल-तत्त्वों से सम्बद्ध हैं। फिर धीरे-धीरे उनके साथ गुँथी हुई प्रासङ्गिक घटनाएँ। इस घटना-चक्र का केन्द्र है व्यक्ति का अहं जो कार्य-कारण के सूत्र में इन सभी को गुम्फित कर देता है। घटनाएँ स्वभावतः बिखरी हुई हैं। परन्तु वे अहं के विद्युत-सूत्रों से खिंचकर इतने सहज रूप में समीकृत हो गई हैं—करदी गई हैं—कि उनका गुम्फन सर्वथा निर्दोष बन गया है।

फिर इसके उपरान्त उनके सूक्ष्म अवयवों पर पञ्चीकारी की गई है—अंकन में अन्विति और अलंकरण दोनों का सौन्दर्य आ गया है। अवयवों का यह अलंकरण अनायास ही शेखर की समृद्ध भाषा की ओर संकेत करता है, जो अपनी प्रौढ़ि और सौन्दर्य में अद्वितीय है। वह मनोगुम्फों की उलझनों को इतनी स्वच्छता से चित्रित करती है और मन और मस्तिष्क की तरल

सूक्ष्मताओं को इतनी बारीकी से शब्द-बद्ध करती है कि पाठक को चकित रह जाना पड़ता है। उसमें तीखी वीचियों से खेलने वाली सूक्ष्मता है, आवेश को भर लेने वाली उष्णता है और उदात्त क्षणों में विराट् अनुभूति तक उठने की महान् शक्ति है। सर्वत्र आपको ऐसा लगेगा कि अनुभूति पर जैसे तीव्र चिन्तन की धार ने शान रख दी हो और वह चमक उठी हो। शेखर की साधारण पंक्तियाँ भी इस चमक के बिना नहीं मिलेंगीं, भाव-दीप्त प्रसङ्गों की तो बात ही क्या ? वास्तव में केवल भाषा की दृष्टि से ही हिन्दी गद्य के विकास में शेखर एक बहुत बड़ा मार्गस्तम्भ है। गद्य-निर्माताओं में अज्ञेय का नाम चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकरप्रसाद और राहुल सांकृत्यायन आदि के साथ लिया जायेगा।

शेखर से मुझ को और मेरे समान हिन्दी के और भी बहुत से पाठकों को एक शिकायत रही है। उसमें रस क्षीण है, या यों कहें उसमें रस के क्षण अत्यन्त विरल हैं। पहिले भाग का, उत्तरार्ध—शारदा के प्रसङ्ग को छोड़ कर—और दूसरे भाग का पूर्वार्ध पढ़ने में काफी बोझिल लगते हैं। केवल मन को रमाने के लिए पढ़ने वाले पाठक को उनको पार करने में प्रयत्न करना पड़ेगा। परन्तु जैसा मैंने एक और स्थान पर कहा है शेखर का आनन्द बौद्धिक आनन्द है—तटस्थता का आनन्द, भाव के संयम का आनन्द है। वह आत्म-संरक्षण का आनन्द है, जो आत्मदान के आनन्द से भिन्न है, और कहा जा सकता है कि निम्नतर भी है। सत्य का, वस्तु का, भरसक ईमानदारी से अपने राग-द्वेषों को दूर रखकर चित्रण करना, साधारण से कहीं अधिक मानसिक-शिचण और संतुलन की अपेक्षा करता है। इस शिचण और संतुलन में एक प्रकार के बुद्धि-नियन्त्रित संयम का आनन्द है, और यह आनन्द शेखर के विश्लेषण में आपको अनिवार्यतः मिलेगा।

दूसरे प्रकार के आनन्द का भी अत्यन्त अभाव नहीं है। जहाँ-जहाँ शेखर अपने को ढीला कर पाया है वही दूसरे प्रकार के आनन्द की भी लहरें उसके आत्म-वद्ध प्राणों से फूट पड़ी हैं। ये लहरें सघन नहीं हैं। परन्तु इनमें एक तीव्रता अवश्य है जैसी कि बन्धन तोड़कर उछलने वाली पतली-से-पतली धारा में भी होती है। प्रकृति के चित्रों में; सरस्वती, शीला, शान्ति और शारदा के प्रसङ्गों में; और मोहसिन और रामजी के संकेत-चित्रों में यह बात स्पष्ट है। रुग्णा शान्ति से उसके गले की स्नायु-रेखा का स्पर्श करने की प्रार्थना कितनी सरस-कोमल है ! इन सबसे आगे शशि का प्रसङ्ग है, जहाँ शेखर

अज्ञेय और शेखर

आत्म-चेतना को लगभग डुबो ही देता है। साल भर तक घनीभूत तुपार-राशि को आपने ग्रीष्म सूर्य की किरणों से पहिले धीरे-धीरे फिर पुञ्ज-रूप में पिघलते हुए देखा है ? न देखा हो तो कल्पना कर लीजिए। तब आपको शशि-शेखर प्रसङ्ग के पूत-सौन्दर्य का अनुभव हो सकेगा। तब आप सहज ही समझ सकेंगे कि पूर्व और पश्चिम की दृष्टि में जो जघन्य पाप है—बहिन के प्रति रति—उमको पवित्र रूप देने के लिए हृदय में कितने सतोगुण की आवश्यकता हुई होगी।

इस अन्तिम रस-स्थिति पर पहुँच कर मेरा मन यात्रा के सभी श्रमको भूल कर लेखक के प्रति एक अभिश्रित कृतज्ञ-भाव से भर जाता है। क्या आप मुझ से सहमत नहीं हैं ?

